



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1993 (आश्विन 3, 1915)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1993 (ASVINA 3, 1915)

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक, 9 सितम्बर 1993

निकाल कर पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा

एस० के० सुम्सन
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

इन्फैन्ट्री स्कूल, महु

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1993

सं० ए०-38011/6/93-स्य ०-1—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त) में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री आर० के० पाल को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली-1972 के नियम 48-क के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 9 सितम्बर, 1993 के पूर्वाह्न [से सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. तदनुसार श्री आर० के० पाल, का नाम दिनांक 9 सितम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय की संख्याकित से 1-254GI/93

सं० 860, दिनांक 25 अगस्त, 1993—श्री रमेश चन्द शर्मा, स्थायी पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-II को 17 जून, 1993 से इन्फैन्ट्री स्कूल, महु में स्थापित पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-I के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वी० के० कैम,
एस० सी० ओ०,
जी० एस०/एम० टी०-7

सेना मुख्यालय
(जी० ए० ब्रांच)

सं० 861, दिनांक 13 अगस्त, 1993—सक्षम अधिकारी श्री सूरज प्रकाश, आशुलिपिक ग्रेड 'ए' को ए० ए० एच० क्यू० आशुलिपिक सेवा में, प्रिंसिपल प्राइवेट सैन्ट्रेटरी के पद पर (ग्रुप ए—वेतनमान रु० 3000—4500), 28 फरवरी, 1991 से स्थानापन्न आधार पर लम्बी अवधि के लिए नियुक्त करते हैं :—

2. श्री सूरज प्रकाश दो वर्ष की अवधि के लिए परखाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी की इच्छानुसार बढ़ाया जा सकता है।

पी० एन० मौलिक,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्र०)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 862, दिनांक 18 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से तथा स्थापना में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' के पद पर :—

श्री वी० सिलवागणेशन, वैज्ञा० 'बी' एन० एस० टी० एल० विशाखापट्टनम—19 नवम्बर, 1992 (पूर्वाह्न)।

श्री गिरधारी कुमार, वैज्ञा० 'बी' आर० टी० ओ० (इंजीनियर्स), बंगलूर—05 सितम्बर, 1991 (पूर्वाह्न)।

श्री जी० पी० श्रीराम, ए० पी० एम० को दिनांक 09 सितम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) से सी० सी० ई० (आर० एड डी०), सिकन्दराबाद में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' के पद पर।

आर० के० शर्मा
सहायक निदेशक (कार्मिक)

(नेवी ब्रांच)

नौसेना मुख्यालय

सं० 863, दिनांक 16 अगस्त, 1993—श्री गुरवीर सिंह, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी को दिनांक 01 जून, 1993 से 25 अक्टूबर, 1993 तक अथवा नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत सिविलियन स्टाफ अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों के बिना सूचना के रह की जा सकती है।

पी० एन० मौलिक,
उप-मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा०)

(थल सेना विभाग)

सं० 864, दिनांक 25 अगस्त, 1993—निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल किया जाता है। पद और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार सोम नाथ (जे० सी०—144819 एम), पहले दो मैक इन्फैन्ट्री रेजिमेंट—01 दिसम्बर, 1991।

सूबेदार परमेशरी दास (जे० सी०—130607 डब्ल्यू) पहले दो डोगरा रेजिमेंट—07 मार्च, 1992।

सूबेदार आनन्द सिंह नेगी (जे० सी०—112882 एन) पहले दो गढ़वाल राइफल्स—13 जून, 1992।

सूबेदार भंवर सिंह (जे० सी०—128827 एफ) पहले दो आर्मड कोर—15 जून, 1992।

सूबेदार राम सिंह यादव एस० एम० (जे० सी०—123528 वाई) पहले आर्टिलरी—20 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार तारा चन्द (जे० सी०—169737 पी) पहले आर्टिलरी—25 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार नेत राम (जे० सी०—190581 डब्ल्यू) पहले आर्टिलरी—10 जून, 1992।

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०—149989 ए) पहले डी० ई० जी०—13 जून, 1992।

नायब सूबेदार जान सिंह (जे० सी०—172801 एम) पहले जैक राइफल्स—13 जून, 1992।

नायब सूबेदार गणेश तमंग (जे० सी०—151485 एल) पहले 1/11 गोरखा राइफल्स—15 जून, 1992।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०—126421 पी)
पहले दो पंजाब रेजिमेंट—15 जून, 1992।

नायब सूबेदार बलराम मोरे (जे० सी०—146586 पी)
पहले बी० ई० जी०—10 सितम्बर, 1992।

नरेन्द्र सिंह
डिस्क अधिकारी

(वायु शाखा)

सं० 865, तारीख 24 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (पारवार्धन) प्रदान
किया गया था की पुष्टि करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी
गई तारीख से प्लाईग अफसर के मूल रैंक में पदोन्नति करने
हैं :—

भारतीय वायु सेना
(उड़ान पायलट शाखा)

पायलट अफसर साजन शिवारमन (21807)—
13 जून 93।

डैनिस नैथानिल (21808)—13 जून 1993।

पराजुल सिंह (21809)—13 जून 1993।

अभिजीत सी० गोखले (21811)—13 जून 1993।

राजेश रनवान (21812)—13 जून 1993।

जयदीप बैनर्जी (21813)—13 जून 1993।

योगेश जगन्नाथ जोशी (21814)—13 जून 1993।

श्रीपद टोकेकर (21815)—13 जून 1993।

अरविन्द सिंह (21816)—13 जून 1993।

अजीत मीनाथ सापरे (21817)—13 जून 1993।

संजीव वषिष्ठ (21818)—13 जून 1993।

आशुधर (21820)—13 जून 1993।

प्रवीण प्रकाश (21821)—13 जून 1993।

रनवीर सिंह (21822)—13 जून 1993।

पिनाकी भौमिक (21823)—13 जून 1993।

रजीव ठाकरन (21824)—13 जून 1993।

संजय महादेव बावले (21826)—13 जून 1993।

बलजीत सिंह (21827)—13 जून 1993।

मुकेश तिवारी (21828)—13 जून 1993।

दिलिप खुखणा (21829)—13 जून 1993।

मनीश सहदेव (21830)—13 जून 1993।

मंदीप सिंह गील (21832)—13 जून 1993।

अनुज गुप्ता (21833)—13 जून 1993।

सदीप सिंह छावरा (21834)—13 जून 1993।

जयदीप चक्रवर्ती (21835)—13 जून 1993।

प्रवीण कुमार (21836)—13 जून 1993।

गोपाल सिंह बिशन (21837)—13 जून 1993।

साजल कुन्दु (21838)—13 जून 1993।

एम० अरुणाचलम (21839)—13 जून 1993।

अनिल कुमार दुदपुरी (21840)—13 जून 1993।

धीरज मंतग (21841)—13 जून 1993।

जयमित्रा (21842)—13 जून 1993।

महेश सिंह भंडारी (21843)—13 जून 1993।

त्रिजय शंकर राणा (21844)—13 जून 1993।

राजन पुरी (21846)—13 जून 1993।

राजीव कुमार चौधरी (21847)—13 जून 1993।

डी० के० सुरेश (21848)—13 जून 1993।

सनयाम प्ररेक (21849)—13 जून 1993।

निरज सिंह यादव (21850)—13 जून 1993।

मनीश पहवा (21851)—13 जून 1993।

हरपरीत सिंह मलहोत्रा (21852)—13 जून 1993।

सचीन कपूर (21853)—13 जून 1993।

श्रीनिवास अथिपोथा गोपाल (21854)—13 जून 1993।

तिजेन्द्र सिंह माटु (21855)—13 जून 1993।

सुधांशु स्वामी (21856)—13 जून 1993।

जी० लक्षमण (21857)—13 जून 1993।

राजेश वालिया (21858)—13 जून 1993।

अजय सिंह यादव (21859)—13 जून 1993।

राजेश मनकोटिया (21860)—13 जून 1993।

पायलट अफसर बिभूति प्रकाश (21862)—13 जून
1993।

संदीप भार्गव (21863)—13 जून 1993।

दीपक शर्मा (21864)—13 जून, 1993।

(थल सेना विभाग)

विधुल घोष (21865)—13 जून, 1993।

सं० 866, तारीख 27-8-93—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

आनन्दा मुकर्जी (21867)—13 जून, 1993।

राजेश नारायण (21869)—13 जून, 1993।

नियमित सेना

आगस्तीन बी राजु (21870)—13 जून, 1993।

स्थायी कमीशन

आशीश प्रकाश (21871)—13 जून, 1993।

कैप्टन सा मेजर

मनीश कुमार (21873)—13 जून, 1993।

काजी इरफान अहमद (21875)—कमीशन—13 जून, 1992—पदोन्नति—13 जून 1993।

ए० के० श्रेष्ठन (आई० सी०—34589), इन्फैंट्री, (एस० के० मोहन्त) (आई० सी०—34623), अर्टी 7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन पर खर्चीन प्रदान किया गया था उनकी पुष्टि करते हैं तथा उनके सामने दी गई तारीख में पलाईश अफसर के मूल रैंक में पदोन्नति करते हैं :-

वी० के० प्रसाद (आई० सी०—37322), ए० श्री० सी० 7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

भारतीय वायु सेना
(उड़ान नैविगेशन शाखा)

पी० डी० एन० किशोर (आई० सी०—35774), सिगनल, ए० मुखर्जी (आई० सी०—35777) अर्टी, पी० डी० मजूमदार (आई० सी०—35897), ई० एम० ई०, 7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

पयलट अफसर मनीश कुमार सिन्हा (21969)—13 जून, 1993।

अशोक मदन (आई० सी०—38233), इंजीनियर्स, आर० कुमार (आई० सी०—38237), इंजीनियर्स, 12-6-88 (वेतन और भत्ते के लिए 4-9-89)।

कमलेश वहदुर सिंह (21971)—13 जून, 1993।

जी० पी० एस० संघू (आई० सी०—35241), इन्फैंट्री, एस० वी० नाथन (आई० सी०—35334), सिगनल 7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

महेश एन भविवर (21972)—13 जून, 1993।

ए० के० सिंह (आई० सी०—35455), इंजीनियर्स, 7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

दीपक काशीनाथ नेरकर (21973)—13 जून, 1993।

अविनाश बारगे (आई० सी०—30154), अर्टी 7-3-91 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

ब्रजेश कुमार चौहान (21974)—13 जून, 1993।

एस० एस० यदव (आई० सी०—37743), ए० सी० 29-4-92 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

बलजीत सिंह (21975)—13 जून, 1993।

एन० एस० मुजलाना (आई० सी० 37629), ए० श्री० सी०, 30-4-93।

बी० जोहन डिमुजा (21976)—13 जून, 1993।

एस० एस० रठौर (आई० सी०—30915), अर्टी, 7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

नागसुन्दरम भागवती (21978)—13 जून, 1993।

पंकज सूद (आई० सी०—35043), इंजीनियर्स, 7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

गजेरम बाबू (21979)—13 जून, 1993।

अशोक कुमार सिंह (आई० सी०—40656), ई० एम० ई० 12-6-91।

कौशिक कुमार घोष (21980)—13 जून, 1993।

राजगोपाल लक्ष्मीपति (21981)—13 जून, 1993।

मोहम्मद अफतम चौधरी (21982)—13 जून, 1993।

नवल सैनी (21983)—13 जून, 1993।

अजय गरौला (21984)—13 जून, 1993।

अभिषेक कुमार सिंह (21985)—13 जून, 1993।

ए० एम० एम० सेलवा अनानथ (21986)—13 जून, 1993।

अनुराग गुप्ता (21987)—13 जून, 1993।

अजीत मोहन्ती (21988)—13 जून, 1993।

नटराज बालः सुब्रह्मनयन (21989)—कमीशन—13 जून, 1992—पदोन्नति—13 जून 1993।

डी० ज्योती (आई० सी०—41052), डी० के० रस्तोगी (आई० सी०—41063) ई० एम० ई०—24-12-91।

एस० वी० गोपाडे (आई० सी०—37863) इंजीनियर्स—27-10-90, आर० के० वर्मा (आई० सी०—37864), ई० एम० ई०—27-10-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92)।

एच० बी० शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर

अर० पी० पांडे (आई० सी०-37701), ए० ओ० सी०,
(वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92) ।

एम० एम० कौल (आई० सी०-38636), इंजीनियर्स,
7-9-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92) ।

जे० एस० गिल (आई० सी०-33176), ए० ओ० सी०,
7-9-88 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92) ।

ईशाद अहमद (आई० सी०-37253), इन्फैंट्री, 7-9-90
(वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92) ।

जोगिन्द्र प.ल सिंह (आई० सी०-40284), ई.एम.ई.,
23-12-90 (वेतन और भत्ते के लिए 7-9-92) ।

लैफ्टिनेंट से कैप्टन

एन० कोछर (आई० सी०-41132), ए० सी०-18
जून, 1988 ।

आलोक राज (आई० सी०-41154), इन्फैंट्री-18
जून, 1988 ।

पुभाष चन्द (आई० सी०-41188), इंजीनियर्स-18
जून, 1988 ।

के० बी० सिंह (आई० सी०-41194), ए० सी०-18
जून, 1988 ।

आर० एस० रावत (आई० सी०-41223), इन्फैंट्री-
18 जून, 1988 ।

संजीव कुमार (आई० सी०-41240), इंजीनियर्स-18
जून, 1988 ।

चन्द्र पुरी (आई० सी०-41263), ई० एम० ई०-18
जून, 1988 ।

रवि कुमार (आई० सी०-41275), आर्टिलरी-18
जून, 1988 ।

एम० मोहन दास (आई० सी०-41286), आर्टिलरी-
18 जून, 1988 ।

पी० के० मेहता (आई० सी०-41350), सिगनल्स-18
जून, 1988 ।

एस० बी० राज (आई० सी०-41361), आर्टिलरी-18
जून, 1988 ।

सी० मैसी (आई० सी०-41378), ई० एम० ई०-18
जून, 1988 ।

एम० अधिकारी (आई० सी०-41174), इन्फैंट्री-18
जून, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 29 नवम्बर, 1988 से) ।

हरदयाल सिंह (आई० सी०-41364), ई० एम० ई०-
18 जून, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी, 1989
से) ।

बी० एस० शेखावत (आई० सी०-41401), आर्टिलरी
-18 जून, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी,
1989 से) ।

एस० एस० राठौड़ (आई० सी०-41422), ए० एफ० सी०
-18 जून, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी,
1989 से) ।

अमित कंसल (आई० सी०-41423), आर्टिलरी-
-18 जून, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी,
1989 से) ।

जी० के० सिंह (आई० सी०-41427), इन्फैंट्री-
18 जून, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी,
1989 से) ।

दया चन्द (आई० सी०-41518), इन्फैंट्री-17
दिसम्बर, 1988 ।

आर० गुप्ता (आई० सी०-41547), मेक० इन्फैंट्री-
17 दिसम्बर, 1988 ।

समीर मान सिंह (आई० सी०-41548), इंजीनियर्स
-17 दिसम्बर, 1988 ।

आर० एन० घोष (आई० सी०-41567), आर्टिलरी-
17 दिसम्बर, 1988 ।

ए० के० शर्मा (आई० सी०-41573), इन्फैंट्री-17
दिसम्बर, 1988 ।

पी० एस० गुप्ता (आई० सी०-41573), इन्फैंट्री-
17 दिसम्बर, 1988 ।

जे० एस० लोटे (आई० सी०-41591), आर्टिलरी-
17 दिसम्बर, 1988 ।

ए० निवारी (आई० सी०-41626), इन्फैंट्री-17
दिसम्बर, 1988 ।

आर० प्रमोद (आई० सी०-41630), इन्फैंट्री-17
दिसम्बर 1988 ।

बी० कुमार (आई० सी०-41639), आर्टिलरी-17
दिसम्बर 1988 ।

ए० एस० सोढी (आई० सी०-41647) ए० सी०-17
दिसम्बर 1988 ।

आर० के० बाली (आई० सी०-41650) ए० सी०-
17 दिसम्बर 1988 ।

अजय तोमर (आई० सी०-41654) सिगनल्स-17
दिसम्बर, 1988 ।

राजीव गुप्ता (आई० सी०-41655), आर्टिलरी-
17 दिसम्बर, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी
1989 से) ।

ए० शर्मा (आई० सी०-41656), ए० सी०--17
दिसम्बर, 1988।

ए० नन्दा (आई० सी०-41622), ए० सी०--17
दिसम्बर, 1988।

वी० के० खन्ना (आई० सी०-41670), आर्टिलरी--
17 दिसम्बर, 1988।

के० के० पन्त (आई० सी०-41689), इन्फैन्ट्री--17
दिसम्बर, 1988।

जे० के० सिन्हा (आई० सी०-41710), आर्टिलरी--
17 दिसम्बर, 1988।

एस० गंडोवा (आई० सी०-41727), मैक इन्फैन्ट्री--
17 दिसम्बर, 1988।

वी० मोहन (आई० सी०-41729), सिगनल्स--17
दिसम्बर, 1988।

आर० के० मोगिया (आई० सी०-41731), मैक इन्फैन्ट्री
--17 दिसम्बर, 1988।

जे० ए० रोक (आई० सी०-41734) मैक इन्फैन्ट्री--
17 दिसम्बर, 1988।

संजय दत्ता (आई० सी०-41648), इन्फैन्ट्री--17
दिसम्बर, 1988। (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी,
1989 से)।

प्रवीण शर्मा (आई० सी०-41685), सिगनल्स--17
दिसम्बर, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06 फरवरी,
1989)।

आर०एन० पी० सिंह (आई० सी०-41460), ई०
एम० ई०--03 फरवरी, 1991 (वेतन व भत्ते के लिए
03 फरवरी, 1992 से)।

वी० के० सिन्हा (आई० सी०-40678), इंजीनियर्स
--03 फरवरी, 1991 (वेतन व भत्ते के लिए 03 फरवरी,
1992 से)।

डी० के० रस्तोगी (आई० सी०-41063), ई० एम०
ई०--24 दिसम्बर, 1985 (वेतन व भत्ते के लिए 15
जुलाई, 1986 से)।

आर० वी० वी० एस० जगती (आई० सी०-40503), इन्फैन्ट्री
--12 जून, 1987।

अजय सिंह (आई० सी०-40577), इन्फैन्ट्री--12 जून,
1987।

एस० के० बोस (आई० सी०-37591), इन्फैन्ट्री--
30 अप्रैल, 1985 (वेतन व भत्ते के लिए 16 जुलाई,
1985 से)।

जय प्रकाश (आई० सी०-37363), इन्फैन्ट्री--05
अप्रैल, 1989 (वेतन व भत्ते के लिए 05 फरवरी,
1990 से)।

एम० डी० मंगेश (आई० सी०-39796), आर्टिलरी
20 मार्च, 1987।

के० ए० के० सिंह (आई० सी०-38786), ए० सी०,
07 जून, 1985।

वी० एस० चौकर (आई० सी०-38789), इन्फैन्ट्री--
07 जून, 1985।

एस० सरकार (आई० सी०-37625), ए० ओ० सी०--
04 फरवरी, 1990 (वेतन व भत्ते के लिए 04 फरवरी,
1991 से)।

ए० एस० अहलावत (आई० सी०-39353), ए० ओ०
सी०--06 फरवरी, 1988 (वेतन व भत्ते के लिए 06
फरवरी, 1989 से)।

ए० एस० हुन्डले (आई० सी०-39627) आर्टिलरी--
05 फरवरी, 1989 (वेतन व भत्ते के लिए 05 फरवरी,
1990 से)।

मुशोर शर्मा (आई० सी०-39717), इंजीनियर्स--
05 फरवरी, 1989 (वेतन व भत्ते के लिए 05 फरवरी,
1990 से)।

(थल सेना विभाग)

सं० 867, दिनांक 13 सितम्बर, 1993--राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

अशोक मलिक

सी० एस० औ०

डी० ए० एस० एस०-8 से

(नियमित सेना)

तोपखाना रेजिमेंट

सबस्टेंटिव सूबेदार मेजर (जी० डी०) के पद में

सूबेदार कुन्दन सिंह (आई० सी०-138385 एफ)--
01 जून, 1993।

सूबेदार कासब नागोजी (जे० सी०-138353 वाई)--
01 जुलाई, 1993।

सूबेदार धन पाल (जे० सी०-135163 एफ)--01-
जुलाई, 1993।

सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (आई० सी०-119902
वाई)--01 जुलाई, 1993।

सूबेदार ईश्वर सिंह (जे० सी०-135118 पी)--01
जुलाई, 1993।

सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-114222 पी)--01
जुलाई, 1993।

सूबेदार देविन्दर सिंह (जे० सी०-118229 डब्ल्यू)—
01 जुलाई, 1993।

संसर्गटिव सूबेदार मेजर (ए० आई० जी०)
के पद में

सूबेदार नाथू राम (आई० सी०-116542 एच)—01
जुलाई, 1993।

संसर्गटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-193402 डब्ल्यू)
—01 फरवरी, 1993।

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जे० सी०-172151 के)—
01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार इन्द्र मनी सिंह (जे० सी०-183321
एच)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार सुमेर सिंह यादव (जे० सी०-184024
एफ)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार राम भरोसे (जे० सी०-198757 एल)
—01 जून, 1993।

नायब सूबेदार लक्ष्मण रामचन्द्र गोले (जे० सी०-200879
डब्ल्यू)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह भदौरिया (जे० सी०-
203312 एल)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार हंस राज (जे० सी०-201726 वाई)—
जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार देवी लाल सहारन (जे० सी०-203913
डब्ल्यू)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-149904 वाई)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जे० सी०-164890 एफ)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार चन्द किशोर (जे० सी०-160647 एम)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार नागेंद्र सिंह (जे० सी०-181031 एम)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जुल्फी राम (जे० सी०-182111 डब्ल्यू)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार सत्य देव (जे० सी०-184578 ए)—01
जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार हनुमान प्रसाद (जे० सी०-195158 ए)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार रविन्द्रन के० के० (जे० सी०-195084
डब्ल्यू)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार अभय राज सिंह (जे० सी०-169701
डब्ल्यू)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार अबू बकर के० पी० (जे० सी०-169935
ए)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार शामराव खशाबा घोरपडे (जे० सी०-
200308 वाई)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार पर्मा चन्द (जे० सी०-162682 एन)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी०-184655 के)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार विजयन के० एम० (जे० सी०-193098
एक्स)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार हरजिंदर सिंह (जे० सी०-177864 वाई)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार काश्मीर सिंह (जे० सी०-180439 वाई)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार विजय राजाराम पाटील (जे० सी०-
203301 वाई)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार हरी राम (जे० सी०-221521 एल)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार चिन्नप्पा याजन (जे० सी०-166997
पी)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जे० सी०-169755 एक्स)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बाबू राम (जे० सी०-219996 डब्ल्यू)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-199119 वाई)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार शिव चरन सिंह यादव (जे० सी०-223313
पी)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार विन्नाकोटा हनुमंथा सत्यनारायणा (जे०
सी०-149356 एम)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार श्रीमंत शिंदे (जे० सी०-157531 एल)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-171342 एम)
—01 जुलाई, 1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी० डी०) के पद में

सूबेदार भीम बहादुर राय (जे० सी०-119816 एन)—
01 जुलाई, 1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार वर्यम सिंह (जे० सी०-193599 एक्स)—
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार उदय वीर सिंह (जे० सी०-168254 एल)
—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार अलख निरंजन सिंह (जे० सी०-169954
एल)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार फुमन सिंह (जे० सी०-181056 वाई)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार चंपा लाल (जे० सी०-151015 ए)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार राम पुकार शर्मा (जे० सी०-172101
वाई)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार राम रतन सिंह (जे० सी०-176233 के)
—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जे० सी०-157469 के)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी०-186701 एम)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (जे० सी०-190582
वाई)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार संत लाल (जे० सी०-221129 एल)—
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार उजेर सिंह थापा (जे० सी०-203313
एन)—01 जुलाई, 1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए० आई० जी०) के पद में

नायब सूबेदार अजयपाल सिंह भदौरिया (जे० सी०-
200334 वाई)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार मातृदीन यादव (जे० सी०-200341
पी)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जे० सी०-200339 एक्स)
—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार के० केशवन (जे० सी०-186766 ए)—
01 मई, 1993।

नायब सूबेदार दास राम (जे० सी०-186769 एन)—
01 जून, 1993।

नायब सूबेदार भागीरथ शर्मा (जे० सी०-186583 के)—
01 जुलाई, 1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी० अई० एफ० सी०) के पद में

नायब सूबेदार उदय नथ तिवरी (जे० सी०-177670
डब्ल्यू)—01 जून, 1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार (एफ० जी० ए०) के पद में

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जे० सी०-182087 एल)
—01 जुलाई, 1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी० डी०) के पद में

सूबेदार रोशन लाल रनौत (जे० सी०-129838 ए)—
01 अक्टूबर, 1993।

सूबेदार अजयब मिह (जे० सी०-133912 एन)—01
मई, 1993।

सूबेदार रामसामी वेमन्ना (जे० सी०-123482 एफ)—
01 जून, 1990।

सूबेदार रामसामी गुरूसामी रामसामी (जे० सी०-
128637 पी)—01 जून, 1993।

सूबेदार दान सिंह (जे० सी०-136265 के)—01 जून,
1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (ए० अई० जी०) के पद में

सूबेदार चरन सिंह बाघी (जे० सी०-119756 के)—
01 जून, 1993।

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जे० सी०-180463 पी)
—01 फरवरी, 1993।

नायब सूबेदार मेननगड्डा कुन्हीक्रिश्नन (जे० सी०-
184640 एफ)—01 फरवरी, 1993।

नायब सूबेदार प्रकाश चंद (जे० सी०-197437 के)—
01 फरवरी, 1993।

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जे० सी०-162681 एल)
—01 मार्च, 1993।

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जे० सी०-168326 एच)—
01 मार्च, 1993।

नायब सूबेदार सत्य नारायण राय (जे० सी०-169744
एल)—01 मार्च, 1993।

- नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-174115 एक्स)
--01 मार्च, 1993।
- नायब सूबेदार गजाधर सिंह कुशवाह (जे० सी०-172707 एच)--01 अप्रैल 1993।
- नायब सूबेदार नरोत्तम चन्द (जे० सी०-180573 के)
--01 अप्रैल 1993।
- नायब सूबेदार राम किशन यादव (जे० सी०-134627 एक्स)--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार पाले राम (जे० सी०-178952 एफ)--
01 मई 1993।
- नायब सूबेदार राम प्रकाश (जे० सी०-180488 एफ०
--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार छज्जू राम (जे० सी०-178913 एच)--
01 मई 1993।
- नायब सूबेदार बलबीर कुमार वक्शी (जे० सी०-179639 एच)--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-184029 ए)--
01 मई 1993।
- नायब सूबेदार एम० एम० पुनाच्छा (जे० सी०-195274 एच)--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार चनन सिंह (जे० सी०-190591 ए)--
01 मई 1993।
- नायब सूबेदार बलबीर चन्द (जे० सी०-187558 एक्स)
--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार जय प्रकाश (जे० सी०-7190728 एफ)
--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी०-190546 एन)
--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार एन० सुब्रामनियन (जे० सी०-190646 वाई)--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह कालसी (जे० सी०-184658 एक्स)--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार संतोष राज (जे० सी०-193403 वाई)
--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार लालजी राम (जे० सी०-197444 ए)--
01 जून 1993।
- 2-254 GI/93
- नायब सूबेदार रामा नन्द (जे० सी०-190635 एम)--
01 जून 1993।
- नायब सूबेदार मिथी लाल (जे० सी०-190551 वाई)--
01 जून 1993।
- नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जे० सी०-193426 ए)--
01 जून 1993।
- नायब सूबेदार खेडेकर मानीक सोपाना (जे० सी०-
193592 एन)--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार सुनील कुमार मोदक (जे० सी०-195020 एल)--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार देवा राम जाट (जे० सी०-197483 वाई)--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार चमन सिंह (जे० सी०-193136 एच)--
01 जून 1993।
- नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०-197947 एल)--
01 जून 1993।
- नायब सूबेदार गांधी राम चौहान (जे० सी०-200258 एक्स)--01 जुलाई 1993।
- नायब सूबेदार गुलजारी लाल (जे० सी०-202614 एल)--01 जुलाई 1993।
- सब्सटेंटिव सूबेदार (ए० आई० जी०) के पद में
- नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जे० सी०-200358 एम)--
01 मई 1993।
- नायब सूबेदार क्रिशन कार्तत झा (जे० सी०-200340 एम)--01 मई 1993।
- नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-195702 डब्ल्यू)
--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार तोरसे श्रीपती तुकाराम (जे० सी०-200335 एफ)--01 जून 1993।
- नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-186768 एल)--
01 जून 1993।
- नायब सूबेदार के पद में
- आर० एच० एम०, (ए० आई० सी०) सनवत सिंह
(1266646 एल० अब जे० सी०-225370 पी०)--04 जून,
1992*।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—20 अप्रैल, 1991) ।

आर० एच० एम०, (ए० आई० जी०) नानक चन्द डोगरा (1269439-के० अब जैसी-225371 एक्स)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—20 अप्रैल, 1991) ।

आर० एच० एम०, (ए० आई० जी०) प्यार चन्द (14320610 एच० अब जैसी-225372ए)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—20 अप्रैल, 1991) ।

आर० एच० एम०, (ए० आई० जी०) बलबीर सिंह 1432660 के० अब जैसी-225373 एच)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—20 अप्रैल, 1991) ।

आर० एच० एम०, (ए० आई० जी०), लेख राम, (14328219 ए० अब जैसी-225374 एल)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—20 अप्रैल, 1991) ।

आर० एच० एम०, (ए० आई० जी०), तपसी राम, 14339188 एल अब जे सी-225375 एन)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—20 अप्रैल, 1991) ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) रतन सिंह, 14319517 पी० अब जैसी 225376 डब्ल्यू)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 मई, 1991) ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०), बलविन्दर सिंह, (14451055 डब्ल्यू अब जैसी-225377 वाई)—24 मई, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 मई, 1991) ।

आर० एच० एम०, (ए० आई० जी०), अशोक कुमार यादव (14322274 ए अब जे० सी०—225378 एफ)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 जून, 1991) ।

आर० एच० एम०, (ए० आई० जी०), शिवा राम, 14338818 एन अब जैसी-225379 के)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—28 अक्टूबर, 1991)* ।

हवलदार (ओ० ई० एम०), गोपाल सिंह (14454673 एम अब जे० सी०—225380 वाई)—01 मई, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 नवम्बर, 1991) ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०), जसवंत सिंह (14327282 एच अब जे० सी०—225381एफ)—24 अप्रैल, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—14 दिसम्बर, 1991) ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) गुरनाम सिंह, (1265088 एच अब जे० सी०—225382 के)—24 अप्रैल, 1992* ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) बलबीर सिंह, (1269651 एफ अब जे० सी०—225383 एम)—24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) जीवन कुमार गूहंग, (5039579 डब्ल्यू अब जे० सी०—225384 पी)—24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) मंगल राम, (14318999 एच अब जे० सी०—225385 एक्स)—05 मई, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—24 अप्रैल, 1992) ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) गुरमित सिंह साराव (14321267 एक्स अब जे० सी०—225386ए)—24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) राम सूमेर सिंह, (14323736 एन अब जे० सी०—225387 एच)—24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०) थंगा राजू डी (14324309 के अब जे० सी०—225388 एल)—24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (ए०आई०जी०) शेर सिंह यादवा,
(14325109 ए अब जे० सी०-225389 एन)-24 अप्रैल,
1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी) गुरबचन सिंह,
(14326272 एम अब जे० सी०-225390 एच)-24 अप्रैल,
1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी-वाई
वेंकटास्वरलू, (14330528 एफ अब जे० सी०-225391
एल)-23 जून, 1992* ।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता-24 अप्रैल, 1992) ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) तेजपाल सिंह,
(14331075 एन अब जे० सी०-225392 एन)-24 अप्रैल,
1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०) जयवंत बाबू
कटांबले (14332607 पी अब जे० सी०-225393 डब्ल्यू)-
24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०) महेश कुमार
राजवंसी (14332876 एफ अब जे० सी०-225394 वाई)-
10 जून, 1992* ।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता-24 अप्रैल, 1992) ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०) एस० पेथु,
14333030 एम० अब जे० सी०-225395 एफ)-06
जून, 1992* ।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल, 1992) ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०) सदाशिवन
केएन, (14337610 वाई अब जे० सी०-225396 के)-
24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०) मुगाना राम,
(14339845 के अब जे० सी०-225397 एच)-24
अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) किला सिंह,
(14348181 एच अब जे० सी०-225398 पी)-24 अप्रैल,
1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०), जुकान्ती माधवा
रेड्डी, (14354642 एक्स अब जे० सी०-225399 एक्स)-
24 अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०), सरवेश सिंह,
(14356326 एक्स अब जे० सी०-225400 एफ)-24
अप्रैल, 1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) मुन्ना सिंह,
(14356496 एफ अब जे० सी०-225401 के)-13 जून,
1992* ।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता-24 अप्रैल, 1992) ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) समाई सिंह यादव,
(1445152 ए अब जे० सी०-225402 एम)-24 अप्रैल,
1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०) राजदेव यादवा,
(14452291 के अब जे० सी०-225403 पी)-24 अप्रैल,
1992 ।

आर० एच० एम० (ए० आई० जी०), पी० नवालन,
(14462111 के अब जे० सी०-225404 एक्स)-24
अप्रैल, 1992 ।

बी० एच० एम० (ए० आई० जी०), लालकजी तमंग,
(11243249 एक्स अब जे० सी०-225405 ए)-01 मई,
1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी), बालचन्द्रन
नायर के०, (14317832 एम० अब जे० सी०-225406 एच)-
जून 1992 ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०), मशकिन
सिंह, (14318358 डब्ल्यू अब जे० सी०-225407 एल)-
03 जुलाई, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता-01 जून, 1992) ।

आर० एच० एम० (टी० आई० एफ० सी०), साहिब सिंह
चन्देल, (14326928 डब्ल्यू अब जे० सी०-225408 एन)-
01 जून, 1992 ।

आर० एच० एम० रतधिर सिंह, (14451021 एच
अब जे० सी०-226866 डब्ल्यू)-01 मार्च, 1993* ।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता-01 जून 1992) ।

हवलदार बलवीर सिंह (14330532 के अब जे० सी०-
226867 वाई)-30 जून 1992 ।

हवलदार बलवंत सिंह, (144511279 डब्ल्यू अब जे०
सी०-226868 एफ)-30 जून, 1992 ।

हवलदार दाउ सिंह (14309853 एन अब जे० सी०-
226869 के)-14 अगस्त, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार सुभाष चन्द्र गोठवाल (1264069 एल अब जे० सी०—226870 वाई)—13 नवम्बर, 1992* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार जे० सनकराज (1267117 एल अब जे० सी०—226871 एफ)—18 जनवरी, 1993* ।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 1992) ।

हवलदार ब्रज कान्हा भल्लीहल्ली (14325086 अब जे० सी०—226872 के)—25 जनवरी, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार चरण सिंह (14323306 के अब जे० सी०—226850 एल)—01 अक्टूबर 1992 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार रतन सिंह (14453970 एन अब जे० सी०—226851 एन)—17 जनवरी, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार पदमासीता कुमार के० एस० (1259524 वाई अब जे० सी०—226852 डब्ल्यू)—22 नवम्बर, 1992 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार बरयाम सिंह (1258273 एन अब जे० सी०—226853 वाई)—02 मार्च, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार वी० मनोहरन (1261740 एल अब जे० सी०—226854 एफ)—30 जून, 1992 ।

हवलदार दर्शन सिंह (1254126 एन अब जे० सी०—226855 के)—01 अक्टूबर, 1992 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून 1992) ।

हवलदार बरकुमन्स फरान्डी एम० (14316727 के अब जे० सी०—226856 एम)—14 मार्च, 1992 ।

हवलदार दया नन्द (14328384 एल अब जे० सी०—226857 पी०)—26 मार्च, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

आर० एच० एम० सुखा सिंह (1251729 वाई अब जे० सी०—226858 एक्स)—05 नवम्बर, 1992 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार बलकार सिंह (14320277 पी अब जे० सी०—226951 वाई)—01 जनवरी, 1992 ।

हवलदार विरबल सिंह (14310287 एल अब जे० सी०—226952 एफ)—02 अप्रैल, 1992 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—21 मार्च, 1992) ।

हवलदार पाटोल श्रीपत दादु (14327413 एच अब जे० सी०—226953 के)—20 मार्च, 1992 ।

आर० एच० एम० दिदार सिंह (14307119 एफ अब जे० सी०—226954 एम)—01 फरवरी, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—24 अप्रैल, 1992) ।

आर० एच० एम० जयराम सिंह (14320364 एच अब जे० सी०—226955 पी०)—12 जनवरी, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—24 अप्रैल, 1992) ।

आर० एच० एम० देवी प्रसाद (14322409 डब्ल्यू अब जे० सी०—226956 एक्स)—22 जनवरी, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—24 अप्रैल, 1992) ।

हवलदार नन्द सिंह (14456664 के अब जे० सी०—226957 ए)—30 जून 1992 ।

बी० एच० एम० अमे सिंह (14322356 एच अब जे० सी०—226958 एच)—01 जून, 1992 ।

हवलदार प्रभाकरन नायर (13856273 डब्ल्यू अब जे० सी०—226959 एल)—28 अप्रैल, 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार महेन्द्रा प्रतापसिंह (1269205 ए अब जे० सी०—226960 ए)—18 फरवरी 1993 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—30 जून, 1992) ।

हवलदार प्रेम लाल (1263370 पी अब जे० सी०—
225661 एच)—10 मई, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 30 जून, 1992।)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (14327351 एन अब जे०
सी०—255315 एन)—01 जुलाई, 1992 ।

आर० एच० एम० राम कुमार (14455440 एक्स अब
जे० सी०—255316 डब्ल्यू)—02 अगस्त, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1992 ।)

बी० एच० एम० अमरजित सिंह (14321618 एफ अब
जे० सी०—255317 वाई)—09 जुलाई, 1992 ।

बी० एच० एम० पुलीन कुमार मंडल (6904539 एच अब
जे० सी०—255318 एफ)—01 अगस्त, 1992 ।

हवलदार धरम पाल (1265717 पी अब जे० सी०—
255319 के)—01 अगस्त, 1992 ।

बी० एच० एम० हेम सिंह (14331650 के अब जे० सी०—
255320 वाई)—01 अगस्त, 1992 ।

हवलदार बकुल चन्द्रा डेका (14311399 एक्स अब जे०
सी०—255321 एफ)—17 नवम्बर, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1992 ।)

बी० एच० एम० रमेश चन्द धातवालीया (14318884 पी
अब जे० सी०—255322 के)—07 अगस्त, 1992 ।

हवलदार शोम प्रकाश (1250240 एन अब जे० सी०—
255323 एम)—06 नवम्बर, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1992 ।

हवलदार किशन कुमार (14326603 एच अब जे० सी०—
255324 पी)—01 सितम्बर, 1992 ।

हवलदार पी० अरुण० वसागम (14328577 एल अब जे०
सी०—255325 एक्स)—01 सितम्बर, 1992 ।

बी० एच० एम० शिव लाल (14307245 एन अब जे०
सी०—255326 ए)—01 अक्टूबर, 1992 ।

हवलदार सतनाम सिंह (14318462 के अब जे० सी०—
255327 एच)—01 अक्टूबर, 1992 ।

हवलदार हरदीप सिंह कन्वर (14308427 एन अब जे०
सी०—255328 एल)—01 अक्टूबर, 1992 ।

बी० एच० एम० रघुवरन नायर जी० (14313949 एन
अब जे० सी०—255329 एन)—28 अक्टूबर, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1992।)

बी० एच० एम० गणपत सिंह (1262976 एम अब जे०
सी०—255330 एच)—01 अक्टूबर, 1992।

बी० क्यू० एम० एच० माधेव थामस एम० (14333426
डब्ल्यू अब जे० सी०—255331 एल)—19 नवम्बर, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1992 ।)

हवलदार प्रभाकरन के० जी० (14350511 पी अब
जे० सी०—255332 एन)—27 फरवरी, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1992 ।)

हवलदार रघुनाथ (14319843 एक्स अब जे० सी०—
255333 डब्ल्यू)—07 नवम्बर, 1992 ।

आर० एच० एम० किरपाल सिंह (14316212 के अब
जे० सी०—255334 वाई)—21 अप्रैल, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर, 1992 ।)

हवलदार चमन लाल (14310352 ए अब जे० सी०—
255335 एफ)—22 नवम्बर, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर, 1992 ।)

हवलदार शिव दयाल शर्मा (14307956 डब्ल्यू अब
जे० सी०—255336 के)—20 नवम्बर, 1992 ।

हवलदार बिजेन्द्रा सिंह (14317760 एन अब जे० सी०—
255337 एम)—14 दिसम्बर, 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर, 1992 ।)

हवलदार आई० एस० चेल्लादुरई (14327298 एन अब
जे० सी०—255338 पी)—30 नवम्बर, 1992 ।

हवलदार बलराज के० (14454844 एन अब जे० सी०—
255339 एक्स)—30 नवम्बर, 1992 ।

हवलदार बी० विजया राघवन (14317090 एक्स अब
जे० सी०—255340 एम)—30 नवम्बर, 1992 ।

हवलदार राम स्वल्प (14304447 के अब जे० सी०—
255341 पी)—01 दिसम्बर, 1992 ।

हवलदार मनफुल सिंह (14331125 एन अब जे० सी०—
255342 एक्स)—01 दिसम्बर, 1992 ।

आर० एच० एम० अजब सिंह (14335993 एक्स अब
जे० सी०—255343 ए)—20 दिसम्बर, 1992 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1992।)

बी० एच० एम० स्वर्ण सिंह (1257041 एच अब जे० सी०-255344 एच)---01 जनवरी, 1993।

हवलदार प्यार चन्द (1264462 एन अब जे० सी०-255345 एन)---01 जनवरी, 1993।

बी एच० एम० रतन सिंह (14323663 एच अब जे० सी०-255346 एन)---01 जनवरी, 1993।

हवलदार माखन सिंह (1251789 एन अब जे० सी०-255347 डब्ल्यू)---04 जनवरी, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1993।)

बी० क्यू एम० एच० चन्द्रा सिंह बंकोटी (1262230 डब्ल्यू अब जे० सी०-255348 वाई)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार गुलजार सिंह (14316060 एन अब जे० सी०-255349 एफ)---01 मार्च, 1993।

बी० एच० एम० चंनर पाल सिंह (14302817 ए अब जे० सी०-255350 डब्ल्यू)---01 मार्च, 1993।

बी० एच० एम० प्रसन्ना कुमार सी० (14343727 एन अब जे० सी०-255351 वाई)---01 मार्च, 1993।

बी० एच० एम० हनुमान सिंह (1262930 के अब जे० सी०-255352 एफ)---01 अप्रैल, 1993।

हवलदार बलवीर सिंह (14456408 पी अब जे० सी०-255353 के)---01 अप्रैल, 1993।

हवलदार रामेश्वर दयाल (1264261 पी अब जे० सी०-255354 एम)---01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०/एस के० टी०)
के पद में

हवलदार (क्लर्क) कोरला उमा महेश्वरा राव (सं० 1256980 वाई अब जे० सी०-255229 एच)---22 जनवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) बरयाम चन्द (सं० 1259406 एल अब जे० सी०-255230 एक्स)---22 जनवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) राम कुमार (सं० 1267226 एक्स अब जे० सी०-255231 ए)---22 जनवरी, 1993।

हवलदार एस० के० टी० परशोतम नारायण शुकना (सं० 14311200 एल अब जे० सी०-255232 एच)---22 जनवरी, 1993।

हवलदार एस० के० टी० ससी कुमार पी० जी० (सं० 14312542 एल अब जे० सी०-255233 एल)---01 फरवरी, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० के० टी० राम सिंह (सं० 1259578 ए अब जे० सी०-255234 एन)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) इन्दर सिंह (सं० 1269695 वाई अब जे० सी०-255235 डब्ल्यू)---03 फरवरी, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क) मोरे प्रकाश बाबु राव (सं० 1269726 एन अब जे० सी०-255236 वाई)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) एम० वेनू (सं० 1269730 डब्ल्यू अब जे० सी०-255237 एफ)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) बगाने राजाराम सखाराम (सं० 1269768 ए अब जे० सी०-255238 के)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) राजेश सिंह राना (सं० 1269783 पी अब जे० सी०-255239 एम)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) एम० सुब्रामनीयन (सं० 1269786 एच अब जे० सी०-255240 एफ)---01 फरवरी 1993।

हवलदार (क्लर्क) सी० ईगनेसी (सं० 1269794 एफ अब जे० सी०-255241 के)---01 फरवरी 1993।

हवलदार एस० के० टी० दर्शन सिंह (सं० 14312452 के (अब जे० सी०-255242 एम)---06 फरवरी, 1993।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क) श्याम सुन्दर (सं० 14327213 एम अब जे० सी०-255243 पी)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) जमुना प्रशाद पान्डे (सं० 14327224 वाई अब जे० सी०-255244 एक्स)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार (क्लर्क) चन्दन कुमार सुमन्ता (सं० 14327234 एच अब जे० सी०-255245 ए)---01 फरवरी, 1993।

हवलदार एस० के० टी० पदम सिंह (सं० 1259597 एल अब जे० सी०-255246 एच)---01 मार्च, 1993।

हवलदार (क्लर्क) सुभाष चन्दर यादव (सं० 1269881 पी अब जे० सी०-255247 एल) —01 मार्च, 1993।

हवलदार (क्लर्क) डी० सिवाप्रगासम (सं० 14327303 एन अब जे० सी०-255248 एन) —01 मार्च, 1993।

हवलदार (क्लर्क) के० सन्मृगम नाईडु (सं० 14327305 वाई अब जे० सी०-255249 डब्ल्यू) —04 अप्रैल, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क) पद्मानाभन एस० (सं० 14327313 एन अब जे० सी०-255250 एल) —01 मार्च, 1993।

हवलदार (क्लर्क) गुरबचन सिंह (सं० 14327344 एक्स अब जे० सी०-255251 एन) —01 मार्च, 1993।

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार (सं० 14327350 एल अब जे० सी०-255252 डब्ल्यू) —01 मार्च, 1993।

हवलदार (क्लर्क) बलदेव सिंह (सं० 14327353 वाई अब जे० सी०-255253 वाई) —01 मार्च, 1993।

हवलदार (क्लर्क) राघवन भनगाटील (सं० 14327414 एल अब जे० सी०-255254 एफ) —01 मार्च, 1993।

हवलदार एस० के० टी० सन्त प्रसाद (सं० 1259672 के अब जे० सी०-255255 के) —01 अप्रैल, 1993।

हवलदार (क्लर्क) मोहिते हरीसन्ध्रा श्रीपति (सं० 1269704 पी अब जे० सी०-255256 एम) —01 अप्रैल, 1993।*

हवलदार (क्लर्क) ए० राजेन्द्रन (सं० 1269892 एफ अब जे० सी०-255257 पी) —08 अप्रैल, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क) धरमपाल (सं० 14327429 एम अब जे० सी०-255258 एक्स) —01 अप्रैल, 1993।

इन्फान्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में
गारड ब्रिगेड

हवलदार अवतार सिंह ((सं० 3372325 एल अब जे० सी०-402023 एन) —02 अगस्त, 1992।

हवलदार गंगाधरन वी० पी० (सं० 13672664 एफ अब जे० सी०-402038 डब्ल्यू) —07 नवम्बर, 1992।

हवलदार मोहनन नायर वी० (सं० 8624612 एन अब जे० सी०-402039 वाई) —01 दिसम्बर, 1992।

हवलदार विजय सिंह (सं० 13672516 डब्ल्यू अब जे० सी०-402040 एन) —31 जनवरी, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर, 1992 से दी जायेगी।)

हवलदार सदानन्दन डी० (सं० 13673868 ए अब जे० सी० 402041 डब्ल्यू) —26 दिसम्बर, 1992।

हवलदार निहारेन्दु कुमार मंडल (सं० 13669527 एक्स अब जे० सी०-402042 वाई) —11 जनवरी, 1993।

हवलदार ओ० हर कुमार सिंघा (सं० 13672309 के अब जे० सी०-402043 एफ) —19 जनवरी, 1993।

हवलदार कुलवीर सिंह (सं० 13667846 एल अब जे० सी०-402044 के) —3 फरवरी, 1993।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार बसन्त सिंह (सं० 13670623 वाई अब जे० सी०-402045 एम) —01 फरवरी, 1993।

हवलदार हरिकेश (सं० 13670708 पी अब जे० सी०-402046 पी) —23 मार्च, 1993।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार जसपाल सिंह (सं० 13675695 एम अब जे० सी०-402047 एक्स) —05 अप्रैल, 1993।"

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 फरवरी, 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार कान्ता प्रसाद यादव (सं० 13671271 वाई अब जे० सी०-402048 ए) —01 मार्च, 1993।

हवलदार कैलाश प्रसाद (सं० 13670622 डब्ल्यू अब जे० सी०-402049 एच) —08 मार्च, 1993।

हवलदार कंवर बहादूर सिंह (सं० 13670749 वाई अब जे० सी०-402050 एक्स) —08 मार्च, 1993।

हवलदार कशी राम (सं० 13670770 एफ अब जे० सी०-402051 ए) —01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के
रैंक में

हवलदार एस० के० टी० सतपाल सिंह (सं० 14906433
ए अब जे० सी०-402052 एच)---7 अप्रैल, 1993

इन्फैन्ट्री

पंजाब रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जसवन्त सिंह (सं० 2466927 एफ अब
जे० सी०-428024 एन)---2 दिसम्बर, 1992।

हवलदार बनारसी दास (सं० 2462915 पी अब जे०
सी०-428025 डब्ल्यू)---21 जनवरी, 1993।

हवलदार हरबन्स सिंह (सं० 2465968 वाई अब जे०
सी०-428026 वाई)---11 मार्च, 1993।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 फरवरी, 1993
से दी जायेगी)।

हवलदार जगदेव सिंह (सं० 2459928 एफ अब जे०
सी०-428027 एफ)---1 मार्च, 1993।

हवलदार प्रितम सिंह (सं० 2464489 एल अब जे०
सी०-428028 के)---1 अप्रैल, 1993।

हवलदार कुलबन्त सिंह (सं० 2462621 एफ अब जे०
सी०-428029 एम)---1 अप्रैल, 1993।

हवलदार रावेल सिंह (सं० 2465546 एन अब जे०
सी०-428030 एफ)---1 अप्रैल, 1993।

मद्रास रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नाथु राम (सं० 3168724 एन अब जे०
सी०-438092 पी)---1 दिसम्बर, 1992।

हवलदार प्रसाद राव ओडुगु (सं० 2574424 ए अब
जे० सी०-438093 एक्स)---1 अप्रैल, 1993।

हवलदार एस० राजू (सं० 2579648 के अब जे०
सी०-438094 ए)---1 अप्रैल, 1993।

हवलदार डोमिनिक के० थॉमस (सं० 2580835 पी
अब जे० सी०-438095 एच)---7 अप्रैल, 1993।

हवलदार हरीहरन पी० (सं० 2581136 डब्ल्यू अब
जे० सी०-438096 एल)---3 जून, 1993।

हवलदार एम० बी० उम्रि कृष्णन नायर (सं० 2578570
एकम अब जे० सी०-438097 एन)---3 जून, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क के) रैंक में

हवलदार (क्लर्क) ए० मारीयादास (सं० 2574946 डब्ल्यू
अब जे० सी०-438098 डब्ल्यू)---1 जून, 1993।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राधाकृष्णन के० एस० (सं० 2575138 एल
अब जे० सी०-438099 वाई)---26 अक्टूबर, 1992।

हवलदार वेल्लूचामी वरथाराज (सं० 2572068 एम
अब जे० सी०-438100 एच)---27 जून, 1993 ×।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल, 1993 से
दी जायेगी)।

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक पटान ताजजुदिन (सं० 2770060
एल अब जे० सी०-458030 डब्ल्यू)---1 मई, 1993।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बामने अशोक जोती (सं० 2771856 एन
अब जे० सी०-458031 वाई)---14 अप्रैल, 1993*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1992 से
दी जाती है)।

हवलदार लुटे बाबाजी रामू (सं० 2767920 एच
अब जे० सी०-458032 एफ)---16 अप्रैल, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर, 1992 से
दी जाती है)।

हवलदार जगतप पाडुरंग विठ्ठल राव (सं० 2772364
एफ अब जे० सी०-458033 के)---25 अप्रैल, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1993 से
दी जाती है)।

हवलदार कुदने रामदास निवृत्ती (सं० 2768186 एम
अब जे० सी०-458034 एम)---28 अप्रैल, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 सितम्बर, 1992 से
दी जाती है)।

हवलदार पारले अशोक बंडु (सं० 2771238 एच अब
जे० सी०-458035 पी)---22 मई, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 दिसम्बर, 1992 से
दी जाती है)।

हवलदार विश्व प्रकाश टिएन (सं० 2772786 एम अब जे सी०-458036 एक्स)—2 जून, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार संटाले शिवाजी एकनार्थ (सं० 2771717 के अब जे० सी०-458037 ए)—3 जून, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 1992 से दी जाती है)।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में अमरें नाथ प्रसाद (जे० सी०-458038 एबे)—20 फरवरी, 1993।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सूरक्ष से राजकुमार ओपपाराव (सं० 2771211 एल अब जे० सी०-458039 एल)—1 मई, 1993।

हवलदार शिंदे विठ्ठल सदाशिव (सं० 2769668 एन अब जे० सी०-458040 ए)—25 मई, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 मार्च, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार शेलार थोडू विठोबा (सं० 2770641 एच अब जे० सी०-458041 एबे)—25 मई, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 मार्च, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार अलगुंडर जंश कुमार बाबुराव (सं० 2766822 डब्ल्यू अब जे० सी०-458042 एल)—25 मई, 1993।*

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 मार्च, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार भानुदास नामदेव चह्माण (सं० 2774898 एल अब जे० सी०-458043 एन)—3 जून, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1992 से दी जाती है)।

इन्फैन्ट्री

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हवा सिंह (सं० 2667664 के अब जे० सी०-448059 एल)—1 मई, 1993।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक मान सिंह भंडारी (सं० 2665356 एन अब जे० सी०-448060 ए)—1 मई, 1993।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम लाल (सं० 2666502 एम अब जे० सी०-448063 एन)—18 अप्रैल, 1993।

हवलदार भंवरू खान (सं० 2664040 एम अब जे० सी०-448064 डब्ल्यू)—1 जून, 1993।

हवलदार सरवर अली (सं० 2666832 एल अब जे० सी०-448065 वाई)—1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक अजीत सिंह (सं० 2665511 एफ अब जे० सी०-448066 एफ)—1 जून, 1993।

राजपूताना राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार निर्मल चन्द जाट (सं० 2870272 एल अब जे० सी०-468058 के)—1 मार्च, 1993।

हवलदार रोहिताशशव सिंह (सं० 2870480 ए अब जे० सी०-468059 एम)—27 मार्च, 1993।

हवलदार कलाश सिंह शेखावत (सं० 2867810 एच अब जे० सी०-468060 एफ)—1 अप्रैल, 1993।

हवलदार जाबर सिंह (सं० 2868234 के अब जे० सी०-468061 के)—18 अप्रैल, 1993।

हवलदार रोहताश कुमार (सं० 2868512 वाई अब जे० सी०-468062 एम)—1 मई, 1993।

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं० 2869579 डब्ल्यू अब जे० सी०-468063 पी)—1 मई, 1993।

हवलदार रतन सिंह (सं० 2864656 के अब जे० सी०-468064 एक्स)—12 मई, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क राम प्रकाश (सं० 2865698 एच अब जे० सी०-468065 ए)—1 मई, 1993।

हवलदार कर्क थामस मैथू (सं० 14518968 एम अब जे० सी०-468066 एच)--12 मई, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार कर्क सुरेश कुमार (सं० 2868760 पी अब जे० सी०-468067 एल)--1 मई, 1993।

राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महावीर सिंह शर्मा, (सं० 2973130 एन अब जे० सी०-478062 ए)--01 जनवरी, 1993।

हवलदार चमन लाल नाग (सं० 2966009 एक्स अब जे० सी०-478063 एच)--13 जनवरी, 1993।

हवलदार गिरीश बाबू (सं० 2973841 एन अब जे० सी०-478064 एल)--01 फरवरी, 1993।

हवलदार राजेश कुमार शर्मा (सं० 2974411 डब्ल्यू अब जे० सी०-478065 एन)--01 मार्च, 1993।

हवलदार हरकेश, (सं० 2974536 एन अब जे० सी०-478066 डब्ल्यू)--01 मार्च, 1993।

हवलदार हरमेश लाल (सं० 2974087 के अब जे० सी०-478067 वाई)--01 मार्च, 1993।

हवलदार घीसा राम सीरादना (सं० 2971602 ए अब जे० सी०-478068 एफ)--24 अप्रैल, 1993।

हवलदार ब्रह्मजीत (सं० 2974599 डब्ल्यू अब जे० सी०-478069 के)--01 जून, 1993।

हवलदार घाम चन्द (सं० 2972813 पी० अब जे० सी०-478070 वाई)--01 जून, 1993।

हवलदार कृष्ण लाल (सं० 2970873 एल अब जे० सी०-478071 एफ)--01 जून, 1993।

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मुनहरा सिंह (सं० 3164993 एच अब जे० सी०-488040 पी)--1 मार्च, 1993।

हवलदार सुखवीर सिंह (सं० 3160438 एक्स अब जे० सी०-488041 एक्स)--24 अप्रैल, 1993।

हवलदार सूरज भान (सं० 3167760 एम अब जे० सी०-488042 ए)--19 मई, 1993।

हवलदार सावित राम (सं० 3167096 एक्स अब जे० सी०-488043 एन)--1 जून, 1993।

हवलदार हव. सिंह (सं० 3164489 एन अब जे० सी०-488044 एन)--1 जुलाई, 1993।

हवलदार गुरदयाल सिंह (सं० 3165366 एच अब जे० सी०-488045 एन)--1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार कर्क रामफल कलहेर (सं० 3167727 पी अब जे० सी०-488046 डब्ल्यू)--1 जुलाई, 1993।

हवलदार कर्क ओम प्रकाश (सं० 3167745 एक्स अब जे० सी०-488047 वाई)--1 जुलाई, 1993।

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तरलोक सिंह (सं० 3372522 एन अब जे० सी०-498066 एक्स)--9 अप्रैल, 1993।

हवलदार गुरमीत सिंह (सं० 3372697 डब्ल्यू अब जे० सी०-498067 ए)--9 अप्रैल, 1993।

हवलदार सर्वजीत सिंह (सं० 3372826 एल अब जे० सी०-498068 एच)--8 मई, 1993।

हवलदार सुवा मिह (सं० 3372870 पी अब जे० सी०-498069 एल)--1 जून, 1993।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं० 3377427 एल अब जे० सी०-498070 ए)--1 जून, 1993।

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरपाल सिंह (सं० 4455464 के अब जे० सी०-508037 वाई)--15 जुलाई, 1992।

हवलदार सूरजीत सिंह (सं० 4460944 एक्स अब जे० सी०-508038 एफ)--18 दिसम्बर, 1992*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार सुदागर सिंह (सं० 4460449 वाई अब जे० सी०-508039 के)--1 दिसम्बर, 1992।

हवलदार गुरमुख मिह (सं० 4453277 एम अब जे० सी०-508040 वाई)--29 मार्च, 1993।

हवलदार जीवन मिह (सं० 4457192 एन अब जे० सी०-508043 एम)--1 जून, 1993।

नायब सूबेदार (कर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क बलदेव सिंह "आजाद" (सं० 4454909 वाई अब जे० सी०-508041 एफ)--1 अप्रैल, 1993।

हवलदार कर्क सुरजीत मिह (सं० 4454898 एक्स अब जे० सी०-508042 के)--1 मई, 1993।

इन्फैंट्री

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आलम सिंह कोटेरी (सं० 4054358 एल अब जे० सी०-528029 एफ) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार यशपाल सिंह (सं० 4057825 एच अब जे० सी०-528030 डब्ल्यू) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार कलम सिंह (सं० 4056452 एन अब जे० सी०-528031 वाई) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार कुंवर सिंह (सं० 4050555 डब्ल्यू अब जे० सी०-528032 एफ) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार भगवती प्रसाद (सं० 4054874 ए अब जे० सी०-528033 के) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार मातबर सिंह रावत (सं० 4055294 एक्स अब जे० सी०-528034 एम) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार खीम सिंह (सं० 4053650 एन अब जे० सी०-528035 पी) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार परशोत्तम चन्द (सं० 13736559 पी अब जे० सी०-528036 एक्स) —1 जनवरी, 1993।

हवलदार प्रेम सिंह रावत (सं० 4056384 एल अब जे० सी०-528037 ए) —2 जनवरी, 1993। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार विशेष्वर प्रसाद (सं० 4056041 पी अब जे० सी०-528028 वाई) —5 फरवरी, 1993। × ×

× × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार चतर सिंह नेगी (सं० 4053894 एफ अब जे० सी०-528038 एच) —1 फरवरी, 1993।

कुमाऊँ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० राजेन्द्र सिंह नगरकोटी (सं० 4169219 एन अब जे० सी०-538062 एम) —1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार कर्क मूलः राम वर्मा (सं० 4165092 वाई अब जे० सी०-538049 एच) —27 दिसम्बर, 1992।

हवलदार कर्क नाराय सिंह येनुज (सं० 4165244 पी अब जे० सी०-538051 ए) —21 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश कुमार (सं० 4166898 एल अब जे० सी०-538063 पी) —17 जून, 1993। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1993 से दी जायेगी)।

सी० एच० एम० राम खिलावन (सं० 4170097 एफ अब जे० सी०-538064 एक्स) —19 जून, 1993। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार राम अवतार (सं० 4163514 ए अब जे० सी०-538070 एल) —01 जुलाई, 1993।

हवलदार विद्या धर काण्डपाल (सं० 4166229 एन अब जे० सी०-538066 एच) —01 जुलाई, 1993।

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं० 4171217 एफ अब जे० सी०-538067 एल) —01 जुलाई, 1993।

हवलदार कुंवर सिंह (सं० 4166610 ए अब जे० सी०-538068 एन) —01 जुलाई, 1993।

हवलदार शंकरदत्त (सं० 4165927 वाई अब जे० सी०-538061 के) —01 जुलाई, 1993।

आसाम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धुनेश्वर सङ्कीया (सं० 4346476 एम अब जे० सी०-548039 एम) —29 सितम्बर, 1992।

हवलदार कपल सिंह पठानिया (सं० 13732775 एल अब जे० सी०-548037 एफ) —01 जनवरी, 1993।

हवलदार रवीन्द्र नाथ राय (सं० 4349396 डब्ल्यू अब जे० सी०-548040 एफ) —10 जनवरी, 1993।

हवलदार एस० रामानन (सं० 2577436 ए अब जे० सी०-548038 के) —18 फरवरी, 1993।

हवलदार दादल चन्द्र बश्वास (सं० 4349430 एल अब जे० सी०-548041 के) —24 मार्च, 1993।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जयमुणि सिंह (सं० 4348660 एम अब जे० सी०-548035 डब्ल्यू) —17 मई, 1993।*

हवलदार लिपिक सूर्य कान्त षडडोलई (सं० 4348661 पी अडब जे० सी०-548036 वाई)—06 मई, 1993।

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1993 से दी जायेगी)।

% (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले दिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1993 से दी जायेगी)।

जम्मू और काश्मीर हाईकोर्ट
नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार ओंकार सिंह (सं० 13738175 वाई अब जे० सी०-578116 एल)—01 अप्रैल, 1993।

हवलदार दुनी चन्द शर्मा (सं० 13736238 एकस अब जे० सी०-578117 एन)—01 अप्रैल, 1993।

हवलदार रूप सिंह खन्दल (सं० 13736482 एकस अब जे० सी०-578118 डब्ल्यू)—01 अप्रैल, 1993।

हवलदार कुलबीर सिंह राणा (सं० 13739460 के अब जे० सी०-578119 वाई)—16 अप्रैल, 1993।

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 13736703 वाई अब जे० सी०-578120 एन)—25 अप्रैल, 1993।

हवलदार रमेश चन्द (सं० 13734434 वाई अब जे० सी०-578121 डब्ल्यू)—02 मई, 1993।

हवलदार केहर सिंह (सं० 13734439 एकस अब जे० सी०-578122 वाई)—08 जून, 1993×।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई, 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार सुन्दर लाल (सं० 13736317 एम अब जे० सी०-578123 एफ)—01 जून, 1993

हवलदार रूप सिंह (सं० 13734527 एन अब जे० सी०-578124 के)—01 जून, 1993।

हवलदार प्रेम चन्द (सं० 13734542 एच अब जे० सी०-578125 एम)—01 जून, 1993।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार इन्द्र सिंह प्रधान (सं० 9413614 एच अब जे० सी०-634026 वाई)—02 जनवरी, 1993।

हवलदार यश बहादुर लिम्बू (सं० 9415766 एच अब जे० सी०-634027 एफ)—01 फरवरी, 1993।

हवलदार श्याम कुमार राई (सं० 9414056 वाई अब जे० सी०-634028 के)—01 अप्रैल, 1993

हवलदार शंकर बहादुर राई (सं० 9412696 के अब जे० सी०-634029 एम)—01 जून, 1993

1 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नर बहादुर थापा (सं० 5038568 एकस अब जे० सी०-602014 डब्ल्यू)—20 जून, 1993।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तिरथा बहादुर पुन (सं० 5341051 डब्ल्यू अब जे० सी०-612012 वाई)—30 मई, 1993।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मन बहादुर गुह्ला (सं० 5446767 एन अब जे० सी०-617013 एल)—28 अप्रैल, 1993*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से दी जायेगी)।

8 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हक बहादुर गुह्ला (सं० 5745553 के अब जे० सी०-623006 एल)—6 फरवरी, 1993।

हवलदार कुमार बहादुर चले (सं० 5746931 के अब जे० सी०-623007 एन)—6 फरवरी, 1993।

हवलदार चन्द्र गजेश्वर प्रधान (सं० 5747076 एम अब जे० सी०-623008 डब्ल्यू)—6 फरवरी, 1993।

हवलदार मन बहादुर थापा (सं० 5747009 एफ अब जे० सी०-623009 वाई)—6 फरवरी, 1993।

हवलदार रम बहादुर थापा (सं० 5747561 एफ अब जे० सी०-623010 एफ)—6 फरवरी, 1993।

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार के० एम० सेथुरामन (सं० 13611072 एफ अब जे० सी०-412016 एल)—01 अक्टूबर 1992।

हवलदार दीवान सिंह (सं० 13610141 ए अब जे० सी०-412015 एच)—15 अक्टूबर, 1992।

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं० 13607962 के अब जे० सी०-412017 एन)—01 जनवरी, 1993।

हवलदार सोहन सिंह (सं० 13607959 के अब जे० सी०-412018 डब्ल्यू)—01 जनवरी, 1993।

हवलदार भगत सिंह (सं० 13609394 एच अब जे० सी०-412019 वाई)—01 जनवरी, 1993।

हवलदार सिंह बहादुर गुरंग (सं० 13609564 एफ अब जे० सी०-412020 एन)—01 जनवरी, 1993।

हवलदार चेत बहादुर पून (सं० 13609774 एफ अब जे० सी०-412021 डब्ल्यू)—16 जनवरी, 1993।

हवलदार हाजर सिंह (सं० 13608449 पी अब जे० सी०-412022 वाई)—16 जनवरी, 1993।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक जनार्दन शर्मा (सं० 13609148 एक्स अब जे० सी०-412014 ए)—01 मई, 1993।

पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राघोर सिंह (सं० 2465456 एम अब जे० सी०-428031 के)—01 जून, 1993।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार केशव राम (सं० 2464767 एन अब जे० सी०-428032 एम)—30 मार्च, 1993।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी, 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार बिनमिह (सं० 2463156 एम अब जे० सी०-428033 बी)—23 फरवरी, 1993।

हवलदार देवकी नन्द कालटा (सं० 2464523 ए अब जे० सी०-428034 एक्स)—02 मार्च, 1993।

हवलदार बलदेव सिंह ठाकुर (सं० 2466942 डब्ल्यू अब जे० सी०-428035 ए)—16 मार्च, 1993।

हवलदार बालो राम (सं० 2461381 एच अब जे० सी०-428036 एच)—05 मई, 1993।

हवलदार करनैल सिंह (सं० 2466299 एक्स अब जे० सी०-428037 एल)—01 जून, 1993।

हवलदार जोगिन्द्र सिंह पत्तियाल (सं० 2464641 एन अब जे० सी०-428033 एन)—01 जून, 1993।

हवलदार अजमेर सिंह (सं० 2465844 के अब जे० सी०-428039 डब्ल्यू)—17 जून, 1993।

हवलदार हंस राज (सं० 2464565 एम अब जे० सी०-428040 एल)—22 जून, 1993।

हवलदार दलबीर सिंह (सं० 2462611 एक्स अब जे० सी०-428041 एन)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार जगीर सिंह (सं० 2466378 एम अब जे० सी०-428042 डब्ल्यू)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार सज्जन सिंह (सं० 2465789 वाई अब जे० सी०-428043 वाई)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार अजीत सिंह (सं० 2463953 एक्स अब जे० सी०-428044 एफ)—12 जुलाई, 1993।

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भास्करन पी० (सं० 2577258 एच अब जे० सी०-438102 एन)—8 जुलाई, 1993।

इन्फैन्ट्री

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मिसाल साहेब नारायण (सं० 2766040 ए अब जे० सी०-458044 डब्ल्यू)—09 मार्च, 1993*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 से दी जाती है)

हवलदार लोणकर बला साहेब चंदू सेना मंडल (सं० 2766315 एच अब जे० सी०-458045 वाई)—06 जून, 1993)*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से दी जाती है)

हवलदार देवने एकनाथ भिकू (सं० 2766643 डब्ल्यू) अब जे० सी०-458046 एफ)—08 जून, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार मनदुलकर लक्ष्मण एकनाथ (सं० 2766624 एल अब जे० सी०-458047 के)—16 जून, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार चन्द्रकान्त तुकाराम देशमुख (सं० 2765138 एफ अब जे० सी०-458048 एम)—28 जून, 1993*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी, 1993 से दी जाती है)

हवलदार भोरे लक्ष्मण गोविन्दराव (सं० 2773305 एफ अब जे० सी०-458049 पी०)—30 जून, 1993*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार कदम साहेबराव दत्तु (सं० 2770250 एक्स अब जे० सी०-458050 के०)—01 जुलाई, 1993*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त, 1992 से दी जाती है)।

नायब सूबेदार त्रिपिक क रैंक में

हवलदार त्रिपिक ग दीव अयांक गणानी (सं० 2770177 के अब जे० सी०-458051 एम०)—01 जुलाई, 1993*।

त्रिगेडियर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गुरदियाल सिंह (सं० 2662061 के० अब जे० सी०-448067 के०-20 जनवरी, 1993।

हवलदार नसीरुद्दीन खान (सं० 2668852 एक्स अब जे० सी०-448068 एम०) 25 अप्रैल, 1993

हवलदार भीम सिंह (सं० 2664473 के अब जे० सी०-448069 पी०)—13 जुलाई, 1983।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1993।

नायब सूबेदार (त्रिपिक) के रैंक में

हवलदार त्रिपिक अमर सिंह चौहान (सं० 2665603 एफ अब जे० सी०-443070 के०) 1 जुलाई 1993।

हवलदार लिपिक कृष्ण (सं० 2665615 एच अब जे० सी०-448071 एम०) 1 जुलाई 1993।

राजपूताना राइफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरी सिंह राठीर (सं० 2870736 एक्स अब जे० सी०-468068 एन०)—-1 फरवरी, 1993।

हवलदार इलनेत सिंह (सं० 2870815 एम अब जे० सी०-468069 डब्ल्यू)—22 अप्रैल, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 मार्च, 1993 से दी जायगी)।

हवलदार सुरेश कुमार (सं० 2869794 पी अब जे० सी०-468070 एल०)—6 अप्रैल, 1993।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च 1993 से दी जायगी)।

हवलदार राम सिंह रहड (सं० 2867155 पी अब जे० सी०-468071 एन०)—-15 अप्रैल, 1993।

हवलदार मदन सिंह (सं० 2869745 एम अब जे० सी०-468072 डब्ल्यू)—10 मई, 1993।

हवलदार महीपाल सिंह (सं० 2870233 एम० अब जे० सी०-468073 वाई)—-17 मई, 1993।

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भगवाना सिंह (सं० 3164807 एफ अब जे० सी०-488048 एफ) 28 जून, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून, 1993 से दी जायगी)।

हवलदार हरपाल सिंह (सं० 3161229 एम अब जे० सी०-488049 के०)—1 जुलाई 1993।

हवलदार हंस राज (सं० 3165113 एन अब जे० सी०-488050 वाई)—4 जुलाई, 1993।

गिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गुरदेव सिंह (सं० 3373421 एम अब जे० सी०-498072 एल०)—-18 अप्रैल, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार बचन सिंह (सं० 3373337 एम अब जे० सी०-498073 एन०)—31 मई, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1993 से दी जाती है)।

हवलदार बकशीश सिंह (सं० 3374319 डब्ल्यू अब जे० सी०-498074 डब्ल्यू)—-1 जुलाई, 1993।

हवलदार सुखदेव सिंह (सं० 3375728 डब्ल्यू अब जे० सी०-498075 वाई)—-1 जुलाई 1993।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 3374100 एफ अब जे० सी०-498076 एफ 1 जुलाई, 1993।

हवलदार जोध सिंह (सं० 3375202 के अब जे
सी० 498077 ए) — 22 जुलाई, 1993 ।

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक सुवा सिंह (सं० 3372425 डब्ल्यू
अब जे० सी०-498078 एम) 1 अगस्त, 1993 ।

नागा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार एम० के० लोमर (सं० 14700493 पी अब
जे० सी०-590004 एक्स) — 8 जुलाई, 1993 ।

हवलदार प्रेम सिंह (सं० 4164150 एल अब जे०
सी०-590005 ए) — 8 जुलाई, 1993 ।

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रनबीर सिंह (सं० 3971022 एफ अब जे०
सी०-518057 ए) — 01 जनवरी, 1993 ।

हवलदार राम सिंह गाल (सं० 3968613 एक्स अब
जे० सी०-518058 एच) — 4 जनवरी, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1993) ।

हवलदार टोडर मल (सं० 3969043 वाई अब जे०
सी०-518059 एल) — 1 फरवरी, 1993 ।

हवलदार करन सिंह (सं० 3970070 पी अब जे०
सी०-518060 ए) — 1 फरवरी, 1993 ।

हवलदार मधर सिंह (सं० 3971599 एफ अब जे०
सी०-518061 एच) — 1 जुलाई, 1993 ।

हवलदार जगदीश चन्द (सं० 3969713 पी अब जे०
सी०-518062 एन) — 1 जुलाई, 1993 ।

हवलदार दिना राम (सं० 3969799 वाई अब जे०
सी०-518063 एन) — 1 जुलाई, 1993 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वकील सिंह चिब (सं० 13610478 एच अब
जे० सी०-518050 डब्ल्यू) — 6 जनवरी 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1993) ।

हवलदार हरदयाल सिंह (सं० 2864488 डब्ल्यू अब
जे० सी०-518051 वाई) — 22 अप्रैल, 1993 ।

हवलदार जसवन्त सिंह ढटवालिया (सं० 3968004 एन
अब जे० सी०-518052 एफ) — 4 जून, 1993 ।

हवलदार अंचल सिंह (सं० 3968102 एन अब जे०
सी०-518053 के) — 20 जून, 1993 ।

हवलदार मदन लाल (सं० 3968129 एल अब जे०
सी०-518054 एम) — 1 जुलाई, 1993 ।

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं० 3969372 पी अब जे०
सी०-518055 पी) — 1 जुलाई, 1993 ।

हवलदार नसीब सिंह (सं० 3970211 वाई अब जे०
सी०-518056 एक्स) — 1 जुलाई, 1993 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द (सं० 3972060 के अब जे०
सी०-518064 डब्ल्यू) — 20 मई, 1993 ।

हवलदार तिलक राज (सं० 3968610 के अब जे०
सी०-518065 वाई) — 15 जुलाई, 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1993 से) ।

हवलदार प्रेम सिंह सकलानी (सं० 3972175 एक्स
अब जे० सी०-518066 एफ) — 1 जुलाई, 1993 ।

हवलदार सबरन सिंह जसरोटिया (सं० 3969112 के
अब जे० सी०-518067 के) — 1 अगस्त, 1993 ।

हवलदार राजेन्द्र सिंह चौहान (सं० 3969172 वाई
अब जे० सी०-518068 एम) — 1 अगस्त, 1993 ।

हवलदार जगदीश चन्द (सं० 3969800 एच अब जे०
सी०-518069 पी) — 1 अगस्त, 1993 ।

कुमाऊं रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हव० बची सिंह (नं० 4165545 एफ अब जे० सी०—538069 डब्ल्यू०)—1 जुलाई, 1993।

हव० कुन्दन सिंह कार्की (नं० 4166755 वाई अब जे० सी०—538071 एन)—01 जुलाई 1993।

हव० लच्छमन सिंह (नं० 4168003 ए अब जे० सी०—538072 डब्ल्यू०)—01 जुलाई, 1993।

हव० सुन्दर सिंह ऐठानी (नं० 4166536 के अब जे० सी०—538073 वाई)—01 जुलाई, 1993।

हव० गोपाल सिंह (नं० 4166862 एम अब जे० सी०—538074 एफ)—01 जुलाई, 1993।

हव० भवान सिंह (नं० 4166233 पी अब जे० सी०—538075 के)—01 जुलाई, 1993।

सी० एच० एम० ओम प्रकाश (सं० 4166800 एम अब जे० सी०—538077 पी)—13 मार्च, 1993।

हव० किशन सिंह (नं० 4171059 एक्स अब जे० सी०—538076 एम)—22 अप्रैल, 1993।

हव० दिवान राम (नं० 416469 एम अब जे० सी०—538080 पी)—01 जुलाई, 1993।

हव० देव सिंह खोलिया (नं० 4167227 एन अब जे० सी०—538078 एक्स)—06 अगस्त, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 जुलाई 1993 से दी जायेगी)।

हव० खुशाल सिंह (नं० 4166946 ए अब जे० सी०—538081 एक्स)—22 जुलाई, 1993।

हव० राम सिंह (नं० 4165057 डब्ल्यू अब जे० सी०—538079 ए)—06 अगस्त, 1993।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 अगस्त 1993 से दी जायेगी)।

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लक्षमन महतो (सं० 4250072 एच अब जे० सी०—558053 एम)—23 दिसम्बर, 1992।*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक—01 अक्टूबर, 1992 से दी जायेगी।)

हवलदार राम गोविंद प्रसाद सिंह (सं० 4253443 एल अब जे० सी०—558054 पी)—01 जनवरी, 1993।

हवलदार चन्द्र शोखर शर्मा (सं० 4253643 एफ अब जे० सी०—558055 एक्स)—14 मार्च, 1993।

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार (जी० टी०) के रैंक में

हवलदार हरी सरन (13735355 डब्ल्यू अब जे० सी०—578126 पी)—01 जून, 1993।

हवलदार छरी लाल खत्री (13739610 पी अब जे० सी०—578127 एक्स)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार गुरमीत सिंह (13737180 एक्स अब जे० सी०—578128 ए)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार मदन लाल (13738008 एच अब जे० सी०—578129 एच)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार ओम प्रकाश (13736336 एक्स अब जे० सी०—578130 एक्स)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार बहादुर सिंह (13736220 एफ अब जे० सी०—578131 ए)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार हेम सिंह (13735934 एच अब जे० सी०—578132 एच)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार जनकराज खजुरिया (13735840 एल अब जे० सी०—578133 एल)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार गुरदयाल सिंह (13736721 एच अब जे० सी०—578134 एन)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार थोध राज (13736679 एन अब जे० सी०—578135 डब्ल्यू)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार कमल सिंह (13737362 एल अब जे० सी०—578136 वाई)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार सुरेंद्र सिंह (13738056 एच अब जे० सी०—578137 एफ)—01 जुलाई, 1993।

हवलदार शमशेर सिंह (13735652 के अब जे० सी०—575138 के)—12 जुलाई, 1993।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—07 फरवरी 1993 से दी जायेगी।

जम्मू और काश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक जगदीश चन्द्र (9079667 एन अब जे० सी०—592055 के)—01 अगस्त, 1992।

हवलदार लिपिक दर्शन कुमार (9079668 डब्ल्यू अब जे० सी०—592056 एम)—01 सितम्बर, 1992।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गोकर्ण केसर थापा (सं०-5039891 वाई अब जे० सी०-602015 वाई)—01 जुलाई, 1993 ।

हवलदार धक बहादुर थापा (सं० 5039326) एफ अब जे० सी०-602016 एफ)—01 जुलाई, 1993 ।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सूरज कुमार राई (9412605पी अब जे० सी० 634030 एफ) 1 फरवरी, 1993* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 जनवरी, 1993 से दी जाएगी ।

हवलदार पदम बहादुर लिम्बू (9414660 के अब जे० सी०-634031 के)—01 फरवरी, 1993 ।

हवलदार दीप बहादुर राई (9414638 वाई अब जे० सी० 634032 एम)—01 फरवरी, 1993 ।

हवलदार चन्द्र बहादुर सुब्बा (9415276 पी अब जे० सी०-634033पी)—01 फरवरी, 1993 ।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उदय बहादुर थापा (सं० 5340999 एफ अब जे० सी०-612013 एफ)—04 जुलाई 1993 ।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार खर्गा बहादुर गुरुंग (सं०-5445906 ए अब जे० सी०-617014 एन)—26 जून 1993 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—1 मई 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार बल बहादुर थापा (सं०-5444376 के अब जे० सी०-617016 वाई)—16 जुलाई 1993 ।]

हवलदार अशोक गुरुंग (सं० 5445242 एक्स अब जे० सी० -617017 एफ)—1 अगस्त 1993 ।

हवलदार मोहन गुरुंग (सं० 5445542 वाई अब जे० सी०-617018 के)—1 अगस्त 1993 ।

गारद ब्रिगेड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बृज राज यादव (सं० 13670328 डब्ल्यू अब जे० सी०-226893 एम) 25 फरवरी 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—20 जनवरी 1992 से दी जायेगी।)

4-254 GI/93

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सतनाम सिंह गिल (नं० 13611144ए अब जे० सी०-226874 पी)—4 सितम्बर, 1992* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 फरवरी 1992 ।

हवलदार चांद सिंह (नं० 13611162ए अब जे० सी०-226875 एक्स)—04 सितम्बर 1992** ।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 फरवरी, 1992 ।

हवलदार भजन सिंह (सं० 13611191एक्स अब जे० सी०-226876 ए)—19 मार्च 1992*** ।

***नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 फरवरी 1992 ।

हवलदार बलकार सिंह (नं० 13611829 वाई अब जे० सी०-226877 एच)—25 मई, 1992**** ।

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 मई, 1992 ।

हवलदार गियान चन्द (नं० 136097.33 एक्स अब जे० सी० 226878 एल)—01 जून, 1992 ।

हवलदार चमन लाल 13610046 एन अब जे० सी०-226879 एन—01 जून, 1992 ।

हवलदार अमीलाल महला (नं० 13609246 एक्स अब जे० सी०-226880 एच)—22 दिसम्बर, 1992**** ।

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता—01 मई, 1991 ।

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक

हवलदार श्री रंग बापु पाटकुरे (सं० 2766797 एच अब जे० सी०-226681 एल)—06 मई, 1992 ।

हवलदार सीताराम (सं० 2663622 एच अब जे० सी० 226882 एन)—20 अप्रैल, 1992 ।

राजपूताना राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कालू सिंह (सं० 1052942एफ अब जे० सी०-226883 डब्ल्यू)—01 मई, 1992 ।

हवलदार सत परकाश (सं० 2871046 ए अब जे० सी०—
2216884 वाई)—01 जून, 1992 ।

हवलदार भोपाल सिंह (सं० 2864166 डब्ल्यू अब
जे० सी०—226885 एफ)—19 नवम्बर, 1992।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
ज्येष्ठ 7-01 जून, 1992 से दी जायेगी।)*

हवलदार रनवीर सिंह (सं० 2866091 एच अब जे० सी०
226886 के)—10 जून, 1992 ।

राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार फतेह चन्द गूजर (सं० 2968709 के अब
जे० सी०—226887 एम)—16 जून 1992 ।

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलविन्दर सिंह (3371948 एच अब जे० सी०—
226888 पी)—03 मई 1992 ।

हवलदार गुरमेल सिंह (3372705 के० जे० अब सी०
498045 एफ)—1 फरवरी 1993।

हवलदार जसवन्त सिंह (3376493 एफ अब
जे० सी०—498046 के)—01 फरवरी 1993।

हवलदार सरदूल सिंह (3373226 पी अब जे० सी०
498047 एम०)—01 फरवरी 1993।

हवलदार स्वर्ण सिंह (3373717 एल अब जे० सी०
(498048 पी)—01 मार्च 1993।

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सन्तोख सिंह (नं० 4452774 के अब जे० सी०—
226889 एक्स)—10 सितम्बर 1992 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता—30 जनवरी 1992 से दी जायेगी।)

हवलदार जगजीत सिंह (नं० 4456601 के अब जे०
सी० 226890 एम)—30 जनवरी 1992 ।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (नं० 4457152 एच अब जे० सी०
226891 पी)—07 अगस्त 1992 ।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता—30 जनवरी 1992 से दी जायेगी।)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (नं० 4453690 एच अब जे० सी०
226892 एक्स)—30 जनवरी 1992 ।

हवलदार करनल चन्द (नं० 4456746 पी) अब जे० सी०—
226893 ए)—30 जनवरी 1992 ।

हवलदार फुमान सिंह (नं० 4461668 एम अब जे० सी०
226894 एच) 30 जनवरी 1992 ।

हवलदार लाभ सिंह (नं० 4458359 वाई अब जे० सी०—
226895 एल)—30 जनवरी 1992 ।

हवलदार केवल सिंह (नं० 4459087 डब्ल्यू अब जे० सी०—
226896 एन)—30 जनवरी 1992 ।

हवलदार बलवीर सिंह (नं० 4461745 डब्ल्यू अब जे० सी०
226899 के)—3 जनवरी 1992 ।

हवलदार परम जीत सिंह (नं० 4458566 एल अब जे० सी०
226898 वाई)—01 मई 1992 ।

आसाम रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

माजेन चन्द्र दास (4348713 ए अब जे० सी०—226899
एफ)—19 दिसम्बर 1992 ।*

कृष्ण कान्त गगोई (4349127 के अब जे० सी०—
226900 एल)—7 सितम्बर 1992 ।%

पाउखोगिन कुकी (4349182 ए अब जे० सी०
226901 एन)—1 मार्च 1992 ।

रणजीत गोहांई (13676224 एल अब जे० सी०—
226902 डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1992 ।

गुनाधन सिंह (4349449 के अब जे० सी० 226903
वाई)—23 जून 1992 ।**

*नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता—01 जनवरी 1992 ।

%नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता—01 फरवरी 1992 ।

**नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता—01 मई 1992 से दी जायेगी।

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सरत कुमार नायक (संख्या—4257438 एक्स अब
जे० सी०—226904 एफ)—17 अप्रैल 1992 ।

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (-) के रैंक में

हवलदार बलवन्त सिंह बी० आर० सी० (नं० 9080730
के अब जे० सी०—226905 के)—09 सितम्बर 1992 ।*

*(15 दिसम्बर 1991 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के
लिए) ।

नरेन्द्र सिंह
डेस्क अधिकारी

थल सेना विभाग

सं० 868, दिनांक 23 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नतियां प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (सप्लाई)

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक (सामान्य ड्यूटी)

स्टाफ ड्यूटी के रैंक में

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक धन चरन सिंह (जे० सी०—
175313 पी)—01 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक अजीत सिंह बनवत (जे०
सी०—175314 एक्स)—01 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक के०के०एस० कुट्टी नायर
(जे० सी०—175315 ए)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक शिव दत्त शाह (जे० सी०—
181639 एफ)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक गनामनी जय मोहन (जे०
सी०—175316 एन)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक टी० एन० त्रिपाठी (जे०
सी०—181640 डब्ल्यू)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक रघुनन्दन यादव (जे० सी०—
181641 वाई)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर लिपिक जैलेन्द्र मिश्रा (जे० सी०—
181642 एफ)—06 मई, 1993।

पक्के सूबेदार लिपिक (सामान्य ड्यूटी)

स्टाफ ड्यूटी के रैंक में

प०/ए० सूबेदार सपन निम्बालकर (जे० सी०—192811
एक्स)—01 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार ईश्वर सिंह पहल (जे० सी०—192812
ए)—01 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी०—192813
एन)—01 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०—192814
एल)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार स्वदेश कुमार (जे० सी०—192815
एन)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार विन्सेन्ट एम० बी० (जे० सी०—192816
डब्ल्यू)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार श्रीधरन एम० (जे० सी०—198933
एक्स)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार सोमेश्वर बोरा (जे० सी०—192817
वाई)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार राम मोहन बेटालिक (जे० सी०—198934
ए)—10 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मानिक चन्दर साहू (जे० सी०—204908
एक्स)—06 मई, 1993।

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक (भण्डार) के रैंक में

प०/ए० सूबेदार मेजर दारोगा सिंह (जे० सी०—171300
ए)—01 फरवरी, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर राम गोपाल सिंह (जे० सी०—
168025 ए)—01 फरवरी, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर गोविन्दन मनिअन (जे० सी०—
168026 एच)—01 फरवरी, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर मेहर सिंह (जे० सी०—171306 एच)
01 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर महाभल मडाथिल राधाकृष्णन (जे०
सी०—171307 के)—10 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर रवीन्द्रन पिल्ले पी० के० पी० (जे०
सी०—163016 पी०)—10 मार्च, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर मेजर सिंह गिल (जे० सी०—
163024 एम)—12 मार्च, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर ज्ञान चन्द्र वाली (जे० सी०—
171308 एम)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर यदु नन्दन विश्वास (जे० सी०—
171311 एम)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर मुसाफिर तिवारी (जे० सी०—
171312 पी)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर मुन्ना लाल (जे० सी०—71313
एक्स)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० बेदार मेजर श्री कृष्णा सिंह (जे० सी०—1 5900
ए)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार मेजर सन्तू सिंह यादव (जे० सी०—
171316 एल)—01 मई, 1993।

पक्के सूबेदार लिपिक (भण्डार) के रैंक में

प०/ए० सूबेदार मोहिन्द्र पाउल (जे० सी०—195247
वाई)—01 फरवरी, 1993।

प०/ए० सूबेदार बाबू पी० (जे० सी०—193235 एल)—
01 फरवरी, 1993।

प०/ए० सूबेदार सोमाथन नायर (जे० सी०—193236
एन)—01 फरवरी, 1993।

प०/ए० सूबेदार राधा कृष्ण नायर (जे० सी०-193237 डब्ल्यू)—01 मार्च, 1993।

प०/ए० सूबेदार राम कुमार (जे० सी०-193238 वाई)—10 मार्च, 1993।

प०/ए० सूबेदार मुन्नु स्वामी काशीनाथन (जे० सी०-193239 एफ)—10 मार्च 1993।

प०/ए० सूबेदार बसंत बल्लभ पं. (जे० सी०-1 3240 डब्ल्यू)—12 मार्च, 1993।

प०/ए० सूबेदार विजय बहादुर नायक कृष्ण (जे० सी०-193241 वाई)—12 मार्च, 1993।

प०/ए० सूबेदार उपेंद्र नाथ दुबे (जे० सी०-193242 एफ)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-193243 के)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार थानेश्वर भूकन (जे० सी०-193244 एम)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार रंजीत सिंह (जे० सी०-199546 पी)—01 अप्रैल, 1993

प०/ए० सूबेदार दामोदर प्रयान-कोतबीतिल (जे० सी०-193245 पी)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार जगत राम (जे० सी०-193246 एक्स)—01 अप्रैल, 1993।

प०/ए० सूबेदार कश्मीर चन्द (जे० सी०-193247 ए)—01 मई, 1993।

प्रकाश चन्द,
अवर सचिव

सं० 869, दिनांक 23 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

सेना चिकित्सा कोर

नायब सूबेदार (नरसिंह असिस्टेंट) के पद पर

हवलदार राम दास सिंह गुरु (सं० 13917940 एम अब जे० सी० -690435 वाई)—15 दिसम्बर, 1992*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार अरविन्द कुमार महतो (सं० 13918778—एक्स अब जे० सी० -690436 एफ)—27 जनवरी, 1993**।

हवलदार प्रेम सागर सिंह (सं० 13919807 एफ अब जे० सी० -690437 के)—23 अप्रैल 1993**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार रावल सिंह (सं० 13918825 के अब जे० सी० -690438 एम)—03 मई, 1993***।

हवलदार सोम दत्त वाली (सं० 13919145 डब्ल्यू अब जे० सी० -690439 पी)—23 अप्रैल, 1993***।

*** (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार पृथ्वी सिंह सिद्धू (सं० 13919404 एन अब जे० सी० -690440 के)—02 अप्रैल, 1993%।

% (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार राम करन (सं० 13919510 एम अब जे० सी० -690441 एम)—23 जून, 1993%%।

हवलदार शमशाद खान (सं० 13919516 एच अब जे० सी० -690442 पी)—30 अप्रैल, 1993%%।

हवलदार लक्ष्मी नारायण (सं० 13919551 डब्ल्यू अब जे० सी० -690443 एक्स)—20 अप्रैल, 1993%%।

हवलदार चिदाम्बरम कृष्णन (सं० 13919649 के अब जे० सी० -690444 ए)—16 अप्रैल, 1993%%।

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 13918427 एक्स अब जे० सी० -690445 एच)—08 अप्रैल, 1993%%।

हवलदार सोजी लाल (सं० 13919686 एक्स अब जे० सी० -690446 एल)—21 अप्रैल, 1993%%।

%% (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च, 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार आजाद सिंह (सं० 13919673 ए अब जे० सी० -690447 एन)—20 अप्रैल, 1993%%।

हवलदार बलबोर सिंह बिष्ट (सं० 13919622 एम अब जे० सी० -690448 डब्ल्यू)—10 अप्रैल, 1993 1%%।

हवलदार मदन पाल सिंह (सं० 13919683 एन अब जे० सी० -690449 वाई)—08 अप्रैल, 1993 1%%।

हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं० 13919684 एम अब जे० सी० -690450 एन)—08 अप्रैल, 1993 1%%।

हवलदार भीरमा राम पटेल (सं० 13919696 एफ अब जे० सी०-690451 डब्ल्यु)—06 अप्रैल, 1993 1% % %

% % % (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह यादव कोसलिया (सं० 13915730 डब्ल्यु अब जे० सी०-690452 वाई)—07 जुलाई, 1993* ।

*(नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून, 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 13919776 वाई अब जे० सी०-690453 एफ)—01 जून, 1993 ।

हवलदार रघबीर सिंह (सं० 13919844 एफ अब जे० सी०-690454 के)—01 जून, 1993 ।

हवलदार पुर्जीरीरा पलनगप्पा बेलियप्पा (नं० 13919901 एक्स अब जे० सी०-690455 एम)—06 जुलाई, 1993 ।**

** (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार हरीद्वार सिंह (सं० 13919890 डब्ल्यु अब जे० सी०-690456 पी)—01 जुलाई, 1993 ।

नायब सूबेदार (अम्बुलेंस असिस्टेंट)
के पद पर

हवलदार बीरम राम चौधरी (सं० 13917835 एफ अब जे० सी०-690457 एक्स)—15 मार्च, 1993* ।

*(नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च, 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार नफे सिंह (सं० 13918235 एल अब जे० सी०-690458 ए)—03 अप्रैल, 1993** ।

हवलदार हरीश चन्दर झा (सं० 13918498 के अब जे० सी०-690459 एच)—06 अप्रैल, 1993** ।

हवलदार बिहारी लाल (सं० 13918599 एक्स अब जे० सी०-690460 एक्स)—20 मई, 1993** ।

** (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार रशी नाथ भोंई (नं० 13918573 वाई अब जे० सी०-690461 ए)—28 जून, 1993*** ।

हवलदार गनेश मन्डल (सं० 13917704 डब्ल्यु अब जे० सी०-690462 एच)—13 मई, 1993*** ।

हवलदार ब्रह्मा नन्द (सं० 13917840 वाई अब जे० सी०-690463 एल)—01 मई, 1993 ।

हवलदार परषोत्तम लाल (सं० 13918864 एच अब जे० सी०-690464 एन)—13 मई, 1993*** ।

हवलदार राम सिंह (सं० 13918901 एल अब जे० सी०-690465 डब्ल्यु)—14 मई, 1993*** ।

*** (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई, 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार झूलो राम (सं० 13919002 डब्ल्यु अब जे० सी०-690466 वाई)—16 जून, 1993*** ।

*** (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून, 1993 से दी जायेगी) ।

हवलदार राधा कान्ता सिन्हा (सं० 13919064 डब्ल्यु अब जे० सी०-690467 एफ)—24 जून, 1993*** ।

हवलदार रतन चन्द (सं० 13921151 एच अब जे० सी०-690468 के)—03 जून, 1993*** ।

हवलदार देवी दत्त (सं० 13921155 वाई अब जे० सी०-690469 एम)—12 जून, 1993*** ।

*** (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून, 1993 से दी जायेगी)

हवलदार श्री कृष्ण (सं० 13921139 एफ अब जे० सी०-690470 एफ)—01 जून, 1993 ।

हवलदार जगदं शचन्द्र (सं० 13921201 एच अब जे० सी०-690471 के)—01 जून, 1993 ।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 1392 598 ए अब जे० सी०-690472 एम)—01 जुलाई, 1993 ।

नायब सूबेदार (वाहन चालक) के पद पर

हवलदार केशर देव (सं० 13918227 एम अब जे० सी०-690473 पी)—25 जून, 1993** ।

** (नायब सूबेदार के पद पर बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून, 1993 से दी जायेगी) ।

सी० पी० जोशी,
ले कर्नल,
चि० से० संयुक्त निदेशक (प्रशि०)

सं० 870, दिनांक 23 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदोन्नतियां करके प्रसन्नचित होते हैं :—

नियमित सेना

विद्युत और यंत्रिक इंजीनियरी कोर
हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०)
के रैंक में

गोपीनाथन नायर एम० के० (सं० 14503314 एल अब
जे० सी०-747127 ए)—05 नवम्बर, 1992।*

गौतम कुमार मजुमदार (सं० 14528899 पी अब जे०
सी०-747126 एफ)—04 नवम्बर, 1992**।

कल्याण चक्रवर्ती (सं० 14528914 वाई अब जे० सी०-
747128 एच)—01 नवम्बर, 1992।

मदन गोपाल सिंह (सं० 14528915 एफ अब जे० सी०-
747129 एल)—13 नवम्बर, 1992*।

विनोद पाल शर्मा (सं० 14528894 डब्ल्यू अब जे० सी०-
747306 ए-11) 11 दिसम्बर, 1992**।

नारायण करनसे (सं० 14529053 वा अब जे० सी०-
747318 पी)—14 जनवरी, 1993।

महाब्रता कुमार मिश्रा (सं० 14529062 एफ अब जे०
सी०-747319 एक्स)—01 दिसम्बर, 1992।

विरेंद्र सिंह चौहान (सं० 14504034 के अब जे० सी०-
747424 एन)—04 अक्टूबर, 1992**।

हरी कुमार आर० (सं० 14527563 एच अब जे० सी०-
747423 एल)—01 सितम्बर, 1992।

सुशील कुमार शर्मा (सं० 14528916 के अब जे० सी०-
747425 डब्ल्यू)—01 नवम्बर, 1992।

राम निवास राय (सं० 14529066 एक्स अब जे० सी०-
747426 वाई)—01 दिसम्बर, 1992।

किरन (सं० 14506282 एल अब जे० सी०-747430
एफ)—01 फरवरी, 1993।

जीवन (सं० 14518110 डब्ल्यू अब जे० सी०-747431
के)—01 फरवरी, 1993।

सन्तोष कुमार (सं० 14523261 वाई अब जे० सी०-
747432 एम)—01 फरवरी, 1993।

हवलदार से नायब सूबेदार एस० के० टी०

के रैंक में

वलवीर राम (सं० 14526088 ए अब जे० सी०-
747320 एम)—01 अक्टूबर, 1992।

रघुवीर सिंह (सं० 14526076 डब्ल्यू अब जे० सी०-
747427 एफ)—01 नवम्बर, 1992।

दिरि सपाम किशोर कुमार (सं० 14526257 ए अब
जे० सी०-747428 के)—01 दिसम्बर, 1992।

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोरर के रैंक में

गुरमेल चन्द (सं० 14504637 ए अब जे० सी०-
747130 एल)—01 दिसम्बर, 1992।

मुखराज (सं० 14504959 ए अब जे० सी०-
747437 एल)—01 दिसम्बर, 1992।

पुआ राम बोरो (सं० 14505387 डब्ल्यू अब जे० सी०-
747374 एन)—01 जनवरी, 1993।

मोहिन्दर सिंह (सं० 14505394 एम अब जे० सी०-
747375 डब्ल्यू)—01 जनवरी, 1993।

सत्य नारायण रे (सं० 14505627 एच अब जे० सी०-
747429 एम)—01 जनवरी, 1993।

हवलदार से नायब सूबेदार झाईवर (एम० टी०)
के रैंक में

गिरजा प्रसाद (सं० 14514973 ए अब जे० सी०-
747322 एक्स)—01 अक्टूबर, 1992।

विजय कुमार मूले (सं० 7117555 एन अब जे० सी०-
747326 एन)—30 अक्टूबर, 1992×।

जय प्रकाश (सं० 7116777 एम अब जे० सी०-
747326 एन)—20 दिसम्बर, 1992*×।

श्री राम गुजर (सं० 14513103 डब्ल्यू अब जे० सी०-
747327 डब्ल्यू)—16 दिसम्बर, 1992**×।

नन्द कुमार सहा (सं० 13847450 के अब जे० सी०-
747328 वाई)—28 नवम्बर, 1992**×।

विजय बहादुर (सं० 14513004 एन अब जे० सी०-
747323 ए)—01 अक्टूबर, 1992।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1992 से
दी जायेगी)।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1992
से दी जायेगी)।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1992 से
दी जायेगी)।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना 29 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी
जायेगी)।

*× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना 17 दिसम्बर, 1992 से ज्येष्ठता
दी जायेगी)।

**× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना 26 दिसम्बर, 1992 से ज्येष्ठता
दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार रिक्वरी में के रैंक में

विमन बिहारी दास (सं० 14513947 एम अब जे० सी०-747321 पी)--01 अक्टूबर, 1992।

रामानुज ठाकुर (सं० 13847479 एम अब जे० सी०-747376 वाई)--01 फरवरी, 1993।

रमेश जीप (सं० 13849699 पी अब जे० सी०-747365 एम)--17 जनवरी, 1992*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार टरनर के रैंक में

राम मेहर मालिक (सं० 7116905 एच अब जे० सी०-747329 एफ)--01 जनवरी, 1993।

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एम० टी०) के रैंक में

फकीर मोहन मोहनता (सं० 14512542 पी अब जे० सी०-747378 के)--01 अक्टूबर 1992।

बली राम (सं० 13850065 एल अब जे० सी०-747384 एक्स)--28 नवम्बर, 1992*।

रिशी केश (सं० 14515007 ए अब जे० सी०-747379 एम)--01 अक्टूबर, 1992।

हरजीत राम (सं० 7116085 एफ अब जे० सी० जे 747386 एच)--04 जनवरी, 1993*×।

जगदीश (सं० 13850001 एम अब जे० सी०-747380 एफ 02 दिसम्बर 1992×।

रजवीर सिंह (सं० 14516830 वाई अब जे० सी०-747381 के)--30 अक्टूबर, 1992**।

धर्म पाल प्रसाद (सं० 14515314 एक्स अब जे० सी०-747382 एम)--01 अक्टूबर, 1992।

उमादत्त (सं० 14517130 एन अब जे० सी०-747383 पी)--04 दिसम्बर, 1992**।

के० राम दास (सं० 12482645 वाई अब जे० सी०-747385 ए)--30 जनवरी, 1993***।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 26 नवम्बर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

*×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 29 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 20 दिसम्बर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार रिक्वरी में के रैंक में

योगेन्द्र प्रसाद (सं० 14508214 के अब जे० सी०-747304 पी)--21 अक्टूबर, 1992**।

लखी चन्द सिंह (सं० 14514704 एम अब जे० सी०-747305 एक्स)--01 दिसम्बर, 1992**।

गिरिजेश पांडे (सं० 14515397 ए अब जे० सी०-747490 ए)--21 अक्टूबर, 1992*×।

विमल प्रसाद सिंह (सं० 14517111 एम अब जे० सी०-747291 एच)--29 नवम्बर, 1992*×।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

*× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार लिम्ब मेकर के रैंक में

मैत्यू सी० (सं० 14519524 एच अब जे० सी०-747289 एल)--28 जनवरी, 1993*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जनवरी, 1992 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार कार्पेन्टर जाइनर के रैंक में

शिव कुमार ओझा (सं० 14546319 एक्स अब जे० सी०-747331 वाई)--26 अक्टूबर, 1992*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 22 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

विरेन्द्र कुमार (सं० 14544960 के अब जे० सी०-747421 ए)--24 अक्टूबर, 1992**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 22 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार टेलर (यू०) के रैंक में
 प्रसन्न कुमार पिल्लै आर. (सं० 14528144 एल अब
 जे० सी०-747422 एच)--11 नवम्बर, 1992* ।
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
 प्रभाव डाले बिना 08 नवम्बर, 1992 से ज्येष्ठता
 दी जायेगी) ।
 हवलदार से नायब सूबेदार सेटल समिथ के रैंक में
 श्री चन्द (सं० 14501328 डब्ल्यू अब जे० सी०-
 747330 डब्ल्यू)--01 जनवरी, 1993 ।
 हवलदार से नायब सूबेदार अपहोलस्टर के रैंक में
 बहादुर चन्द (सं० 14501022 के अब जे० सी०-
 747324 एच)--21 अक्टूबर, 1992** ।
 ** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
 प्रभाव डाले बिना 18 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता
 दी जायेगी) ।
 हवलदार से नायब सूबेदार वी० एम० (एमवी) के रैंक में
 पुनी राम बोरा (सं० 7127591 एम अब जे० सी०-
 747292 एल)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 दुर्गा दास (सं० 7127862 एच अब जे० सी०-747293
 एन)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 रबुबीर सिंह (सं० 14500125 डब्ल्यू अब जे० सी०-
 747294 डब्ल्यू)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 बद्धी बहादुर कर्की (सं० 14500299 डब्ल्यू अब जे०
 सी०-747295 वाई)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 महेश चन्द्र गुप्ता (सं० 14500153 एच अब जे० सी०-
 747296 एफ)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 राम निवास पांडे (सं० 14500305 डब्ल्यू)-- अब जे०
 सी०-747297 के)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 सवरीसिलुव राज मुत्तु (सं० 14500509 एल अब जे०
 सी०-747298 एम)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 बचन चन्द (सं० 14500613 वाई अब जे० सी०-
 747299 पी)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 करतार सिंह (सं० 14501090 एक्स अब जे० सी०-
 747300 वाई)--30 दिसम्बर, 1992* ।
 राम गोपाल सिंह (सं० 145010221 एक्स अब जे०
 सी०-747301 एफ) 23 अक्टूबर, 1992* ।
 सत्य नारायण शर्मा (सं० 14501624 एक्स अब जे०
 सी० 747302 के) 05 नवम्बर, 1993* ।
 भाइस्वामी दुर्ग राजु (सं० 14501667 एम अब जे०
 सी०-747303 एम)--24 अक्टूबर, 1993 ।*

पेडीरेडला वेन्कटरमन मूर्ती (सं० 7115032 डब्ल्यू अब
 जे० सी०-747307 एच)--22 अक्टूबर, 1992* ।
 मोहिन्दर सिंह (सं० 7127089 एक्स अब जे० सी०-
 747308 एल)--01 अक्टूबर, 1993 ।
 सगीर (सं० 14500462 एल अब जे० सी०-747309
 एन)--01 अक्टूबर, 1992* ।
 सुधा सिंह (सं० 7127376 एफ अब जे० सी०-747310
 एच)--21 अक्टूबर, 1992* ।
 मिहिर कुमार पाठक (सं० 7127578 एच अब जे० सी०-
 747311 एल)--10 नवम्बर, 1992* ।
 बलबहादुर कुमार (सं० 7127813 एम अब जे० सी०-
 747312 एन)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 जय नाथ साहु (सं० 14500857 एम अब जे० सी०-
 747313 डब्ल्यू)--01 अक्टूबर, 1992 ।
 रवी दत्त पांडे (सं० 14501151 के अब जे० सी०-
 747314 वाई)--25 अक्टूबर, 1992* ।
 अमर सिंह (सं० 14501217 पी अब जे० सी०-
 747315 एफ)--02 नवम्बर, 1992* ।
 हरीन्द्र प्रसाद सिंह (सं० 14501522 एफ अब जे० सी०-
 747316 के)--25 अक्टूबर, 1992* ।
 एम० डी० सावू (सं० 14501806 एल अब जे० सी०-
 747317 एम)--23 अक्टूबर, 1992* ।
 राम राव रवाते (सं० 14500315 एच अब जे० सी०-
 747366 पी)--01 अक्टूबर 1992 ।
 राज सिंह (सं० 14501615 डब्ल्यू अब जे० सी०-
 747367 एक्स)--24 अक्टूबर 1992* ।
 रमेश चन्द चौधरी (सं० 14501685 पी अब जे० सी०-
 747368 ए)--24 अक्टूबर 1992* ।
 गुरचरण साह (सं० 14501816 पी अब जे० सी०-
 747369 एच)--24 दिसम्बर 1992* ।
 अमरजीत सिंह (सं० 7127857 एन अब जे० सी०-
 747370 एक्स)--27 नवम्बर 1992* ।
 आनन्द कुमार (सं० 14502174 एक्स अब जे० सी०-
 747371 ए)--28 नवम्बर 1992* ।
 जनार्धन हूब्रे (सं० 7117507 एन अब जे० सी०-
 747372 एच)--17 दिसम्बर 1992* ।
 सुरन्द्र सिंह बोरा (सं० 7127290 एच अब जे० सी०-
 747411 डब्ल्यू)--01 अक्टूबर 1992 ।
 सुदर्शन प्रसाद (सं० 7127892 डब्ल्यू अब जे० सी०-
 747412 वाई)--01 अक्टूबर 1992 ।

राम प्रवेश सिंह (सं० 14500293 पी अब जे० सी०—
747413 एफ)---10 दिसम्बर 1992* ।

सीता राम (सं० 14509705 एल अब जे० सी०—
747414 के)---01 अक्टूबर 1992 ।

राम बहादुर थापा (सं० 14500975 ए अब जे० सी०—
747415 एम)---01 अक्टूबर 1992 ।

हुदाल पुडी नरसिंह राव (सं० 1450091 एच अब
जे० सी०—747416 पी)---01 अक्टूबर 1992 ।

शेर बहादुर गुरुंग (सं० 14501239 एम अब जे० सी०—
747417 एक्स)---19 अक्टूबर 1992* ।

मारियप्पन रामलिंगम (सं० 14501779 एन अब जे०
सी०—747418 ए)---13 जनवरी 1993* ।

नारद ठाकुर (सं० 14502137 के अब जे० सी०—
747419 एच)---27 नवम्बर 1992* ।

भगवान बहादुर (सं० 14502215 एन अब जे० सी०—
747420 एक्स)---16 जनवरी 1993* ।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 1992 से ज्येष्ठता
दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार टो० सी० एम० (आर० ओ०)
के रैंक में

गुरचरण सिंह (सं० 7116900 के अब जे० सी०—
747125 पी)---01 जलाई 1992 ।

हवलदार से नायब सूबेदार टैक इलेक्ट्रीशियन के रैंक में

सीस गाम (सं० 14503935 के अब जे० सी०—
747333 के)---02 दिसम्बर 1992* ।

गुलशन कुमार (सं० 14524347 एल अब जे० सी०—
747334 एम)---18 दिसम्बर 1992 ।*

जवान धर्माजी गणपत (सं० 14524819 एम अब जे०
सी०—747335 पी)---01 अक्टूबर 1992 ।

पुशकर दत्त भट्ट (सं० 14503114 पी अब जे० सी०—
747336 एक्स)---01 अक्टूबर 1992 ।

उम्मीद सिंह (सं० 14518509 एन अब जे० सी०—
747337 ए)---01 अक्टूबर 1992 ।

सी गाम (सं० 14519996 एल अब जे० सी०—
747338 एच)---15 नवम्बर 1992* ।

मिस्तु मोहन राव (सं० 14522113 एफ अब जे० सी०—
747339 एल)---01 अक्टूबर 1992 ।

गुरमीत सिंह (सं० 14519760 डब्ल्यू अब जे० सी०—
747393 वाई)---01 अक्टूबर 1992 ।

5—254 GI/93

अमिया कुमारा सिन्हा महापात्र (सं० 14525500 एफ
अब जे० सी०—747394 एफ)---01 अक्टूबर 1992 ।

सी० निखोलस (सं० 14509320 पी अब जे० सी०—
747395 एम)---01 अक्टूबर 1992 ।

धनिष कुमार गर्मा (सं० 14523627 एल अब जे० सी०—
747396 एम)---01 अक्टूबर 1992 ।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 1992 से ज्येष्ठता
दी जायेगी) ।

एच० एम० टी० से नायब सूबेदार ऐक (आर० ओ०)
के रैंक में

प्रीतम सिंह (सं० 7119113 एन अब जे० सी०—
747340 ए)---27 जनवरी, 1993* ।

हरनथ देवा (सं० 14514279 एन अब जे० सी०—
747341 एच)---30 अक्टूबर, 1992 ।

विश्वनाथन टी० (सं० 7119244 वाई अब जे० सी०—
747342 एल)---01 अक्टूबर, 1992 ।

भगवान प्रसाद यादव (सं० 14524511 एफ अब जे०
सी०—747343 एन)---01 अक्टूबर, 1992 ।

कृष्णन के० आई० वी० (सं० 7119242 एल अब जे०
सी०—747404 ए)---01 अक्टूबर, 1992 ।

हरबंस लाल छत्रगोत्रा (सं० 14514621 एच अब जे०
सी०—747405 एच)---01 अक्टूबर, 1992 ।

वी० जंकरैया (सं० 14516433 ए अब जे० सी०—
747406 एल)---01 अक्टूबर, 1992 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता
दी जायेगी) ।

एच० एम० टी० से नायब सूबेदार टैक इन्स्ट्रुमेंट
के रैंक में

चन्द्रा सिंह (सं० 14511636 एक्स अब जे० सी०—
747344 डब्ल्यू)---17 दिसम्बर, 1992* ।

सोम नाथ मिश्रा (सं० 14513937 एच अब जे० सी०—
747345 वाई)---01 अक्टूबर, 1992 ।

हरी कृष्णा पात्रा (सं० 14510788 पी अब जे० सी०—
747346 एफ)---19 नवम्बर, 1992* ।

कमन जीत (सं० 14522838 एफ अब जे० सी०—
747347 के)---01 अक्टूबर, 1992 ।

एकनाथ पुनाराम कयावे (सं० 14525441 ए अब जे०
सी०—747348 एम)---01 अक्टूबर, 1992 ।

पद्मनाभन ए० (सं० 14526411 पी अब जे० सी०-747349 पी) — 19 अक्टूबर, 1992*।

सुरजीत सिंह (सं० 14505847 एम अब जे० सी०-747402 पी) — 01 अक्टूबर, 1992।

टीलगोविन्द कुण्डु (सं० 14526452 वाई अब जे० सी०-747403 एक्स) — 01 अक्टूबर, 1992।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

एच०एम०टी० नायब सूबेदार टैंक (राडर) के रैंक में

मन्यपाल सिंह चौहान (सं० 14524481 पी अब जे० सी०-747363 एफ) — 01 दिसम्बर, 1992।

कौशलेन्द्र सिंह (सं० 14524823 एक्स अब जे० सी०-747364 के) — 01 दिसम्बर, 1992।

श्री भगवान (सं० 14524083 एम अब जे० सी०-747407 एन) — 01 अक्टूबर, 1992।

मेहर सिंह शर्मा (सं० 14521050 एफ अब जे० सी०-747410 एन) — 01 फरवरी, 1993**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार रैंक (गन) के रैंक में

आर० पृथ्वीनन्दन (सं० 7119695 वाई अब जे० सी०-747355 एच) — 01 अक्टूबर, 1992*।

विशम्बरन पी० आर० (सं० 7118849 एन अब जे० सी०-747356 एल) — 07 दिसम्बर, 1992*।

राम सेवक यादव (सं० 14521315 डब्ल्यू अब जे० सी०-747357 एन) — 01 अक्टूबर, 1992।

सचिवीदानन्दन घोष (सं० 14521337 पी अब जे० सी०-747358 डब्ल्यू) — 01 अक्टूबर, 1992।

सुभाष जयकर जात (सं० 14525231 ए अब जे० सी०-747359 वाई) — 01 अक्टूबर, 1992।

सुधीर कुमार (सं० 14521201 एन अब जे० सी०-747360 एन) — 01 अक्टूबर, 1992।

कृशल सिंह (सं० 14675092 एम अब जे० सी०-747361 डब्ल्यू) — 01 अक्टूबर, 1992।

चन्द्र बाबू एम० (सं० 7119682 एफ अब जे० सी०-747362 वाई) — 02 दिसम्बर, 1992*।

कनप्पा दुण्डप्पा मगदम (सं० 14517358 एन अब जे० सी०-747398 वाई) — 21 जनवरी, 1993*।

गलानन्द (सं० 14523009 ए अब जे० सी०-747397 पी) 31 अक्टूबर 1992।*

पन्ची प्रसाद राय (सं० 14521400 वाई अब जे० सी०-747399 ए) — 01 अक्टूबर, 1992।

अमरेन्द्र दत्ता (सं० 14517372 ए अब जे० सी०-747400 के) — 01 अक्टूबर, 1992।

विजयन एन (सं० 14526101 के अब जे० सी०-747401 एम) 28 जनवरी, 1993।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैंक (लाईन) के रैंक में

हरपत एम० (सं० 7119564 एन अब जे० सी०-747352 पी) — 01 अक्टूबर, 1992।

कौशलेन्द्र सिंह (सं० 7119522 एफ अब जे० सी०-747353 एक्स) — 01 अक्टूबर, 1992।

नारायणन एफ० बी० (सं० 7119611 ए अब जे० सी०-747408 डब्ल्यू) — 01 अक्टूबर, 1992।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैंक (जी० सी० ई०) के रैंक में

जी० अनगिरी (सं० 14512986 एन अब जे० सी०-747354 ए) — 22 दिसम्बर, 1992*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर, 1992 से ज्येष्ठता दी जायेगी)।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैंक (बी० व्हीकल) के रैंक में

अमरलिंगा स्वामी जुदुगु (सं० 14513434 एक्स अब जे० सी०-747409 वाई) — 22 नवम्बर, 1992।

ईश्वरा एम० के० (सं० 14525793 एक्स अब जे० सी०-747387 एल) — 01 अक्टूबर, 1992*।

मदन लाल गुप्ता (सं० 14503395 डब्ल्यू अब जे० सी०-747388 एन) — 29 नवम्बर, 1992*।

राम राज गोस्वामी (सं० 14503974 एच अब जे० सी०-747389 डब्ल्यू) — 05 अक्टूबर, 1992।

- ससावदे शिकन्दर (सं० 14505028 एच अब जे० सी०-747300 एल) — 01 अक्तूबर, 1992।
- नारामन चन्द्र नन्दा गोस्वामी (सं० 14512251 पी अब जे० सी०-747301 एन) — 01 अक्तूबर, 1992।
- ब्रिज बिहारी चौबे (सं० 14514568 एच अब जे० सी०-747302 डब्ल्यू) — 01 अक्तूबर, 1992।
- राजन के० पी (सं० 7119218 एक्स जे० अब सी० 747332 एफ) — 19 जनवरी, 1993।*
- रमेश सिंह भण्डारी (सं० 14510058 के अब जे० सी०-747350 के) — 15 नवम्बर, 1992।*
- गुलब सिंह राजपूत (सं० 14510442 एल अब जे० सी०-747351 एम) — 01 अक्तूबर, 1992।*
- * (नायब सूबेदार के रैंक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी, 1992 में ज्येष्ठता दी जायेगी)।
- * (नायब सूबेदार के रैंक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्तूबर, 1992 में ज्येष्ठता दी जायेगी)।
- हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में
- जागीर सिंह (सं० 7126060 एम अब जे० सी०-747377 एफ) — 01 फरवरी, 1993।
- एस० एम० कैमवाल
अवर सचिव
- सं० 971, दिनांक 25-8-93--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां प्रत्येक के आगे दी हुई तारीखों से करते हैं (नौसेना अधिन 15/69 देखें) :-
- भारतीय नौसेना
स्थापी फाउंडर
- मास्टर फीफ पेटी अफसर प्रथम श्रेणी के रैंक में
- जे० सिंह 048221-डब्ल्यू एम० सी० पी० ओ०-2 एम० पी० टी०-1-30 नवम्बर 1989।
- बी० दूबे 066903-बी एम० सी० पी० ओ०-2 आर० पी०-1-20 अप्रैल 1989।
- आर० एल० यदव 082075-के एम० सी० पी० ओ०-2 आर० सी०-1-01 मई 1988।
- डी० कपूर 082662-डब्ल्यू० एम० सी० पी० ओ०-2 पी० आर०-1-30 नवम्बर, 1989।
- डी० राज, 083261-एफ, एम० सी० पी० ओ०-2, एस-1-30 नवम्बर, 1989।
- के० एम० गिन्, 087926 एच, एम० सी० ए० टी०-अर्मस-2-31 जनवरी, 1990।
- एल० राम, 058350 आर, एम० एम० सी० पी० आ०-2, 31 जनवरी, 1990।
- एम० लाल, 069690 एन, एम० एम० सी० पी० आ०-2-31 मार्च, 1990।
- आर० सी० लखनपाल, 069949 ए, एम० एम० सी० पी० आ०-2-31 मार्च, 1990।
- टी० जे० सिंह 067932-टी, एम० सी० पी० ओ० राईटर-2-31 जनवरी, 1990।
- अर० चांद, 082085 एच, एम० सी० पी० ओ०, राईटर-2-31 जनवरी, 1990।
- एस० क० मित्रा, 049525 एच, एम० सी० ए० (ए० एच) 2-01 अप्रैल, 1989।
- एल० सिंह, 082496 टी, एम० सी० एम० (एम० ई०) 2-30 नवम्बर, 1989।
- जान चन्द, 0893390 डी, एम० सी० ए० (पी० एच०) 2-28 फरवरी, 1990।
- वी० राम, 09, एम० सी० ई० एल० ए० आर०, 2-01 मई, 1989।
- एफ० पी० ड० सूजा, 052424 वाई, एम० सी०, ए० ए० 2-15 अप्रैल, 1989।
- के० नरेन्द्र, 097623 वाई, एम० सी० ए० ए०-2-29 अप्रैल, 1989।
- जोम पी० कीजाकथाल, 190647 आर०, एम० सी० ए० ए० 2-01 अक्तूबर, 1989।
- टी० एच० रोबिन, 051913 के, एम० सी० ई० आर० ए० 2-01 मार्च, 1987।
- एच० लाल, 049671 आर०, एम० सी० पी० ओ० 2 पीटी 1-01 अप्रैल, 1990।
- जे० चन्दर, 082133 टी, एम० सी० पी० ओ० 2 पीटी 1-01 अप्रैल, 1990।
- ए० ए० एम० बाम्बरा, 069872 ए, एम० एम० सी० पी० ओ० 2-01 अप्रैल, 1990।
- टी० आर० शर्मा, 069223 ए, एम० सी० पी० ओ० राईटर 2-01 अप्रैल, 1990।
- एम० सिंह, 069888 एन, एम० सी० पी० ओ० राईटर-01 अप्रैल, 1990।

आर. पी. शर्मा, 082126ए, एम. सी. पी. राईटर
2-01 अप्रैल, 1990।

एस. पी. सिंह 082522ए, एम. सी. पी. ओ. राईटर 2
-22 अप्रैल, 1990।

जे. एस. शर्मा, 082111। जैड, एम. सी. ए. (ए. एच.)
2-31 मार्च, 1990।

एस. एन. तिवारी 086381 वाई एम. सी. ए.
(ए. एच.) 2-01 अप्रैल, 1990।

एस. ए. जोन 08350बी, एम. सी. ए. (ए. एच.)
2-01 अप्रैल, 1990।

टी. वी. वयकटसेन, 051925एन, एम. सी. ए. ए.
डब्ल्यू) 2-01 अप्रैल, 1990।

एल. एस. फ. लीवाल, 052463के, एम. सी. ई. आर.
ए. 2-01 मई, 1989।

के. विह, 049177टी, एम. सी. पी. ओ. 2 एस. पी.
डी. 1-01 अप्रैल, 1990।

बी. सिंह, 066966 वाई, एम. सी. पी. ओ. 2 आर.
सी. 1-20 अप्रैल, 1990।

के. के. कुट्टी, 067317 डब्ल्यू, एम. सी. पी. ओ. 2
आर. सी. 1-10 अप्रैल, 1990।

आर. के. अहि, 067420 बी, एम. सी. पी. ओ. 2
आर. सी. 20 अप्रैल, 1990।

जी. मिह, 067938एफ, एम. सी. पी. ओ. 2 जी.
एल. 1-01 अक्टूबर, 1990।

जी. एस. नेगी, 081513 एच, एम. सी. पी. ओ. 2
बू. सी. 1-01 जुलाई, 1990।

सी. सैन, 081564 जैड, एम. सी. पी. ओ. 2 आर.
पी. 1-20 अप्रैल, 1990।

एस. एस. विष्ट, 081842 एफ, एम. सी. पी. ओ. 2
बू. ए. 2-01 अक्टूबर, 1990।

ए. के. सरकार, 082022 आर, एम. सी. पी. ओ. 2
आर. सी. 1-20 अप्रैल, 1990।

जी. सी. शर्मा, 082339 के, एम. सी. पी. ओ. 2
आर. सी. 1-10 अप्रैल, 1990।

डी. सिंह, 082341 आर, एम. सी. पी. ओ. 2
एच. पी. टी. 1-01 मई, 1990।

डी. सिंह, 082781 आर, एम. सी. पी. ओ. 2,
एस. पी. टी. 1-01 मई, 1990।

टी. राय, 083285के, एम. सी. पी. ओ. 2, आर.
सी. 1-30 अप्रैल, 1990।

पी. सिंह, 083455 वाई, एम. सी. पी. ओ. 2,
पी. आर. 1-01 जुलाई, 1990।

आर. के. मिह, 083670वे, एम. सी. पी. ओ. 2,
यू. डब्ल्यू. 1-01 अगस्त, 1990।

एस. वी. सिंह, 083482ए, एम. सी. पी. ओ. 2
आर. सी. 1-0 अगस्त, 1990।

जी. एस. कारकी, 086107 जैड, एम. सी. पी. ओ. 2
बू. ए. 1-10 अप्रैल, 1990।

जी. सिंह, 086284ए, एम. सी. पी. ओ. 2 आर.
पी. 1-20 अप्रैल, 1990।

डी. सन्द, 086843 वाई, एम. सी. पी. ओ. 2 बू. ए.
1-01 अप्रैल, 1990।

एस. एन. सिंह, 086937के, एम. सी. पी. ओ. 2,
आर. पी. 1-30 अप्रैल, 1990।

जी. मिह, 087685के, एम. सी. पी. ओ. 2 यू.
डब्ल्यू. 1-01 सितम्बर, 1990।

यू. चांद, 087811 वाई, एम. सी. पी. ओ. 2 टी. ए.
एस. 1-01 अक्टूबर, 1990।

वी. मिह, 088546टी, एम. सी. पी. ओ. 2, बू. ए.
1-01 मई, 1990।

के. चांद, 089954टी, एम. सी. पी. ओ. 2 आर. सी.
1-01 नवम्बर, 1990।

ओ. पी. सांधी, 080499बी, एम. सी. ए. ए. 2-
01 जुलाई, 1990।

जी. सिट्ट, 086508के, एम. सी. ए. ए. 2-01
अगस्त, 1990।

के. पी. के. नायर, 086785आर, एम. सी. पी. ओ.
आर. टैक 2-05 अप्रैल, 1990।

के. सिंह, 088994के, एम. सी. पी. ओ. आर. टैक 2
-01 अगस्त, 1990।

एन. चांद, 089255 बी, एम. सी. पी. ओ. आर.
टैक 2-01 मई, 1990।

एस. आर. वर्मा, 068716 जैड, एम. सी. पी. ओ.
आर. टैक 2-02 जुलाई, 1990।

आर. के. मजूमदार, 069102ए, एम. सी. पी. ओ.
आर. टैक 2-20 अप्रैल, 1990।

एस. सिंह, 082442 डब्ल्यू, एम. सी. पी. ओ. आर.
टैक 2-30 अप्रैल, 1990।

एन. एस. पुल्लि, 082501बी, एम. सी. पी. ओ. आर.
टैक 2-01 अप्रैल, 1990।

आर. पटेल, 082688डी, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-16 अप्रैल, 1990।

के. एस. नायर, 083015वाई, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-09 अप्रैल, 1990।

वी. के. नायर 088234एच, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-12 अप्रैल, 1990।

मी. एस. ब्रह्माल, 088713वाई, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-25 अप्रैल, 1990।

के. पी. आर. नायर, 089208वाई, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-01 जुलाई, 1990।

एस. सी. सुद, 090169एफ, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-10 अक्टूबर, 1990।

वी. आर. जोस, 090192एच, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-01 अक्टूबर, 1990।

एन. सिंह, 068626 डब्ल्यू, एम. सी. पी. ओ. आर. टैल 2-31 अक्टूबर, 1990।

एस. कुलकर्णी, 066293 टी, एम. सी. पी. ओ., एम. ए. 2 ओ. आर. टी. 01 अप्रैल 1990।

एल. चांद, 066523आर, एम. सी. पी. ओ. एम. ए. 2 ओ. आर. टी. 10 अप्रैल, 1990।

के. के. लक्ष्मा 080370 के, एम. सी. पी. ओ. एम. ए. 2 एल. टी. 01 अप्रैल, 1990।

एस. राम, 058189 जेड, एम. सी. पी. ओ. राईटर 2-01 जून, 1990।

जे. सिंह, 081825टी, एम. सी. पी. ओ., राईटर 2-01 जुलाई, 1990।

के. सिंह, 082084एफ, एम. सी. पी. ओ. राईटर 2-01 अप्रैल, 1990।

ए. लाल, 080880 डब्ल्यू, एम. सी. पी. ओ. स्टूअर्ड 2-01 अप्रैल, 1990।

वी. लाल, 066558 डब्ल्यू, एम. सी. पी. ओ. कुक ओ. 01 अप्रैल, 1990।

डी. राम, 08039.आर, एम. सी. पी. ओ. कुक ओ. 2-01 अप्रैल, 1990।

सी. एम. थॉमस, 064496एच, एम. सी. पी. ओ. कुक एस. 2-01 अप्रैल, 1990।

एस. सिंह, 066195 डब्ल्यू, एम. सी. पी. ओ. कुक एस. 2-01 मई, 1990।

डी. राम, 080278ए, एम. सी. पी. ओ. कुक एस. 2-01 जून, 1990।

जी. सिंह, 080342 वाई, एम. सी. पी. ओ. कुक (एस) 2-01 जून, 1990।

सी. डी. जॉर्ज, 065212के, एम. सी. पी. ओ. टॉप 2-01 अप्रैल, 1990।

यू. सिंह, 065223के, एम. सी. पी. ओ. टॉप 2-01 मई, 1990।

वी एस करकी (042697 आर) एम. सी. पी. ओ. म्यूज 2-1 अप्रैल 1990।

एस बी सिंह (042744 वाई) एम. सी. पी. ओ. म्यूज 2-1 मई 1990।

एस राम (082343 डब्ल्यू) एम. सी. ए. (ए. एच.) 2-1 अगस्त 1990।

एच सिंह (088278 एच) एम. सी. ए. (ए. एच.) 2-1 सितम्बर 1990।

जी एस रावत (083676 जेड) एम. सी. ए. (ए. एच.) 2-1 अक्टूबर 1990।

सी एफ पाल (067234 एफ) एम. सी. ए. पी. एच. 2-1 जुलाई 1990।

पी वत्त (096262 बी) एम. सी. ई. एल. ए. 2-1 अप्रैल 1990।

बी गोप (093153 एन) एम. सी. ई. एल. आर. 2-1 मई 1990।

जे बी सिंह (095052 बी) एम. सी. ई. एल. ए. आर. 2-1 अप्रैल 1990।

ए पी सिंह (053947 एच) एम. सी. पी. ओ. ए एफ 2-1 मई 1990।

आर सिंह (087241 ए) एम. सी. पी. ओ. ए. एफ 2-1 अप्रैल 1990।

एस राजू (090539 वाई) एम. सी. पी. ओ. ए. ओ. एफ 2-1 अप्रैल 1990।

आर के त्रिपाठी (094177 आर) एम. सी. पी. ओ. ए. ओ. एफ 2-1 मई 1990।

के सी कुर्कीति (052439 एफ) एम. सी. ए. ए. 2-1 अप्रैल 1990।

आर के निकम (052441 के) एम. सी. ए. ए. 2-1 मई 1990।

जी सोमन (097775 टी) एम. सी. ए. ए. 2-1 जून 1990।

पी. यू. जामल (190141 आर) एम. सी. ए. ए. 2-1 जुलाई 1990।

ए० कुमार (096836 एन) एम० सी० ए० ए०
डब्ल्यू० 2—1 अप्रैल 1990 ।

आर० प्रसाद (200067 जंड) एम० सी० ई० ए० ए०
2—1 मई 1990 ।

के० पी० गोपालकृष्णन (200315 के) एम० सी०
ई० ए० ए० 2—1 मई 1990 ।

आई० टी० शर्मा (094165 एन) एम० सी० मैक०
(ए० आर०) 2—1 अप्रैल 1990 ।

जे० सिंह (056100 ए) एम० सी० ई० एल० पी०
2—1 मई 1990 ।

ए० एन० रावत (057039 के) एम० सी० ई०
एल० पी० 2—1 मई 1990 ।

एच० एन० सिंह (057404 आर) एम० सी० ई०
एल० पी० 2—1 अप्रैल 1990 ।

बी० सिंघ (057387 जंड) एम० सी० ई० एल०
आर० 2—1 अप्रैल 1990 ।

के० एस० पिल्लै (057444 एफ) एम० सी० ई० एल०
आर० 2—1 अप्रैल 1990 ।

एम० नारायणन (057573 जंड) एम० सी० ई०
एल० आर० 2—1 अप्रैल 1990 ।

एम० आर० सिंह (095331 एन) एम० सी० ई०
एल० आर० 2—1 अक्टूबर 1990 ।

जैडू सिंह (056192 के) एम० सी० एम० ई० 2—1
मई 1990 ।

के० एल० बनिक् (067095 आर) एम० सी० एम० ई०
2—1 अप्रैल 1990 ।

बी० एन० राठीर (068502 एन) एम० सी० एम० ई०
2—1 जुलाई 1990 ।

ए० कृष्णन (081440 टी) एम० सी० एम० ई० 2—1
अप्रैल 1990 ।

पी० चांद (086513 वाई) एम० सी० एम० ई० 2—1
अप्रैल 1990 ।

डी० एस० धाका (089473 जंड) एम० सी० एम० ई०
2—20 अप्रैल 1990 ।

एस० सिंह (052461 एफ) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 मई 1990 ।

ए० बी० बी० राव (180213 ए) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 जुलाई 1990 ।

एस० के० मदन (190019 एन) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 जून 1990 ।

के० प्रसाद (190029 के) एम० सी० ई० आर० ए०
2—1 जुलाई 1990 ।

बी० के० धनंजी (190037 बी) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 जून 1990 ।

ए० सिंह (190050 एच) एम० सी० ई० आर० ए०
2—1 जून 1990 ।

ओ० प्रकाश (190056 वाई) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 जून 1990 ।

टी० एस० एम० नाथर (190059 बी) एम० सी०
ई० आर० ए० 2—1 जून 1990 ।

आर० सी० कौशाल (190118 एन) एम० सी०
ई० आर० ए० 2—1 जुलाई 1990 ।

ए० सिंह (190143 डब्ल्यू) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 जुलाई 1990 ।

ए० एन० शंका (200167 ए) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 जुलाई 1990 ।

डी० एन० भण्डारी (056381 आर) एम० सी० मैक०
2—1 जून 1990 ।

आर० एल० मिश्रा (056815 ए) एम० सी० मैक०
2—1 जुलाई 1990 ।

एम० दाम (087604 ए) एम० सी० मैक० 2—
1 अप्रैल 1990 ।

एस० सिंह (090583 वाई) एम० सी० मैक० 2—
1 जुलाई 1990 ।

बी० सिंह (090589 के) एम० सी० मैक० 2—
1 जुलाई 1990 ।

टी० एन० राजन (052497 एन) एम० सी० ई०
ए० पी० 2—1 अप्रैल 1990 ।

एस० पुनिन (097465 एन) एम० सी० ई० ए० पी०
2—1 जून 1990 ।

आर० राय (097575 एन) एम० सी० ई० ए० पी०
2—1 जुलाई 1990 ।

आर० ए० कुमाराह (097638 एफ) एम० सी०
ई० ए० पी० 2—1 जुलाई 1990 ।

एम० सिंह (190002 जंड) एम० सी० ई० ए० पी० 2—
1 जून 1990 ।

काज हिक् (190007 के) एम० सी० ई० ए० पी०
2—1 जून 1990 ।

एस० नाग (190071 एफ) एम० सी० ई० ए० पी०
2—1 जून 1990 ।

टी० के० मुखर्जी (052340 एक) एम० सी० ई० ए० पी० (सी०) 2—1 मई 1990।

के० सिंह (190307 आर) एम० सी० ई० ए० पी० (सी०) 2—1 जुलाई 1990।

डी० सी० चौहान (052479 वाई) एम० सी० ई० ए० पी० 2—1 जून 1990।

के० करुणाकरण (052498 आर) एम० सी० ई० ए० पी० 2—1 जून 1990।

ए० सिंह (097619 एन), एम० सी० ई० ए० आर० 2—1 अप्रैल, 1990।

ए० के० वृद्धिष्ट (097828 एन), एम० सी० ई० ए० आर० 2—1 जुलाई, 1990।

जे० गुजायत (190011 डब्ल्यू), एम० सी० ई० ए० आर० 2—1 जून, 1990।

शामसुद्दीन (057027 एच), एम० सी० मैक० (आर०) 2—1 मई, 1990।

पी० एम० शेखावत (057535 एन), एम० सी० मैक० (आर० 2)—1 जून, 1990।

बी० सिंह (094989 के), एम० सी० मैक० (आर० 2)—1 जून, 1990।

एस० आर० यादव (051850 टी), एम० सी० एम० डब्ल्यू० ए० 2—1 अप्रैल, 1990।

बी० आर० चौधरी (052389 टी), एम० सी० एस० डब्ल्यू० ए० 2—1 फरवरी, 1991।

एच० सिंह (052469 जैड), एम० सी० एस० डब्ल्यू० ए० 2—1 मई, 1990।

के० सिंह (190034 वाई), एम० सी० एम० डब्ल्यू० ए० 2—1 जून, 1990।

एम० रामचन्द्रन (081548 एन), एम० सी० पी० ओ० 2 क्यू० ए० 1—1 अक्टूबर, 1990।

जे० चन्दर (082133 टी), एम० सी० पी० ओ० 2 पी० आर० 1—1 सितम्बर, 1990।

एच० लाल (083890 के), एम० सी० पी० ओ० 2 पी० आर० 1—1 नवम्बर, 1990।

एन० आर० टंगाडगी (सं० 067046 बी०) एम० सी० एट आर्मस 2—01 अप्रैल 1990

एस०के० चोपड़ा (सं० 068663 बी०) एम० सी० पी० ओ० आर० टैल 2—01 फरवरी 1990

एन० सी० बिसवास (सं० 080066 डब्ल्यू) एम० सी० पी० ओ० एम० ए० 2 एल० टी० 1—01 अप्रैल 1990

पी० जी० जी० नायर (सं० 068169 एक) एम० एस० सी० पी० ओ० 2—22 नवम्बर 1990

एम०एस० रावत (सं० 069243 वाई) एम० एस० सी० पी० ओ० 2—01 फरवरी 1991

एस० सिंह (सं० 069762 ए) एम० एस० सी० पी० ओ० 2—01 दिसम्बर 1990

एस० अब्राहम (सं० 190038 एक) एम० सी० ए० ए० 2 01 जून 1990

डी० पी० गर्मा (सं० 095245 टी) एम० सी० मैक० (ए० एल) 2—01 अप्रैल 1990

आर० एस० भादुरिया (सं० 088011 ए) एम० सी० एम० ई० 2—20 अप्रैल 1990

बी० प्रकाश (सं० 081971 जैड) एम० सी० पी० ओ० 2 जी० एल० 1—01 फरवरी 1991

पी० वी० बालाकृष्णन (सं० 084025 पी) एम० सी० पी० ओ० 2 यू० सी० 1—31 मार्च 1991

के० सिंह (सं० 084542 टी०) एम० सी० पी० ओ० 2 यू० डब्ल्यू० 01—01 मार्च 1991

आर० एस० भोरा (सं० 087253 बी) एम० सी० पी० ओ० 2 जी० एल० 1—01 अक्टूबर 1990

आर० एल० मिह (सं० 088390 एन) एम० सी० पी० ओ० 2 जी० 1—31 मार्च 1991

पी० सिंह (सं० 089727 ए) एम० सी० पी० ओ० 2 एम० पी० टी० 1—01 मार्च 1991

एम० कुमार (सं० 089885 के) एम० सी० पी० ओ० 2 यू० डब्ल्यू० 1—01 फरवरी 1991

आर० सिंह (सं० 090733 एन) एम० सी० पी० ओ० 2 सी० डी० 1—01 मार्च 1991

एस० एन० सिंह (सं० 088788 टी) एम० सी० एम० ई० 2—01 जनवरी 1991

जे० के० मिह (सं० 065040 डब्ल्यू) एम० सी० पी० ओ० क्यू० ए० 1—15 अगस्त 1991

टी० एम० सैम्युल (सं० 066611 आर) एम० सी० पी० ओ० 2 आर० पी० 1—15 अक्टूबर 1991

के० राम (सं० 066718 एच) एम० सी० पी० ओ० 2 आर० सी० 1ए—01 अप्रैल 1991

एफ० मिह (सं० 066950 के) एम० सी० पी० ओ० 2 क्यू० ए० 1—01 जून 1991

आर० एम० रावत (सं० 067650 ए) एम० सी० पी० ओ० 2 आर० पी० 1—15 जुलाई 1991

बी० कदम (सं० 082083 बी) एम० सी० पी० ओ० 2 पी० आर० 1—15 अप्रैल 1991

आर० मिह (सं० 082313 ए) एम० सी० पी० ओ० 2 जी० एल० 1—15 सितम्बर 1991

एस० सिंह (सं० 082334 जैड) एम० सी० पी० ओ० 2 आर० सी० 1—01 अगस्त 1991

पी० सी० राजपूत (सं० 082996 बी) एम० सी० पी० ओ० 2 आर० पी० 1—01 सितम्बर 1991

एम० सिंह (सं० 083076 के) एम० सी० पी० ओ० 2 क्यू० ए० 1—01 अक्टूबर 1991

एस० जे० बालन (सं० 083187 एन) एम० सी० पी० ओ० 2 यू० डब्ल्यू० 1—01 अगस्त 1991

पी० सिंह (सं० 083638 एन) एम० सी० पी० ओ० 2
आर० सी० 1--15 मई 1991

टी० सिंह (सं० 083999 एच) एम० सी० पी० ओ० 2
आर० सी० 1--01 दिसम्बर 1991

एस० एस० यादव (सं० 086600 डब्ल्यू) एम० सी०
पी० ओ० 2 पी० टी० 1--01 अप्रैल 1991

एस० एन० सिंह (सं० 087269 आर) एम० सी० पी० ओ०
2 आर० सी० 1--15 अप्रैल 1991

एम० ए० खान (सं० 087939 एन) एम० सी० पी० ओ० 2
आर० सी० 1--15 जन 1991

एम० सिंह (सं० 088440 ए) एम० सी० पी० ओ० 2
आर० पी० 1--01 मई 1991

टी० एम० अलैकजैडर (सं० 088577 एन) एम० सी० पी०
ओ० 2 आर० पी० 1--01 अगस्त 1991

एम० के० चक्रवर्ती (सं० 088749 बी०) एम० सी०
पी० ओ० 2 टी० ए० एम० 1--15 जुलाई 1991

आर० के० सिंह (सं० 089221 ए) एम० सी० पी० ओ० 2
आर० सी० 1--01 अगस्त 1991

के० सिंह (सं० 089525 टी०) एम० सी० पी० ओ० 2
आर० सी० 01--10 अगस्त 1991

पी० एम० के० नाथर (सं० 091254 बाई) एम० सी०
पी० ओ० 2 आर० सी० 1--15 सितम्बर 1991

जे० एम० खानका (सं० 066849 एफ) एम० सी० एट
आर्मस--01 मई 1991

जी० बी० भार्गविरम (सं० 067599 के) एम० सी० एट
आर्मस--01 मई 1991

सी० सिंह (सं० 088051 टी०) एम० सी० एट आर्मस--
01 जून 1991

डी० राम (सं० 068654 एच) एम० सी० पी० ओ० आर०
टैक 2--15 मई 1991

य० बालामुब्राह्मणियम (सं० 93868 एन) एम० सी० पी०
ओ० आर० टैक० 2--01 अक्टूबर 1991

एच० सिंह (सं० 082549 एन) एम० सी० पी० ओ० आर०
टैक० 2--01 मई 1991

ए० के० कुन्डू (सं० 080303 एच) एम० सी० पी० ओ०
एम० ए० 2 बी० टी० ए० 1--01 अप्रैल 1991

जे० पी० शर्मा (सं० 080313 एफ) एम० सी० पी० ओ०
एम० ए० 2 एल० 2--01 अप्रैल 1991

बी० एस० रत्नम (सं० 080790 आर०) एम० सी०
पी० ओ० एम० ए० 2 पी० एच० 3--01 मई 1991

एस० सिंह (058053 आर०) एम० एस० सी० पी० ओ०
2--20 अप्रैल 1991 ।

के० एस० राव (058201 ए) एम० एस० सी० पी०
ओ० 2--15 जुलाई 1991 ।

सी० खरकवाल (058310 जैड) एम० एस० सी० पी०
ओ० 2--20 अप्रैल 1991 ।

आर० एस० कुडिग (058381 के०) एम० एस० सी०
पी० ओ० 1--01 अगस्त 1991 ।

आर० के० शर्मा (068367 एफ) एम० एस० सी०
पी० ओ० 2--1 अप्रैल 1991 ।

एस० सिंह (069229 आर) एम० एस० सी० पी०
ओ० 2--01 अप्रैल 1991 ।

जे० प्रसाद (069882 जैड) एम० एस० सी० पी०
ओ० 2--01 जुलाई 1991 ।

एम० सी० अवस्थी (082347 बी०) एम० एस० सी०
पी० ओ० 2--01 अप्रैल 1991 ।

टी० एस० लौरा (058089 बाई) एम० सी० पी०
ओ० राइटर 2--01 सितम्बर 1991 ।

जे० सी० कोटारी (058347 एच०) एम० सी० पी०
ओ० राइटर 2--01 अगस्त 1991 ।

एच० सिंह (058624 एन) एम० सी० पी० ओ०
राइटर 2--01 सितम्बर 1991 ।

टी० चांड (059090 बाई) एम० सी० पी० ओ०
राइटर 2--01 सितम्बर 1991 ।

एल० एल० शेखावत (081457 एफ) एम० सी० पी०
ओ० राइटर-2--01 अप्रैल 1991 ।

एम० आरिफ (081883 जैड०) एम० सी० पी० ओ०
राइटर-2--01 अप्रैल 1991 ।

एच० भाऊ (082484 आर०) एम० सी० पी० ओ०
राइटर-2--01 अप्रैल 1991 ।

के० लाल (058607 जैड) एम० सी० पी० ओ०
स्टूअर्ड 2--10 अप्रैल 1991 ।

आई० एम० चौहान (059231 टी०) एम० सी० पी०
ओ० स्टूअर्ड 2--15 नवम्बर 1991 ।

के० के० चक्रवर्ती (084405 एफ०) एम० सी० पी०
ओ० स्टूअर्ड 2--01 नवम्बर 1991 ।

एम० पी० चक्रवर्ती (084537 एफ) एम० सी० पी०
ओ० स्टूअर्ड 2--10 अप्रैल, 1991 ।

के० सिंह (084575 टी) एम० सी० पी० ओ० स्टूअर्ड
2--20 अप्रैल 1991 ।

एस० बी० एस० वाजवा (084628 एन) एम० सी०
पी० ओ० स्टूअर्ड 2--20 अप्रैल, 1991 ।

जे० सिंह (058035 जैड) एम० सी० पी० ओ० कुक
(ओ०) 2--20 अप्रैल 1991 ।

पी० एल० उमाचन्न (066579 टी) एम० सी० पी० ओ०
कुक (ओ०) 2--1 अप्रैल 1991 ।

एम० के० आर० पिल्लै (069917 बी०) एम० सी०
पी० ओ० कुक (ओ०) 2--10 अप्रैल, 1991 ।

ओ० प्रकाश (080602 एन०) एम० सी० पी० ओ०
कुक (ओ०) 2—20 अप्रैल 1991 ।

एच० त्रिसोयी (065788 डब्ल्यू), एम० सी० पी० ओ०
कुक (एस०) 2—01 अप्रैल 1991 ।

एस० राम (080022 डब्ल्यू०) एम० सी० पी० ओ०
कुक (एस०) 2—01 अप्रैल 1991 ।

डी० सिंह (080667 के) एम० सी० पी० ओ० कुक
(एस०) 2—10 अप्रैल 1991 ।

बी० राम (080146 ए) एन० सी० पी० ओ० कुक
(एस०) 2—20 अप्रैल 1991 ।

आर० दास (066470 डब्ल्यू) एम० सी० पी० ओ०
टाप 2—01 अप्रैल 1991 ।

एम० लाल (066513 टी), एम० सी० पी० ओ० टाप
2—7 दिसम्बर 1991 ।

एस० पाल (080110 डब्ल्यू०) एम० सी० पी० ओ०
टाप 2—01 मई 1991 ।

एम० लाल (080554 बी) एम० सी० पी० ओ०
टाप 2—01 मई 1991 ।

टी० धारी (082229 आर) एम० सी० ए० (ए०
एच०) 2—01 मई 1991 ।

एम० बालासुब्रह्मण्यम (088688 आर) एम० सी०
ए० (ए० एच०) 2—1 अक्टूबर 1991 ।

बी० पी० सिंह (096659 एफ) एम० सी० ई० एल०
ए० 2—01 अप्रैल, 1991 ।

आर० निवास (097108 ए) एम० सी० ई० एल०
ए० 2—01 अप्रैल 1991 ।

बी० सुन्दर (094886 ए) एम० सी० ई० एल० ए०
आर० 2—01 जुलाई 1991 ।

जे० एल० यादव (095088 के) एम० सी० ई० एल०
ए० आर० 2—1 अप्रैल 1991 ।

जी० सिंह (053929 टी), एम० सी० पी० ओ० ए०
एफ० 2—1 मई, 1991 ।

एन० राधाचरण (054681 ए) एम० सी० पी० ओ०
ए० एफ० 2—1 अप्रैल 1991 ।

जे० सिंह (054929 आर०) एम० सी० पी० ओ०
ए० एफ० 2—01 मई 1991 ।

एस० के० दुलाजी (094268 वाई) एम० सी० पी० ओ०
ए० एफ० 2—1 अप्रैल, 1991 ।

सी० लाल (094026 वाई०), एम० सी० पी० ओ०
ए० एफ० 2—10 जून, 1991 ।

6—254 GI/93

जी० एस० शेखावत (094041 एफ), एम० सी० पी०
ओ० ए० एफ० 2—1 अप्रैल 1991 ।

एम० एम० राजागोपाल (190098 टी) एम० सी०
ए० ए० 2—1 मई 1991 ।

एस० के० शर्मा (200736 डब्ल्यू) एम० सी० ए० ए०
2—1 जुलाई 1991 ।

ए० वी० चिलैया (200903 जैड) एम० सी० ए० ए०
2—1 जुलाई, 1991 ।

पी० कुमार (201050 एच) एम० सी० ए० ए० 2—
1 जुलाई 1991 ।

जी० वी० तनवाडे (054212 के) एम० सी० ए०
ए० 2—1 अप्रैल 1991 ।

डी० सिंह (092964 एच) एम० सी० ए० ए० 2—
1 जून 1991 ।

बी० एस० शेखन (095238 ए) एम० सी० ए० ए०
2—1 जून, 1991 ।

बी० सिंह (095992 आर) एम० सी० ए० ए०
(डब्ल्यू०) 2—1 अप्रैल, 1991 ।

आर० पी० सिंह (095182 जैड) एम० सी० ई० ए०
ए० 2—1 सितम्बर, 1991 ।

एम० स्टीफन (097940 टी), एम० सी० ई० ए० ए० 2—
1 मई 1991 ।

टी० एस० राव (200606 जैड) एम० सी० ई० ए०
ए० 2—1 मई 1991 ।

जे० आर० मूर्ती (200984 एच), एम० सी० ई०
ए० ए० 2—1 जून 1991 ।

पी० ए० के० राव (201586 ए), एम० सी० ई० ए०
ए० 2—1 जून, 1991 ।

एस० कुमार (096005 डब्ल्यू), एम० सी० मैक०
(ए० एल०) 2—1 अप्रैल 1991 ।

एस० एस० यादव (093498 वाई०) मा० ची० मैक०
(ए० आर०) 2—01 अप्रैल 1991 ।

एस० बालासुब्रह्मण्यम (056387 बी) एम० सी०
ई० एल० पी० 2—10 अप्रैल, 1991 ।

जे० सिंह (057222 ए) एम० सी० ई० एल० पी० 2—
01 अप्रैल, 1991 ।

डी० एन० बधानी (057405 टी०) एम० सी० ई०
एल० पी० 2—01 मई, 1991 ।

एस० सिंह (057528 वाई), एम० सी० ई० एल० पी०
2—10 मई, 1991 ।

पी० सी० सिंह (096126 डब्ल्यू) एम० सी० ई० एल० आर० 2—1 अप्रैल 1991।

ए० पी० सिंह (096198 एच) एम० सी० ई० ए० ल० आर० 2—10 मई 1991।

बी० बी० ठूबे (096282 वाई) एम० सी० ई० एल० आर० 2—1 मई 1991।

आर० के० राम (096358 वाई) एम० सी० ई० एल० आर० 2—10 मई 1991।

आर० निवास (097036 एन) एम० सी० ई० एल० आर० 2—10 मई 1991।

के० बी० राव (087272 वाई) एम० सी० एम० ई० 2—1 मई 1991।

एच० सिंह (089641 एफ) एम० सी० एम० ई० 2—10 मई 1991।

एस० एन० सिंह (090528 वाई) एम० सी० एम० ई० 2—20 मई 1991।

एम० बी० प्रक.रुन (180206 के) एम० सी० ई० आर० ए० 2—1 जून 1991।

एल० एस० केवरा (180209 टी) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

टी० जोन (190047 ए) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अप्रैल 1991।

आर० एस० निमेल (190067 वाई) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 मई 1991।

टी० पी० साइरिल (190094 एच) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अप्रैल 1991।

आर० आई० कपुर (190101 जैड) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

बी० सिंह (190104 एफ) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अगस्त 1991।

ए० एम० जाधव (190148 एफ) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

जे० एस० परिहार (190152 आर) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

पी० सिंह (190161 के) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

जे० एस० मणि (190165 डब्ल्यू) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

एम० बी० जोसफ (190171 एच) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

डी० राज (190187 डब्ल्यू) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

पी० सिंह (190254 वाई) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अगस्त 1991।

साह बाग (190281 एच) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अगस्त 1991।

के० के० ए० रेड्डी (200220 वाई) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

बी० गोपाल (200284 टी) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 मई, 1991।

के० सिंह (200359 एन) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 जुलाई 1991।

बी० आर० शर्मा (200646 आर) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अगस्त 1991।

एस० माहापात्रा (200914 जैड) एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अगस्त 1991।

एम० सिंह (200938 बी०) एम० सी० ई० आर० ए० 02—1 अगस्त, 1991।

बी० एन० प्रसाद (201022 डब्ल्यू), एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अगस्त, 1991।

एच० पी० शुक्ला (201391 एच), एम० सी० ई० आर० ए० 2—01 अगस्त, 1991।

बी० एस० पनवर (056103 एच), एम० सी० मेक० 2—01 जुलाई, 1991।

बी० राम (056275 जैड) एम० सी० मेक० 2—01 जुलाई, 1991।

आर० चांद (056319 जैड) एम० सी० मेक० 2—01 जुलाई, 1991।

सी० सिंह (056876 एन) एम० सी० मेक० 2—01 अप्रैल, 1991।

एन० के० पंत (056976 टी), एम० सी० मेक० 2—01 अप्रैल, 1991।

ओ० पी० ओहलन (088866 आर), एम० सी० मेक० 2—01 मई, 1991।

एस० चांद (069737 डब्ल्यू), एम० सी० मेक० 2—01 जुलाई, 1991।

डी० राम (088981 एफ) एम० सी० मेक० 2—01 मई, 1991।

बी० सिंह (052490 वाई), एम० सी० ई० ए० पी० 2—1 अप्रैल, 1991।

एस० सिंह (190087 टी), एम० सी० ई० ए० पी० 2—15 अप्रैल, 1991।

एम चांद (190233 जैड), एम० सी० ई० ए० पी० 2—15 मई 1991।

बी० पी० सिंह (190242 डब्ल्यू), एम० सी० ए० ए० पी० 2—15 मई 1991।

बी० के० सिंह (190338 एन) एम० सी० ई० ए० पी० 2—15 मई, 1991।

एच० मितर (097930 डब्ल्यू) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—01 मई 1991।

पी० एस० सोमल (190201 ए) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—1 मई 1991।

एन० ए० रहीम (190202 बी) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—1 मई, 1991।

पी० जे० ताम्बी (190208 टी) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—1 मई 1991।

के० के० शर्मा (190209 डब्ल्यू) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—15 अप्रैल, 1991।

बी० पी० रामदास (190221 वाई) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—1 मई 1991।

आर० सिंह (190223 ए), एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—15 अप्रैल, 1991।

पी० के० पटनायक (190226 एच) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—01 मई, 1991।

आर० कुमार (200064 टी) एम० सी० ई० ए० पी० सी० 2—15 अप्रैल 1991।

पी० के० शर्मा (085958 के) एम० सी० डब्ल्यू० एम० 2—15 मई, 1991।

रियाउद्दीन (052495 एच) एम० सी० ई० ए० आर० 2—01 अप्रैल 1991।

के० के० सिंह (097535 वाई) एम० सी० ई० ए० आर० 2—01 अप्रैल, 1991।

एस० एन० शर्मा (097872 एन०) एम० सी० ई० ए० आर० 2—01 अप्रैल, 1991।

डी० एस० बिष्ट (190070 बी) एम० सी० ई० ए० आर० 2—20 अप्रैल 1991।

एस० एस० गोसाइ (190080 ए) एम० सी० ई० ए० आर० 2—15 अप्रैल, 1991।

एम० के० पालीवाल (190344 ए) एम० सी० ई० ए० आर० 2—10 मई 1991।

सी० राम (200040 एन), एम० सी० ई० ए० आर० 2—15 अप्रैल, 1991।

एच० पी० चौहान (200044 वाई) एम० सी० ई० ए० आर० 2—15 अप्रैल 1991।

एस० शाह (200065 डब्ल्यू), एम० सी० ई० ए० आर० 2—15 अप्रैल, 1991।

पी० ससीधरन (200071 एच), एम० सी० ई० ए० आर० 2—1 मई 1991।

आई० द्याल (200077 वाई) एम० सी० ई० ए० आर० 2—1 मई, 1991।

एम० के० झा (201193 एच) एम० सी० ई० ए० आर० 2—15 अप्रैल, 1991।

डी० एस० संगवान (सं० 057291 एच) एम० सी० मेंक० आर० 2—1 मई, 1991।

के० सिंह (057426 आर), एम० सी० मेंक० आर० 2—1 अप्रैल, 1991।

एम० के० घोष (सं० 190023 वाई) एम० सी० एस० डब्ल्यू ए० 2—1 अप्रैल, 1991।

एम० एस० सन्तोष (सं० 190133 वाई) एम० सी० एस० डब्ल्यू ए० 2—1 मई, 1991।

आर० के० आनन्द (सं० 190170 एफ०) एम० सी० एस० डब्ल्यू ए० 2—1 जून, 1991।

आर० कुमार (190178 जैड) एम० सी० एस० डब्ल्यू ए० 2—1 जून, 1991।

जे० एन० दिनकर (सं० 200317 टी) एम० सी० एस० डब्ल्यू ए० 2—1 जुलाई, 1991।

आर० एल० यादव (081634 एच), एम० सी० पी० ओ० 2 न्यू ए० 1—1 दिसम्बर, 1991।

सी० राम (082793 टी), एम० सी० पी० ओ० 2 आर० सी० 1—1 दिसम्बर, 1991।

एस० आर० एस० चौहान (082974 बी), एम० सी० पी० ओ० 2 न्यू ए० 1—1 दिसम्बर, 1991।

आर० सी० शर्मा (082992 डब्ल्यू), एम० सी० पी० ओ० 2 यू० सी० 1—1 नवम्बर, 1991।

जे० सिंह (083530 टी), एम० सी० पी० ओ० 2 आर० पी० 1—1 जनवरी 1991।

पी० सिंह (083564 डब्ल्यू) एम० सी० पी० ओ० 2 आर० पी० 1—1 दिसम्बर, 1991।

बी० कृष्ण (083775 जैड) एम० सी० पी० ओ० 2 आर० सी० 1—15 नवम्बर, 1991।

एस० भान (084283 बी) एम० सी० पी० ओ० 2 यू० डब्ल्यू 1—15 दिसम्बर, 1991।

डी० पाल (084905 टी), एम० सी० पी० ओ० 2 जी० एल० 1—1 फरवरी, 1991।

एच० सिंह (सं० 085220 एच), एम० सी० पी० ओ० 2
क्यू० ए० 1—15 दिसम्बर, 1991।

जे० सिंह (सं० 089380 एन), एम० सी० पी० ओ० 2
क्यू० ए० 1—1 दिसम्बर, 1991।

ए० नाथ (सं० 090608 बी), एम० सी० पी० ओ० 2
क्यू० ए० 1—15 जनवरी, 1992।

जी० सिंह (सं० 091183 के), एम० सी० पी० ओ० 2
आर० सी० 1—1 जनवरी, 1992।

एन० सिंह (सं० 084622 जैड), एम० सी० पी० ओ०
आर० टैक० 2—1 जनवरी, 1992।

पी० एन० सिंह (सं० 084993 टी), एम० सी० पी०
ओ० आर० टैक० 2—1 जनवरी, 1992।

एल० राम (सं० 069006 एच), एम० सी० पी० ओ०
स्ट्रुवर्ड 2—10 अप्रैल, 1991।

एच० सिंह (सं० 081056 डब्ल्यू), एम० सी० पी० ओ०
स्ट्रुवर्ड 2—1 अप्रैल, 1991।

एच० राज (सं० 057451 वाई), एम० सी० मैक० आर०
2—1 अप्रैल, 1991।

के० आर० पिल्लै (सं० 089112 बी०), एम० सी० ए०
(ए० एच०) 2—1 नवम्बर, 1991।

के० सिवासनकरण (सं० 090788 एन०), एम० सी० ए०
(ए० एच०) 2—1 दिसम्बर, 1991।

सी० वी० जोसफ (सं० 190144 वाई), एम० सी० ए०
ए०—1 मई, 1991।

पी० लाल (सं० 057164 डब्ल्यू), एम० सी० एम० ई०
2—1 नवम्बर, 1991।

एम० एम० मैथ्यू (सं० 190263 टी) एम० सी० ई० आर०
ए० 2—1 सितम्बर, 1991।

पी० वी० राणा (सं० 190229 आर), एम० सी० ई०
ए० पी० 2—15 मई, 1991।

के० मनोहरन (सं० 052491 जैड), एम० सी० ई० ए०
आर० 2—1 अप्रैल, 1991।

ओ० पी० श्रीवास्तव (सं० 200473 वाई) एम० सी० ई०
ए० आर० 2—10 मई, 1991।

के० पी० मधु (सं० 190105 एच), एम० सी० एस०
डब्ल्यू० ए० 2—1 मई, 1991।

एस० सिंह (सं० 049600 बी), एम० सी० पी० ओ० 2
क्यू० ए० 1—1 जनवरी, 1992।

आर० एस० यादव (सं० 082211 डब्ल्यू), एम० सी० पी०
ओ० 2 आर० सी० 1—1 मई, 1991।

एच० सिंह (सं० 083125 वाई), एम० सी० पी० ओ० 2
आर० सी० 1—1 दिसम्बर, 1991।

के० पी० बदोला (सं० 083363 एन), एम० सी० पी०
ओ० 2 आर० पी० 1—15 जनवरी, 1992।

बी० एस० पाण्डे (सं० 083397 आर), एम० सी० पी०
ओ० 2 आर० पी० 1—15 जनवरी, 1992।

के० लाल (सं० 083469 बी०), एम० सी० पी०
ओ० 2 क्यू० ए० 1—15 जनवरी, 1992।

डी० नन्द (सं० 083861 डब्ल्यू), एम० सी० पी०
ओ० 2 क्यू० ए० 1—15 फरवरी, 1992।

एम० प्रमाद (सं० 083874 जैड), एम० सी० पी० ओ०
2 क्यू० ए० 1—1 मार्च, 1992।

आर० एस० राजपूत (सं० 084021 एच०), एम० सी०
पी० ओ० 2 आर० सी० 1—15 फरवरी, 1992।

जी० लाल (सं० 084366 टी), एम० सी० पी० ओ० 2
जी० आई०—15 जनवरी, 1992।

ए० जाधव (सं० 084678 ए), एम० सी० पी० ओ० 2
यू० डब्ल्यू० 1—1 फरवरी, 1992।

एस० नन्द (सं० 084740 टी), एम० सी० पी० ओ० 2
आर० पी० 1—1 जनवरी, 1992।

ए० सिंह (सं० 085224 टी), एम० सी० पी० ओ० 2
(क्यू० ए०) 1—15 फरवरी, 1992।

सतपाल (सं० 085586 आर०) एम० सी० पी० ओ० 2
(क्यू० ए०) 1—1 फरवरी, 1992।

एस० आर० हेल (सं० 086702 ए), एम० सी० पी० ओ०
2 आर० सी० 1—15 दिसम्बर, 1991।

एस० भान (सं० 090420 ए०), एम० सी० पी० ओ० 2
क्यू० ए० 1—1 जुलाई, 1991।

के० सिंह (सं० 068699 के०) एम० सी० पी० ओ० आर०
टेक 2—1 जनवरी, 1992।

ए० एल० यादव (सं० 085042 बी०), एम० सी० पी०
ओ० आर० स्पेशल 2—2 फरवरी, 1992।

आई० जीत (सं० 069864 एच), एम० एस० सी०
पी० ओ० 2—1 फरवरी, 1992।

ए० सी० देबनाथ (सं० 069962 एफ०), एम० सी०
पी० ओ० राईटर 2—1 फरवरी, 1992।

जे० एस० पिक्सटो (सं० 042816 के), एम० सी० पी०
ओ० न्यूज 2—1 अप्रैल, 1992।

एस० चांद (सं० 093231 आर), एम० सी० ए० पी०
एच० 2—1 फरवरी, 1992।

कालिका (सं० 094342 आर०), एम० सी० पी० ओ० ए०
एफ० 2—1 फरवरी, 1992।

आर० एस० श्रीवास (सं० 094109 के), एम० सी० ई०
एल० पी० 2—1 मई, 1991।

के० डी० कुमार (सं० 190272 एन), एम० सी० एस०
डब्ल्यू० ए० 2—1 जुलाई, 1991।

जी० सिंह (सं० 084638 के), एम० सी० पी० ओ० 2
क्यू० ए० 1—1 मार्च, 1992।

एच० दास (सं० 082799 एफ), एम० सी० एट आर्मस
2—5 जनवरी, 1992।

एच० सिंह (सं० 083525 एफ), एम० सी० एट आर्मस 2—
1 जून, 1991।

टी० आर० वत्स (सं० 089709 के), एम० सी० एट आर्मस
2—10 नवम्बर, 1991।

टी० एम० उत्तप (सं० 065691 जैड), एम० सी० पी०
ओ० कुक (एस०) 2—1 अप्रैल, 1989।

एस० आर० तिवारी (सं० 066365 एफ), एम० सी० पी०
ओ० कुक (एस०) 2—03 अक्टूबर, 1991।

जे० मिह (सं० 094059 वाई), एम० सी० पी० ओ०, ए०
एफ० 2—01 मार्च, 1992।

आर० सिंह (सं० 095075 एफ), एम० सी० पी० ओ०,
ए० ओ० एफ 2—01 मार्च, 1992।

वी० के० शर्मा (सं० 190123 जैड), एम० सी० ई० आर०
ए० 2—31 दिसम्बर, 1991।

पी० जी० के० पिल्लै (सं० 067476 एफ), एम० सी० एट
आर्मस 2—1 जनवरी, 1992।

एस० सी० आनन्द (सं० 049706 डब्ल्यू), एम० सी० पी०
ओ० 2 आर० सी० 1—01 अप्रैल, 1992।

एस० चंद (सं० 083984 जैड), एम० सी० पी० ओ० 2
आर० पी० 1—01 जून, 1992।

एस० चांद (सं० 088232 बी), एम० सी० पी० ओ०
2 यू० डब्ल्यू 1—01 मार्च, 1992।

पी० गोपीनाथन, (सं० 083059 वाई), एम० सी० एट
आर्मस 2—01 अप्रैल, 1992।

एच० एस० भट्टी (सं० 055109 जैड), एम० सी०
पी० ओ० आर० टैक 2—15 अप्रैल, 1992।

आर० सरूप (सं० 090434 एच), एम० सी० पी० ओ०
आर० टैक 2—01 जून, 1992।

एल० सिंह (सं० 091654 एफ), एम० सी० पी० ओ०
आर० टैक 2—01 जुलाई, 1992।

आर० सिंह (सं० 085012 के), एम० सी० पी० ओ० टैल
2—01 नवम्बर, 1992।

के० एन० जोशी (सं० 089360 टी), एम० सी० पी० ओ०
टैल 2—10 अप्रैल 1992।

पी० के० सजीवन, (सं० 090283 जैड), एम० सी० पी० ओ०
टैल 2—01 अप्रैल, 1992।

एस० एन० यादव (सं० 069283 एन), एम० सी० पी०
ओ०, एम० ए० 2 एम० डी० 2—01 जून, 1992।

ए० के० बिसवास (सं० 058344 ए), एम० एम० सी०
डी० ओ० 2—01 मई, 1992।

के० सिंह (सं० 058368 एफ), एम० एस० सी० डी० ओ०
2—01 अक्टूबर, 1992।

एस० सिंह (सं० 058867 आर), एम० एस० सी० पी०
ओ० 2—01 नवम्बर, 1992।

डी० ठाकुर (सं० 058045 वाई), एम० एस० सी०
पी० ओ० राइटर 2—01 नवम्बर, 1992।

वी० एस० चन्देल (सं० 058462 डब्ल्यू), एम० सी०
पी० ओ० राइटर 2—01 मई, 1992।

पी० जयरामन (सं० 080400 बी), एम० सी० पी०
ओ० कुक (एस०) 2—15 अप्रैल, 1992।

पी० सिंह (सं० 080547 एन), एम० सी० पी० ओ०
कुक (एस०) 2—01 अप्रैल, 1992।

जे० बेनसन (सं० 080570 आर), एम० सी० पी०
ओ० टोप 2—01 मई, 1992।

के० कुमार (सं० 089676 के), एम० सी० ए० (ए० एच०)
2—01 अक्टूबर, 1992।

डी० राम (सं० 089698 के), एम० सी० ए० (ए० एच०)
2—01 जून, 1992।

सी० सिंह (सं० 095793 एन), एम० सी० ए० (ए०
एच०) 2—01 अक्टूबर, 1992।

एस० सिंह (सं० 097251 ए), एम० सी० ए० (ए० एच०)
2—01 नवम्बर, 1992।

सी० शेखर (सं० 097013 के), एम० सी०, ई० एल० ए०
2—01 अप्रैल, 1992।

आर० एस० तोमर (सं० 093339 के), एम० सी० ई०
एल० ए० आर० 2—01 मई, 1992।

सी० आर० मौतू (सं० 053798 डब्ल्यू), एम० सी०
पी० ओ० ए० एफ० 2—01 जुलाई, 1992।

एस० सिंह (सं० 093210 टी), एम० सी० पी० ओ०
ए० एफ० 2—01, अगस्त 1992।

आर० मिश्रा (सं०-095258 वाई), एम० सी० पी० ओ०
ए० एफ० 2-01 सितम्बर, 1992।

एच० एस० गुलेरिया (सं०-096056 के), एम० सी०
पी० ओ० ए० एफ० 2-01 अक्टूबर, 1992।

जे० सिंह (सं०-091184 एन०), एम० सी० पी० ओ०,
ए० ओ० एफ० 2-01 जून, 1992।

के० दीनारकर (सं०-091744 के), एम० सी० पी० ओ०,
ए० ओ० एफ० 2-01 अप्रैल, 1992।

टी० डी० जोशी (सं०-093923 एन), एम० सी०
पी० ओ०, ए० ओ० एफ० 2-01 मई, 1992।

आर० सिंह (सं०-190040 के), एम० सी० ए० ए०
2-01 अप्रैल, 1992।

आर० जे० गर्मा (सं०-190269 एफ), एम० सी०
ए० ए० 2-01 सितम्बर, 1992।

आर० पाल (सं०-190290 बी), एम० सी० ए०
ए० 2-01 सितम्बर, 1992।

पी० कोशी (सं०-190313 एफ), एम० सी० ए०
ए० 2-01 सितम्बर, 1992।

योगेश्वर (सं०-200087 डब्ल्यू), एम० सी० ए०
ए० 2-01 जून, 1992।

आर० सिंह (सं०-201606 वाई), एम० सी० ए०
ए० 2-01 अक्टूबर, 1992।

एम० जे० ए० मोसहा (सं०-201944 आर), एम० सी०
ए० ए० 2-01 अक्टूबर, 1992।

बी० के० साहु (सं०-202059 ए), एम० सी० ए०
ए० 2-01 अक्टूबर, 1992।

एस० पी० ठाकुर (सं०-093655 बी), एम० सी० ए०
ए० 2-01 जुलाई, 1992।

एम० राम (सं०-095864 जैड), एम० सी० ए०
एम० डब्ल्यू 2-02 जुलाई, 1992।

एस० अन्नताकोडी (सं०-190363 डब्ल्यू), एम० सी० ई०
ए० ए० 2-01 जुलाई, 1992।

आर० वी० विजयन (सं०-190372 आर);
एम० सी० ई० ए० 2-01 जुलाई, 1992।

डी० पी० राव (सं०-201467 एफ), एम० सी० ई०
ए० ए० 2-01 जुलाई, 1992।

आर० सिंह, (सं०-202108 एन), एम० सी० ई० ए०
ए० 2-01 जुलाई, 1992।

जी० एस० पटावट, (सं०-093770 आर०), एम० सी०
मैक (ए० एल०) 2-01 जून, 1992।

वी० वी० सिंह (सं०-093809 बी०), एम० सी० मैक
(ए० एल०) 2-01 अप्रैल, 1992।

एन० किशोर (सं०-096721 वाई), एस० सी० मैक
(ए० एल०) 2-01 जून, 1992।

आर० कुमार (सं०-096889 बी), एम० सी० मैक
(ए० एल०) 01 जून, 1992।

एम० सिंह (सं०-201345 बी०), एम० सी० ई०
ए० ए० आर० 2-01 अप्रैल, 1992।

पी० सी० कोंडल (सं०-056386 ए), एम० सी० ई०
एल० पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

एस० सिंह (सं०-056551 ए), एम० सी० ई० एल०
पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

एम० एस० रावत (सं०-056856 डब्ल्यू), एम० सी०
ई० एल० पी० 2-01 अप्रैल, 1992।

बी० पी० सिंह (सं०-093113 वाई), एम० सी० ई०
एल० पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

आर० ए० यादव (सं०-095254 एन), एम०
सी० ई० एल० पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

बी० सिंह (सं०-096158 टी), एम० सी० ई० एल०
पी० 2-07 अप्रैल, 1992।

आर० एस० यादव (सं०-097347 डब्ल्यू) एम० सी०
ई० एल० पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

आर० एम० एस० यादव (सं०-097348 वाई),
एम० सी० ई० एल० पी० 2-15 अप्रैल, 1992।

जे० सिंह (सं०-097401 टी), एम० सी० ई० एल०
पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

आर० तिवारी (सं०-097622 डब्ल्यू), एम० सी० ई० एल०
पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

ओ० सिंह (सं०-097687 टी०), एम० सी० ई० एल०
पी० 2-17 अप्रैल, 1992।

बी० दास (सं०-056366 एफ), एम० सी० ई० एल०
आर० 2-10 अप्रैल, 1992।

टी० चटर्जी (सं०-097052 जैड), एम० सी० ई० एल०
आर० 2-15 अप्रैल, 1992।

जे० सी० यादव (सं०-056357 के), एम० सी० एम०
ई० 2-01 अप्रैल, 1992।

आर० एस० शाक्या (सं०-068317 टी०), एम० सी०
एम० ई० 2-01 अप्रैल, 1992।

एस० के० एस० राजावत (सं०-069778 एन), एम० सी०
एम० ई० 2-01 अक्टूबर, 1992।

बी० सिंह, (सं० 089228 डब्ल्यू), एम० सी० एम०
ई० 2—20 अप्रैल, 1992 ।

आर० प्रसाद, (सं० 091756 एन), एम० सी० एम० ई०
2—20 मई, 1992 ।

ओ० प्रकाश, (सं० 091938 ए), एम० सी० एम० ई०
2—15 अक्टूबर, 1992 ।

आर० एस० सुन्दरम, (सं० 180218 एन), एम० सी० ई०
आर० ए० 2—01 नवम्बर, 1992 ।

एम० वी० कुमार, (सं० 180220 टी), एम० सी० ई०
आर० ए० 2—01 नवम्बर, 1992 ।

एस० सिंह, (सं० 180222 वाई), एम० सी० ई० आर० ए०
2—01 अक्टूबर, 1992 ।

टी० बी० पर्वतराव (सं० 190268 बी), एम० सी० ई०
आर० ए० 2—01 अक्टूबर, 1992 ।

एच० भारद्वाज (सं० 190294 एन); एम० सी० ई० आर०
ए० 2—01 नवम्बर, 1992 ।

डी० सिंह, (सं० 190315 के), एम० सी० ई० आर० ए०
2—01 नवम्बर, 1992 ।

बी० पी० शर्मा, (सं० 190317 आर), एम० सी० ई०
आर० ए० 2—01 नवम्बर, 1992 ।

एस० एम० महालय (सं० 190319 डब्ल्यू), एम०
सी० ई० ए० 2—01 नवम्बर, 1992 ।

बी० डी० शर्मा, (सं० 069559 आर), एम० सी०
मैक 2—01 जून, 1992 ।

पी० एन० वैन्गु, (सं० 052475 एन), एम० सी० एस०
डब्ल्यू० ए० 2—01 सितम्बर, 1992 ।

मास्टर चीफ पैंटी अफसर क्लास 2

टी० सिंह (सं० 094789 एफ), सी० पी० ओ० आर०
टैक —31 दिसम्बर, 1992 ।

एच० बाली (सं० 059718 जैड), सी० पी० ओ० एम०
ए० —01 जुलाई, 1989 ।

ए० एन० मलकर (सं० 058751 जैड) सी० पी० ओ०
एम० ए० —01 जुलाई, 1989 ।

एन० एन० सतपुटे (सं० 140357 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०
राइटर—01 फरवरी, 1990 ।

जे० पी० सैमुयल (सं० 140477 टी), सी० पी० ओ०
—01 फरवरी, 1990 ।

एस० माल (सं० 058550 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०,
एस० टी० डी० —30 मई, 1989 ।

आर० अप्पु (सं० 069150 के), सी० पी० ओ० कुक
(एस)—20 मई, 1989 ।

आर० एन० श्रीवास्तव (सं० 080723 एफ), सी० पी०
ओ० कुक (एस)—30 मई, 1989 ।

डी० राज (सं० 081958 डब्ल्यू), चीफ कुक (एस)—10
मई 1989 ।

के डी देवासे (सं० 081138 एफ), चीफ टाप—20 अप्रैल
1989 ।

एम पी० डी० कुट्टी (सं० 081324 बी), चीफ टाप—
15 मई 1989 ।

बी० राम (सं० 081569 के) चीफ टाप—20 मई 1989 ।

एल० सिंह (सं० 097594 एफ), सी० एच० ए० एच०
—31 दिसम्बर 1989 ।

आर० एस० राम (सं० 090571 डब्ल्यू), सी० ए० एच०
एम० ई० टी० —05 अप्रैल 1989 ।

एम० प्रसाद (सं० 097345 आर), सी० एच० ए० पी० एच०
—01 दिसम्बर 1989 ।

एम० एम० बैरटो (सं० 097772 के), चीफ ई० एल० ए०—
15 अप्रैल 1989 ।

वी० एन० राव (सं० 200405 टी), चीफ ई० एल० ए०—
01 अप्रैल 1989 ।

एम० पिल्लै (सं० 200893 ए), चीफ ई० एल० ए०—01
अप्रैल 1989 ।

के० एन० जोर्ज कुट्टी (सं० 201679 एन), चीफ ई० एल०
ए० आर०—15 अप्रैल 1989 ।

के वी जी० पिल्लै (सं० 201730 बी), चीफ ई० एल०
ए० आर०—15 अप्रैल 1989 ।

जे० एस० बुद्धवर (सं० 202594 टी), चीफ ई० एल० ए०
आर०—15 अप्रैल 1989 ।

एम० पी० सिंह (सं० 200082 एच), सी० पी० ओ० ए०
एफ० —05 अप्रैल 1989 ।

श्रीधरन एन० आर० (सं० 097679 जैड), चीफ ओ०
एफ० —05 अप्रैल 1989 ।

वी० कुमारन (सं० 190298 वाई), चीफ ए० ए०—
01 अप्रैल 1989 ।

के० वी० राजन (सं० 190320 वाई), चीफ ए० ए०—
30 अप्रैल 1989 ।

पी० वी० देवीदासन (सं० 190564 ए), चीफ ए० ए०—
05 मई 1989 ।

आर० श्रीनिवासन (सं० 190568 के), चीफ ए० ए०—
05 मई 1989 ।

पी० एस० नायर (190638 डब्ल्यू) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

जंकर इटयेरा (190640 जैड) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

एस० के० सिंह (190642 बी) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

सी० आर० मोहपात्रा (190652 ए) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

जे० रामराव गुल्लै (190657 एन) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

पी० पी० पाल (201318 डब्ल्यू) चीफ ए० ए०—10 मई 1989।

एस० राम (202097 एन) चीफ ए० ए०—10 अप्रैल 1989।

जी० जोसफ (202309 डब्ल्यू) चीफ ए० ए०—20 अप्रैल 1989।

वी० एस० रंगी (202433 ए) चीफ ए० ए०—20 अक्टूबर 1989।

एन० कुमार (203282 एफ) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

ओम प्रकाश (203369 बी) चीफ ए० ए०—30 अप्रैल 1989।

एस० कुमार (203669 के) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

के० सिंह (203869 के) चीफ ए० ए०—01 अक्टूबर 1989।

आर० एस० मनकोटा (190364 वाई) चीफ ए० ए०—10 अप्रैल 1989।

जी० जोसफ (190544 एफ) चीफ ए० ए०—01 जून 1989।

बी० सिंह (190555 एफ) चीफ ए० ए०—01 जून 1989।

वी० पी० सिंह (190560) चीफ ए० ए०—01 जून 1989।

आर० एस० यादव (202644 एफ) चीफ ए० ए०—01 जून 1989।

जे० के० कोशी (202663 जैड) चीफ ए० ए०—01 मई 1989।

वी० विनोद (202736 आर) चीफ ए० ए०—01 मई 1989।

एस० एम० चियरन (202776 एफ) चीफ ए० ए०—01 अप्रैल 1989।

टी० क्लिफ (202782 एन) चीफ ए० ए०—01 मई 1989।

के० आर० राजगोखरन नायर (202784 जैड) चीफ ए० ए०—20 अप्रैल 1989।

के० डी० जोर्ज (203218 के) चीफ ए० ए०—01 जून 1989।

एम० जे० जोसफ (203622 बी) चीफ ए० ए०—01 मई 1989।

एस० के० यादव (097132 एफ) चीफ मैक० ए० एल०—20 अप्रैल 1989।

एस० पाल (097137 टी) चीफ मैक० ए० एल०—01 मई 1989।

आर० सिंह (180270 एफ) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

ए० कुमार (180281 एफ) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

टी० नारायणन (180284 एन) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

डी० के० पंचाल (180286 टी) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

ओम प्रकाश (190500 एफ) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

जी० जी० सदाशिव (190535 के) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

जी० सवस्टेन (190548 आर) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

अचन कन्जुक (190597 एच) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

आर० बी० सुरेश कुमार (190614 आर) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

के० जी० गोपाकुमार (190625 आर) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

के० आर० रामचन्द्रा (202773 ए) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

डी० बोरा (203024 डब्ल्यू) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

पी० एम० अब्राहम (203128 एफ) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

ए० के० जोष (203142 एन) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

के० मनीकात्तन (203211 डब्ल्यू) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

एन० ए० खान (203371 एच) चीफ ई० ए० ए० आर० 01 अक्टूबर 1989।

सी० एम० श्रीकुमारन तायर (203629 डब्ल्यू) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

एच० चौरसिया (203700 एफ) चीफ ई० ए० ए० आर०—01 अक्टूबर 1989।

डी० रतीश (203719 जैड) चीफ ई० ए० ए० आर०—1 अक्टूबर 1989।

बी० पी० संजीव (203770 आर) चीफ ई० ए० ए० आई०—1 अक्टूबर 1989।

पी० राजन (203833 एच) चीफ ई० ए० ए० आर०—1 अक्टूबर 1989।

एम० अलगारसामी (097962 टी) चीफ ई० ए० ए० आर०—1 अक्टूबर 1989।

स्वामीनाथन (200504 टी०) चीफ मैक०—1 अक्टूबर: 1989।

सी० के० शाजू (200828 बी) चीफ मैक०—1 अक्टूबर 1989।

एन० गिरीप्रकाश (200908 एन) चीफ मैक० आर०—1 अक्टूबर 1989।

सी० राम (201088 डब्ल्यू) चीफ मैक० आर०—1 अक्टूबर 1989।

ओम प्रकाश (104390 ए) चीफ ई० एल० पी०—1 मई 1989।

डी० पाल (104453 डब्ल्यू) चीफ ई० एल० पी०—1 मई 1989।

एम० के० चौसे (104808 ए) चीफ ई० एल० पी०—1 मई 1989।

डी० पी० राजू (104888 एच) चीफ ई० एल० पी०—01 मई 1989।

एस० आर० बुद्धाराजू (200234 बी) चीफ ई० एल० पी०—15 मई 1989।

डी० राजेन्द्रन (200919 के) चीफ ई० एल० पी०—15 मई 1989।

सी० सैमल (202223 जैड) चीफ ई० एल० पी०—1 अप्रैल 1989।

एस० कुमार (104238 एफ) चीफ ई० एल० आर०—1 अप्रैल 1989।

टी० सिंह (104581 के) चीफ ई० एल० आर०—20 अप्रैल 1989।

ए० कुमार (200720 एच) चीफ ई० एल० आर०—25 अप्रैल 1989।

ओम प्रकाश (200743 के) चीफ ई० एल० आर०—30 अप्रैल 1989।

एन० ए० खान (190137 एफ) चीफ ई० एल० आर०—01 अक्टूबर 1985।

जी० शर्मा (190579 के) चीफ ई० आर० ए०—1 मई 1989।

वाई० एस० राना (190581 आर) चीफ ई० आर० ए०—1 मई 1989।

एम० सिंह (190654 एफ) चीफ ई० आर० ए०—1 मई 1989।

डब्ल्यू जे० यादव (202461 आर) चीफ ई० आर० ए०—10 अप्रैल 1989।

आर० के० मिह (203355 वाई) चीफ ई० आर० ए०—1 मई 1989।

के० राज (203407 आर) चीफ ई० आर० ए०—1 मई 1989।

आर० मिह (203571 एन) चीफ ई० आर० ए०—1 मई 1989।

ए० बर्चमेंस (203724 के) चीफ ई० आर० ए०—1 मई 1989।

के० डी० प्रसाद (056851 एच) चीफ मैक०—1 अप्रैल 1989।

जी० पी० एस० चौहान (096509 आर) चीफ मैक०—1 मई 1989।

एस० जोशी कुमार (180226 एफ) चीफ ई० ए० पी०—1 मई 1989।

वी० सक्सेना (180240 एन) चीफ ई० ए० पी०—1 मई 1989।

ए० एस० भट्टी (180241 आर) सी० एच० ई० ए० पी०—1 मई 1989।

एस० डी० जोशी (180243 डब्ल्यू) सी० एच० ई० ए० पी०—1 मई 1989।

बी० एफ० एस० एकसवीयर (180247 बी) सी० एच० ई० ए० पी०—1 मई 1989।

के० के० विशंबरन (180248 एफ) सी० एच० ई० ए० पी०—1 अप्रैल 1989।

डी० सर्वाविद्या (180255 वाई) सी० एच० ई० ए० पी०—1 सितम्बर 1989।

- पी० पवित्रन (180258 बी) सी० एच० ई० ए० पी०—
1 सितम्बर 1989।
- बी० जॉन (180259 एफ) सी० एच० ई० ए० पी०—
1 सितम्बर 1989।
- के० जे० सबनसियन (180263 आर) सी० एच० ई०
ए० पी०—1 नवम्बर 1989।
- आर० बी० पटेल (180264 टी) सी० एच० ए०
पी०—1 सितम्बर 1989।
- बी० आर० शर्मा (190509 ए) सी० एच० ई० ए०
पी०—1 जून 1989।
- सी० पी० सिंह (190552 जैड) सी० एच० ई० ए०
पी०—1 मई 1989।
- डी० सिंह (190596 जैड) सी० एच० ई० ए० पी०—
1 नवम्बर 1989।
- एम० जे० कोकर राव (190621 एफ) सी० एच०
ई० ए० पी०—2 अक्टूबर 1989।
- डी० के० नेगी (190626 टी) सी० एच० ई० ए० पी०—
8 अक्टूबर 1989।
- एस० चन्द्रा (203052 एच) सी० एच० ई० ए० पी०—
1 मई 1989।
- आर० सिंह (203074 एच) सी० एच० ई० ए० पी०—
20 अप्रैल 1989।
- सी० बी० एम० पनीकर (203141 के) सी० एच०
ई० ए० पी०—1 मई 1989।
- डी० पी० घोष (203534 बी) सी० एच० ई० ए० पी०—
1 जून 1989।
- आर० वासुदेव (203277 डब्ल्यू) सी० एच० ई० ए०
पी०—1 जून 1989।
- बी० सिंह (203756 एच) सी० एच० ई० ए० पी०—
3 अक्टूबर 1989।
- सी० एम० तिवारी (200847 वाई) चीफ मैक०
(पी०)—1 सितम्बर 1989।
- टी० के० मजूमदार (190532 बी) चीफ ई० ए० सी०
—1 मई 1989।
- जी० जोसफ (190534 एच) चीफ ई० ए० सी०—
1 मई 1989।
- एम० एच० अन्सारी (293373 एन) चीफ ई० ए०
सी०—1 मई 1989।
- एस० कुमार (203771 टी) चीफ ई० ए० सी०—
1 नवम्बर 1989।
- आर० बी० सिंह (084815 एच) चीफ वैपन मैक०
—15 अप्रैल 1989।
- के० ए० मिह (190586 ए) चीफ ई० ए० आर०—
1 अक्टूबर 1989।
- एल० शर्मा (190609 बी) चीफ ई० ए० आर०—
1 अक्टूबर 1989।
- पी० यू० गंकर (190612 के) चीफ ई० ए० आर०—
1 अक्टूबर 1989।
- एस० आर० कुमार (203535 एफ) चीफ ई० ए० आर०—
—1 अप्रैल 1989।
- एन० कुमार (190641 ए) चीफ एस० डब्ल्यू० ए०—
15 अप्रैल 1989।
- के० चांद (190731 एफ) चीफ एस० डब्ल्यू० ए०—
1 अक्टूबर 1989।
- एस० के० चतुर्वेदी (203366 वाई) चीफ एस० डब्ल्यू०
ए०—15 अप्रैल 1989।
- बी० मिश्रा (203686 जैड) चीफ शिपराइट —
1 अक्टूबर 1989।
- ए० सी० जोशी (190728 जैड) चीफ शिपराइट—
1 अक्टूबर 1989।
- एन० ए० खान (190137 एफ) एम० सी० ई० आर
ए० 2 (एन क्यू)—एन० क्यू०) रिमूवड।
- आर० पी० खैरवर (052323 टी) एम० सी० ई०
ए० सी० 2 (एन० क्यू०)—(एन० क्यू०) रिमूवड
- एम० पाल (059568 एच) सी० पी० ओ० कुक (ओ०)
—1 अप्रैल 1990।
- जे० जोहन (200132 वाई) सी० एच० ए० (ए० एच०)
—1 अप्रैल 1990।
- के० के० विजयन नायर (200677 के) चीफ ए०
एफ०—1 अप्रैल 1990।
- वी० कुमार (053069 एन) सी० पी० ओ० क्यू०
ए०—1 मई 1990।
- वी० सिंह (053333 एन) सी० पी० ओ० आर० सी०
—30 अप्रैल 1990।
- एम० लाल (053375 एच) सी० पी० ओ० आर० पी०
1—10 अप्रैल 1990।
- आर० प्रसाद (053481 जैड) सी० पी० ओ० आर०
पी० 1—20 अप्रैल 1990।
- एन० सिंह (053499 आर) सी० पी० ओ० क्यू० ए०
1—20 अप्रैल 1990।

- एस० सिंह (053579 वाई) सी० पी० ओ० आर० सी०
1—20 अप्रैल 1990।
- डी० एस० रोटेला (053719 आर०) सी० पी० ओ०
यू० डब्ल्यू० —1 मई 1990।
- पी० एस० नेगी (053808 टी) सी० पी० ओ०
यू० डब्ल्यू० 1—30 अप्रैल 1990।
- टी० लाल (082239 एच) सी० पी० ओ० आई०
सी० 1—1 अप्रैल 1990।
- के० पी० सिंह (083613 एफ) सी० पी० ओ० आर०
सी० 1—1 मई 1990।
- एस० उपाध्याय (084743 ए) सी० पी० ओ० क्यू०
ए० 1—1 मई 1990।
- के० एस० चीमा (084207 ए) सी० पी० ओ०
पी० टी० —1 मई 1990।
- ए० एस० नागरा (084755 ए) सी० पी० ओ० आर०
सी० 1—30 अप्रैल, 1990।
- पी० डी० वंडित (084891 के) सी० पी० ओ०
क्यू० ए० 1—20 अप्रैल 1990।
- बी० चांद (085314 वाई) सी० पी० ओ० आर० सी०
1—10 अप्रैल 1990।
- के० चांद (085577 एन) सी० पी० ओ० डब्ल्यू०
1—20 अप्रैल 1990।
- आर० राम (085587 टी) सी० पी० ओ० आर०
पी० —1 मई 1990
- बी० डी० चौधरी (085810 जैड) सी० पी० ओ०
क्यू० ए० 1—10 अप्रैल 1990
- एन० सी० मजूमदार (087211 एच) सी० पी०
ओ० यू० डब्ल्यू० 1—10 अप्रैल 1990।
- बी० सिंह (087544 आर) सी० पी० ओ० एस० पी०
टी० —1 अप्रैल 1990।
- के० सिंह (089881 ए) सी० पी० ओ० पी० टी० 1—
1 मई 1990।
- डी० आर० सिंह (092770 टी) सी० पी० ओ० आर०
सी० 1—1 मई 1990।
- एन० पी० सिंह (093771 टी०) सी० पी० ओ०
क्यू० ए० 1—10 अप्रैल 1990
- आर० सिंह (095117 ए) सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू० 1
—10 अक्टूबर 1990।
- आर० पी० यादव (083273 एच) एम० ए० ए०—20
अप्रैल 1990
- के० राजन (083687 जैड) एम० ए० ए०—20
अप्रैल 1990।
- डी० डी० शर्मा (085659 एफ) एम० ए० ए०—1
अप्रैल 1990
- डी० एस० कोशिक (090213 एफ० एम० ए० ए०—
10 अप्रैल 1990
- जे० एल० चावला (095408 एन) सी० पी० ओ०
आर० टैक—2 अप्रैल 1990।
- आर० प्रसाद (058734 एन) सी० पी० ओ० एम०
ए० टैक —30 अप्रैल 1990।
- जी० राम (059319) सी० पी० ओ० एम० ए०
ए० एन०—20 जून 1989।
- आर० पी० बी० सिंह (068777 वाई) सी० पी० ओ०
ए० एम० ए० यू० डब्ल्यू० एम०—1 अप्रैल 1990।
- जे० सिंह (068102 बी) सी० पी० ओ० एम० ए०
एल० ए० बी०—10 अप्रैल 1990।
- एस० बी० अहलावत (068315 के) सी० पी० ओ०
एम० ए० एच० ई० जी०—1 अप्रैल 1990।
- एम० सिंह (068403 एन) सी० पी० ओ० एम० ए०
एच० वाई० जी०—20 अप्रैल 1990।
- एस० कुमार (059692- आर) एस० सी० पी० ओ०—
1 जून 1990।
- के० सिंह (058058 ए) एम० सी० पी० ओ०—1 अप्रैल
1990
- ओ० सिंह (058748 डब्ल्यू) एस० सी० पी० ओ०—1
जून 1990।
- आर० सिंह (058790 आर) एस० सी० पी० ओ०—1
मई 1990।
- जी० सकारिया (059953 एच) सी० पी० ओ० राइटर
—1 अप्रैल 1990
- यू० के० सिंह (140116 वाई) एस० पी० ओ० राइटर
—1 जून 1990।
- आर० कुमार (140173 ए) सी० पी० ओ० राइटर
—1 जून 1990।
- आर० बी० सिंह (140076 एफ) सी० पी० ओ०
स्टूवर्ड—1 अप्रैल 1990।
- ए० सिंह (081018 एच) सी० पी० ओ० कुक (एस०)
—1 मई 1990।
- आर० किसान (080839 ए) सी० पी० ओ० टैम
—1 मई 1990।
- कारकपन्न (080881 वाई) सी० पी० ओ० टॉप—
1 अप्रैल 1990।
- बी० बी० सक्पाल (042760 एच) सी० पी० ओ०
म्यूज०—1 मई 1990।

डी० एम० नेगी (042896 टी) सी० पी० ओ०
म्यूच०—1 अप्रैल 1990।

एस० सिंह (055405 वाई) सी० एच० ए० (मैट०)
—1 जुलाई 1990

आर० प्रसपा राय (092833 के) सी० पी० ओ०
ए० एफ०—1 मई 1990।

आर० सिंह (095667 ए) सी० पी० ओ० ए० एफ०
—1 अप्रैल 1990।

एच० सिंह (097819 टी) सी० पी० ओ० ए० एफ०—
1 अप्रैल 1990।

ई० आई० थोमस (190324 एफ) सी० एच० ए०
ए०—1 मई 1990।

एस० कुमार (190566 एफ) सी० एच० ए० ए०—
1 जून 1990।

जी० एस० निधिरे (201052 एन) सी० एच० ए०
ए०—1 अप्रैल 1990।

एल० जोसफ (052174 बी) सी० एच० एम० ई०—
1 जून 1990।

जी० सिंह (056634 आर०) सी० एच० एम० ई०—
1 अप्रैल 1990।

जे० पी० सिंह (057024 ए), सी० एच० एम० ई०—
1 मई 1990।

एम० पी० सिंह (057029 एन०), सी० एच० एम० ई०—
1 अप्रैल, 1990।

आई० सिंह (095298 एन०), सी० एच० एम० ई०—
1 जून, 1990।

आर० आर० संकर (180323 ए०) सी० एच० ई०
आर० ए०—1 मई, 1990।

एस० सी० एम० रिजवी (190567 एच०), चीफ
ई० आर० ए०—1 अप्रैल, 1990।

पी० के० जयाराम (190659 टी०), चीफ ई० आर०
ए०—1 मई, 1990।

जी० सिंह (095733 ए०), चीफ मैक०—1 मई,
1990।

एस० एम० कोर (180227 एच०), सी० एच० ई०
ए० पी०—1 मई, 1990।

आर० एल० शर्मा (180228 के), सी० एच० ई०
ए० पी०—1 अप्रैल 1990।

आर० के० आर० चौधरी (190543 बी०), सी० एच०
ई० ए० पी०—1 जुलाई 1990।

एस० ए० गुड्डूसाहिब (190559 आर), सी० एच०
ई० ए० पी०—1 जुलाई, 1990।

बी० सिंह (202667 एच०), सी० एच० ई० ए० पी०—
1 अप्रैल, 1990।

एच० एस० गोदरा (097340 बी०), चीफ मैक० (पी०)
1 जून, 1990।

पी० एम० मथई (203317 के), सी० एच० ई०
ओ० (सी०)—1 जुलाई, 1990।

जी० सिंह (055299 एफ), सी० एच० डब्ल्यू० एम०—
1 सितम्बर, 1989।

आर० कुमार (203923 एन०), सी० एच० ई० ए०
आर०—1 अप्रैल, 1990।

के० के० जोर्ज (053240 ए०), सी० पी० ओ० यू०
सी० 1—1 सितम्बर, 1990।

बी० सिंह (053267 एन०), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
1—30 मई, 1990।

आई० डी० धीमन 053605 एफ०, सी० पी० ओ०
आर० सी० 1—20 मई, 1990।

बी० पी० सिंह (053899 जैड), सी० पी० ओ०
आर० सी० 1—1 नवम्बर, 1990।

ए० लतीफ (053928 आर), सी० पी० ओ० आर०
पी० 1—1 अगस्त, 1990।

आर० सिंह (054105 टी), सी० पी० ओ० आर०
सी० 1—1 फरवरी, 1991।

जे० सिंह (054390 आर), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
1—1 नवम्बर, 1990।

एन० एस० बाजवा (055158 के), सी० पी० ओ०
क्यू० ए० 1—10 अक्टूबर, 1990।

आर० कुमार (082617 टी), सी० पी० ओ० आर०
सी० 1—10 मई, 1990।

टी० बौरहा (083939 वाई), सी० पी० ओ० आर०
पी० 1—1 फरवरी, 1991।

एस० चांद (084835 एच), सी० पी० ओ० आर०
पी० 1—20 अक्टूबर, 1990।

एस० आर० गुप्ता (084836 के), सी० पी० ओ०
आर० सी० 1—1 जुलाई 1990।

एस० बी० पिल्लै (085269 डब्ल्यू) सी० पी० ओ०
यू० डब्ल्यू० 1—1 जुलाई, 1990।

बी० कुमार (085540 के) सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
1—10 मई 1990।

के० सिंह (085618 एन), सी० पी० ओ० पी० टी०
1—1 जनवरी, 1991।

- डी० सिंह (085779 बी), सी० पी० ओ० आर० पी०
1—25 मई, 1990 ।
- एस० पी० सिंह (090196 टी), सी० पी० ओ० आर०
पी० 1—20 मई 1990 ।
- एन० पी० ससीधरन (092372 एन), सी० पी० ओ०
यू० सी० 1—10 जुलाई, 1990 ।
- पी० थोमस ओ० (092430 डब्ल्यू) सी० पी० ओ०
आर० सी० 1—1 जुलाई 1990 ।
- एम० सिंह (092558 के), सी० पी० ओ० क्यू० ए०
1—10 अक्टूबर, 1990 ।
- बी० राम (092567 एफ), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
1—1 अक्टूबर, 1990 ।
- एम० के० एस० एच० अनकरन (092822 के), सी०
पी० ओ० यू० सी० 1—10 जनवरी, 1991 ।
- एल० पी० सिंह (093066 आर) सी० पी० ओ०
यू० सी० 1—1 अगस्त 1990 ।
- आई० हक (093284 के), सी० पी० ओ० यू० सी०
1—1 अक्टूबर, 1990 ।
- आर० जे० साहतो (093299 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०
यू० सी० 1—1 अगस्त 1990 ।
- जी० राम (094705 आर) सी० पी० ओ० आर०
सी० 1—10 अक्टूबर 1990 ।
- डी० चांद (053385 एफ), एम० ए० ए०—30 अप्रैल,
1990 ।
- बी० पी० सिंह (053845 ए) एम० ए० ए०—1
अगस्त 1990 ।
- एस० भोसले (092983 ए), सी० पी० ओ० आर०
टैक—6 अप्रैल, 1990 ।
- टी० राज (095350 एफ), सी० पी० ओ० आर०
टैक—17 अप्रैल, 1990 ।
- एस० सिंह (104887 एफ), सी० पी० ओ० आर०
टैक—2 मई, 1990 ।
- एम० एस० राठौर (053790 ए), सी० पी० ओ०
आर० टैक—14 अप्रैल, 1990 ।
- आर० परेरा (094900 एच), सी० पी० ओ० आर०
टैक—1 मई, 1990 ।
- आर० कुमार (055368 एन), सी० पी० ओ० आर०
टैक—1 मई 1990 ।
- ए० सिंह (053615 बी), एस० सी० पी० ओ०—1
जुलाई, 1990 ।
- एच० राम (059430 डब्ल्यू), एस० सी० पी० ओ०—
1 सितम्बर, 1990 ।
- यू० सिंह (059477 ए), एस० सी० पी० ओ०—1
अगस्त 1990 ।
- ए० एम० रेड्डी (059661 डब्ल्यू), एस० सी० पी०
ओ०—1 दिसम्बर, 1990 ।
- वी० धर्मालिंगम (059792 टी) एस० सी० पी० ओ०
—1 अप्रैल, 1989 ।
- ए० एस० लखमन (140045 के), एस० सी० पी०
ओ०—1 जनवरी, 1991 ।
- एस० एस० गरचा (058948 ए), सी० पी० ओ०
राइटर—1 मई, 1987 ।
- के० एम० नायर (140260 जैड) सी० पी० ओ०
राइटर—1 अगस्त, 1990 ।
- जी० एस० शेखावत (059632 बी), सी० पी० ओ०
स्टुवर्ड—1 मई, 1990 ।
- आर० ए० सिंह (140047 आर), सी० पी० ओ०
स्टुवर्ड—1 मई, 1990 ।
- डी० नाथ (058321 जैड), सी० पी० ओ० कुक
ओ० (ओ०)—1 जुलाई, 1990 ।
- बी० एस० राजपूत (059805 वाई) सी० पी० ओ०
कुक ओ० (ओ०)—1 मई, 1990 ।
- एम० खान (068076 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०
कुक ओ० (एस०)—1 जून 1990 ।
- आर० बी० यादव (081098 आर), सी० पी० ओ०
कुक ओ० (एस०)—15 मई 1990 ।
- पी० चांद (082531 वाई), सी० पी० ओ० कुक ओ०
(एस०)—15 जून, 1990 ।
- वी० एम० कुट्टी (081206 एच), सी० पी० ओ० टॉप
—1 जुलाई, 1990 ।
- एल० जी० कारडोज (042844 जैड), सी० पी० ओ०
म्यूज—1 सितम्बर, 1990 ।
- एम० ए० अलक्रोसी (042886 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०
म्यूज—1 अक्टूबर, 1990 ।
- एल० वी० दत्तारे (097242 एफ) सी० एच० ए०
(ए० एच०)—1 सितम्बर 1990 ।
- एस० सिंह (097628 एच) सी० एच० ए० (ए०
एच०)—1 सितम्बर 1990 ।
- आर० वी० ओल (096735 बी) सी० एच० ए०
(एस० ई०)—1 अगस्त 1990 ।
- आर० एस० ग्रादव (096866 ए) सी० एच० ए०
पी० एच०—15 जुलाई 1990 ।

एम० राम (096638 एच), चीफ ई० एल० ए०—1
अप्रैल, 1990।

सी० राजेन्द्रन (097330 एफ), चीफ ई० एल०
ए० आर०—1 अप्रैल, 1990।

डी० के० राय (201817 ए), चीफ ई० एल० ए०
आर०—1 अप्रैल, 1990।

डी० वी० निकम (095632 वाई), सी० पी० ओ०
ए० एफ०—1 जून, 1990।

वाई० सिंह (094747 के), सी० पी० ओ० ए० ओ०
एफ०—1 मई, 1990।

एस० गोपालाकृष्णन् (097723 जैड), सी० पी० ओ०
ए० ओ० एफ०—1 अप्रैल, 1990।

एम० टी० अब्राहम (190584 वाई), सी० एच० ए०
ए०—1 जून, 1990।

ए० जैड० उसमानी (190655 एच), सी०
एच० ए० ए०—1 जुलाई, 1990।

के० पी० सकारिया (201519 जैड), सी० एच०
ए० एम० (डब्ल्यू०)—1 जुलाई, 1990।

एस० रंगाम्बामी (190551 वाई), सी० एच० ई०
ए० ए०—1 जुलाई, 1990।

के० वी० जोस (203150 एफ), सी० एच०
ई० ए० ए०—1 जून, 1990।

पी० रामाचन्द्रन (203625 के), सी० एच० ई० ए०
ए०—1 सितम्बर, 1990।

आई० जार्ज (203710 बी), सी० एच० ई० ए०
ए०—1 सितम्बर, 1990।

के० के० झा (204108 एच), सी० एच० ई० ए०
ए०—1 अगस्त, 1990।

पी० सरपाल (203665 ए), चीफ ई० ए० ए० आर०
—1 अप्रैल, 1990।

ए० के० सिंह (204107 एफ), चीफ ई० ए० ए०
आर०—1 अप्रैल, 1990।

एम० एस० रामवल (104410 वाई), चीफ ई०
एल० पी०—1 मई, 1990।

आर० सिंह (200403 एन), चीफ ई० एल० पी०
—1 अप्रैल, 1990।

आर० चन्द्रा (103684 वाई), चीफ ई० एल० आर०
—1 मई, 1990।

आर० बी० एस० यादवा (104841 ए), चीफ ई०
एल० आर०—1 अप्रैल, 1990।

एस० कान्त (190644 एन), चीफ ई० आर० ए०—
1 मई, 1990।

डी० के० बरूआ (190723 एन), चीफ ई० आर०
ए०—1 मई, 1990।

जी० गी० एन० दिवेंदी (203358 बी), चीफ ई०
आर० ए०—1 अप्रैल, 1990।

के० एम० अवारजय (203873 जैड), चीफ ई०
आर० ए०—1 अप्रैल, 1990।

जी० यू० आर० बरबडे (203873 एफ), चीफ ई० आर०
ए०—1 मई, 1990।

डी० दत्त (056912 वाई), चीफ मैक०—1 मई,
1990।

बी० सिंह (057176 वाई), चीफ मैक०—1 मई,
1990।

एन० सिंह (057443 बी), चीफ मैक०—1 मई,
1990।

आर० एस० राम (057652 बी), चीफ मैक०—
1 मई, 1990।

आर० ए० सिंह (057672 जैड), चीफ मैक०—
1 मई, 1990।

यू० बी० सिंह (032302 बी), चीफ मैक०—1 मई,
1990।

बी० सिंह (094800 एफ), चीफ मैक०—1 मई,
1990।

एल० आर० जगत (094936 बी), चीफ मैक०—
1 मई, 1990।

बी० एम० पाल (095081 डब्ल्यू), चीफ मैक०—
1 मई, 1990।

डी० के० मोहन्ती (035473 के), चीफ मैक०—
1 मई, 1990।

एम० मोहाकुमार (095814 के), चीफ मैक०—1
मई, 1990।

ए० कुमार (096473 एच), चीफ मैक०—1 मई,
1990।

यू० कटियार (180302 बी), चीफ ई० ए० पी०—
1 सितम्बर, 1990।

ए० सिंह (104560 एन), चीफ मैक० (पी०)—1
अगस्त, 1990।

एम० के० राय (190511 एफ), सी० एच० ई० ए०
पी० (सी०)—1 अप्रैल, 1990।

आर० चन्द्र (203072 बी), सी० एच० ई० ए० पी०
(सी०)—1 जुलाई, 1990।

जी० चांद (053335 टी) चीफ वैपन मैक०—1
मई, 1989।

के० नीरदालिगम (053421 एन) चीफ वैपन मैक०
—1 अक्टूबर, 1989।

यू० सिंह (053523 डब्ल्यू) चीफ वैपन मैक०—
1 सितम्बर, 1990।

- जी० सिंह (053935 एफ), चीफ वैपन मैक०--
1 अक्टूबर, 1989।
- आर० आर० एम० यादव (054601 डब्ल्यू), चीफ
वैपन मैक०--1 सितम्बर, 1990।
- ओ० पी० शर्मा (054876 डब्ल्यू), चीफ वैपन मैक०
--1 मई, 1989।
- ए० के० मंदेल (055691 वाई), चीफ वैपन मैक०--
1 सितम्बर, 1990।
- सी० सिंह (085251 बी), चीफ वैपन मैक०--1
अक्टूबर, 1989।
- आर० कुमार (093514 एच), चीफ वैपन मैक०--
1 सितम्बर, 1989।
- बी० एस० अलोक (094912 के), चीफ वैपन मैक०
--1 सितम्बर, 1990।
- जे० सिंह (095471 एफ), चीफ वैपन मैक०--1
सितम्बर, 1990।
- बी० एस० यादव (180332 वाई), चीफ ई० ए०
आर०--1 अप्रैल, 1990।
- बी० राय (049918 ए), सी० पी० ओ० क्यू० ए०
1--30 मई, 1990।
- एल० जे० एस० यादव (053226 डब्ल्यू), सी० पी०
ओ० क्यू० ए० 1--1 सितम्बर, 1990।
- एस० सिंह (053471 ए), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू० 1
--31 मार्च, 1991।
- एच० एस० अन्जन (054178 एच), सी० पी० ओ०
यू० डब्ल्यू० 1--31 मार्च, 1991।
- एम० लाल (054999 जैड), सी० पी० ओ० यू० सी०
1--31 मार्च, 1991।
- आर० कंवर (084967 एच), सी० पी० ओ० पी० टी० 1
1--1 मार्च, 1991।
- आर० सिंह (092648 आर), सी० पी० ओ० आर०
सी० 1--1 फरवरी, 1991।
- ए० सिंह (092968 टी), सी० पी० ओ० क्यू० ए० 1
--1 जनवरी, 1991।
- डी० जी० गोस्वामी (093190 वाई), सी० पी० ओ०
आर० सी० --31 मार्च, 1991।
- डी० एन० मैन (093680 के), सी० पी० ओ० आर०
सी० 1--1 मार्च, 1991।
- आर० डी० राम (093719 जैड), सी० पी० ओ०
क्यू० ए० 1--31 मार्च, 1991।
- एल० चन्द्रा (094547 एफ), सी० पी० ओ० आर०
सी० 1--31 मार्च, 1991।
- एच० बर्धन (094694 आर), सी० पी० ओ० आर०
पी० 1--31 मार्च, 1991।
- एम० यू० कराले (094821 बी), सी० पी० ओ० यू०
सी० --31 मार्च, 1991।
- एस० शुक्लोबोदिया (055780 जैड), एम० ए० ए०
--31 मार्च, 1991।
- बी० बालाराम (085609 टी), एम० ए० ए०--
1 मार्च, 1991।
- टी० शुक्ला (054890 ए), सी० पी० ओ० आर० टैक--
10 अप्रैल, 1990।
- पी० सी० पैली (094999 एच), सी० पी० ओ० आर०
टैक--26 अप्रैल, 1990।
- आर० सिंह (140320 के), एस० सी० पी० ओ०--
31 मार्च, 1991।
- ए० सिंह (140637 एफ), एस० सी० पी० ओ०--
1 फरवरी, 1991।
- एम० पी० सिन्धु (104798 बी), सी० पी० ओ०
राइटर--31 मार्च, 1991।
- एस० सिंह (042777 वाई), सी० पी० ओ० क्यू०--
31 मार्च, 1991।
- टी० पॉल (201732 एच), चीफ ई० एल० ए०--
1 मार्च, 1991।
- पी० सिंह (095297 के), सी० पी० ओ० ए० एफ--
31 मार्च, 1991।
- आर० सी० कटोच (096125 टी), सी० पी० ओ०
ए० एफ--31 मार्च, 1991।
- एच० राज (104409 डब्ल्यू), सी० एच० ई० एल०
पी०--15 अप्रैल, 1989।
- एच० एल० यादव (180312 ए), सी० एच० ई०
ए० आर० --1 अप्रैल, 1990।
- बी० एस० केशव (190645 के), सी० एच० एस०
डब्ल्यू० ए०--1 अप्रैल, 1990।
- सी० एस० सिनसिनवर (053120 बी), सी० पी०
ओ० यू० डब्ल्यू० 1--1 अगस्त, 1991।
- एच० सिंह (053228 जैड), सी० पी० ओ० क्यू०
ए० 1--15 मई, 1991।
- एन० सिंह (053545 डब्ल्यू), सी० पी० ओ० यू०
डब्ल्यू० 1--1 जून, 1991।
- एल० सी० पॉल (053884 आर), सी० पी० ओ०
यू० सी० 1--1 जुलाई, 1991।
- सी० सिंह (053973 टी), सी० पी० ओ० क्यू० ए०
--15 मई, 1991।
- ओम प्रकाश (054244 एच), सी० पी० ओ० आर०
सी० 1--15 अप्रैल, 1991।
- आर० चन्द्रा (055010 जैड), सी० पी० ओ० आर०
सी० 1--1 अगस्त, 1991।

पी० चांद (082702 के), सी० पी० ओ० क्यू० ए० --
15 मई, 1991।

जी० सिंह (083080 डब्ल्यू), सी० पी० ओ० क्यू० ए०
--1 मई, 1991।

ए० सिंह (083250 एफ), सी० पी० ओ० आर०
सी० --1 जून, 1991।

डी० प्रसाद (083257 वाई), सी० पी० ओ० आर०
सी० --1 अगस्त, 1991।

टी० एस० मेहरा (084093 वाई), सी० पी० ओ०
पी० टी० --1 अप्रैल, 1991।

जे० एस० नेगी (084154 के), सी० पी० ओ० आर०
सी० --15 अगस्त, 1991।

बी० सिंह (084692 एच), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
--1 सितम्बर, 1991।

आर० लाल (084711 ए), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
--15 जुलाई, 1991।

एम० सिंह (084863 वाई), सी० पी० ओ० यू०
डब्ल्यू० --1 सितम्बर, 1991।

बी० किशन (085133 के), सी० पी० ओ० आर० पी०
--15 जून, 1991।

आर० वी० सिंह (085140 ए), सी० पी० ओ० क्यू०
ए० --1 जुलाई, 1991।

आर० एल० जून (085478 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०
यू० डब्ल्यू० --1 अप्रैल, 1991।

डी० पी० गैहलन (085612 जैड), सी० पी० ओ०
क्यू० ए० --1 मई, 1991।

एस० सिंह (085677 वाई), सी० पी० ओ० क्यू०
ए० --1 जून, 1991।

एस० पी० जाकहू (085998 ए), सी० पी० ओ० यू०
डब्ल्यू० --15 जून, 1991।

जे० प्रमनिक (090911 टी), सी० पी० ओ० क्यू० ए०
--1 अप्रैल, 1991।

ए० सिंह (090994 एफ), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
--15 जून, 1991।

पी० एन० सिंह (091140 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०
यू० डब्ल्यू० --1 सितम्बर, 1991।

आर० किशन (091921 एन), सी० पी० ओ० यू०
डब्ल्यू० --15 अप्रैल, 1991।

के० टी० जोसफ (092112 वाई), सी० पी० ओ० यू०
डब्ल्यू० --15 मई, 1991।

सी० डी० सिंह (092253 एच), सी० पी० ओ० आर०
सी० --1 सितम्बर, 1991।

बी० एन० श्रीवास्तवा (092399 जैड), सी० पी०
ओ० आर० सी० --1 सितम्बर, 1991।

ए० राम (092647 एन), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
--11 सितम्बर, 1991।

एम० भान (092728 वाई), सी० पी० ओ० क्यू० ए०
--1 सितम्बर, 1991।

आर० सिंह (093122 टी), सी० पी० ओ० यू० सी०
--1 सितम्बर, 1991।

एन० सिंह (096285 जैड), सी० पी० ओ० आर० टी०
ई० एल० --1 अप्रैल, 1991।

बी० एस० दरिया (055019 डब्ल्यू), एम० ए० ए० --
1 जुलाई, 1991।

आर० माध्यामिलम (084736 एच) एम० ए० ए० --
1 मई, 1991।

आर० एल० वर्मा (093724 के), एम० ए० ए० --
15 अप्रैल, 1991।

आर० भूप (059025 जैड), सी० पी० ओ० एम० ए०
एच० --20 अप्रैल, 1991।

एन० सुभवा (059025 ई), सी० पी० ओ० एम० ए०
यू० एम० --10 अप्रैल, 1991।

एस० के० कृष्णदियो (059306 एन), सी० पी० ओ०
एम० ए० एम० डी० --1 अप्रैल, 1991।

आर० बी० सिंह (059847 टी), सी० पी० ओ० एम०
ए० बी० टी० --15 मई, 1991।

के० चांद (140201 आर), सी० पी० ओ० एम० ए०
आर० --1 अगस्त, 1991।

पी० एस० नेगी (059528 टी), एस० सी० पी० ओ०
--1 अप्रैल, 1991।

एस० एस० राजभूत (059671 टी), एस० सी० पी०
ओ० --1 अप्रैल, 1991।

एम० कौल (059785 ए), एस० सी० पी० ओ० --
1 अप्रैल, 1991।

सी० राजाराव (058202 बी), सी० पी० ओ०
राईटर--20 अप्रैल, 1991।

जे० कुमार (059701 के), सी० पी० ओ० राईटर--
1 अप्रैल, 1991।

ए० जी० नटराजन (104948 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०
राईटर--1 दिसम्बर, 1991।

बी० एस० सिंह (140115 डब्ल्यू), सी० पी० ओ० राईटर
--01 अप्रैल, 1991।

सी० एस० पधेन (140212 आर), सी० पी० ओ०
राईटर--01 मई, 1991।

आर० के० यादव (140239 ए), सी० पी० ओ० राईटर
--01 अप्रैल, 1991।

एन० पाठक (058039 एच), सी० पी० ओ० कुक (ओ०)
--01 अप्रैल, 1992।

आर० श्याम (068295 टी), सी० पी० ओ० कुक एस०
--20 अप्रैल, 1991।

- पी० जाधव (081315 एच) सी० पी० ओ० कुक (एस०)
—01 अप्रैल, 1991।
- आर० बालिया (081554 ए), सी० पी० ओ० कुक (एस०)
—10 अप्रैल, 1991।
- एस० के० गोरिया (096516 एफ), सी० पी० ओ०,
ए० एफ०—01 अप्रैल, 1991।
- ए० कलीग (053072 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, यू०
डब्ल्यू०—21 सितम्बर, 1991।
- पी० के० बिसवास (053090 के), सी० पी० ओ०, यू०
डब्ल्यू०—15 अप्रैल, 1991।
- एस० सिंह (054545 टी), सी० पी० ओ०, यू० डब्ल्यू०
—01 सितम्बर, 1991।
- वाई० एन० त्रिपाठी, (054791 ए), सी० पी० ओ०, यू०
ए०—15 दिसम्बर, 1991।
- एस० सिंह (054893 एच), सी० पी० ओ०, आर० सी०
—15 जून, 1991।
- आर० एस० यादव (055182 आर), सी० पी० ओ०,
आर० सी०—15 अक्टूबर, 1991।
- पी० के० मुखोपाध्याय (083476 डब्ल्यू), सी० पी०
ओ०, आर० सी०—15 अगस्त, 1991।
- एच० एस० भर्डे (084545 जैड), सी० पी० ओ०, आर०
सी०—01 जनवरी, 1992।
- वाई० पी० सिंह (084878 एफ), सी० पी० ओ०, आर०
सी०—15 अक्टूबर, 1991।
- एन० सिंह (085178 एन), सी० पी० ओ०; आर० सी०
—15 अप्रैल, 1991।
- आर० एस० दूबे (085222 एन), सी० पी० ओ०, यू०
डब्ल्यू०—15 जुलाई, 1991।
- बी० दास (085536 ए), सी० पी० ओ०, यू० ए०—
—01 नवम्बर, 1991।
- टी० आर० सैनी (085647 टी), सी० पी० ओ०, यू०
सी०—01 सितम्बर, 1991।
- क्यूमरुदीन (085678 जैड), सी० पी० ओ०, आर०
सी०—01 दिसम्बर, 1991।
- एम० सी० शर्मा (085735 बी), सी० पी० ओ०, यू०
डब्ल्यू०—01 सितम्बर, 1991।
- आर० सिंह (085845 बी), सी० पी० ओ०, आर०
सी०—15 मई, 1991।
- सी० राम (090873 एफ), सी० पी० ओ०, आर० सी०
—01 दिसम्बर, 1991।
- आर० सरन (090985 के), सी० पी० ओ०, यू०
ए०—01 सितम्बर, 1991।
- जे० सिंह (091533 एफ), सी० पी० ओ०, यू० डब्ल्यू०
—01 अक्टूबर, 1991।
- ओ० एस० चौहान (093773 वाई), सी० पी० ओ०,
क्यू० ए०—01 जनवरी, 1992।
- डी० सिंह (094049 जैड), सी० पी० ओ०, क्यू० ए०
—15 नवम्बर, 1991।
- के० डी० जावेल (094516 के), सी० पी० ओ०, सी०
डी०—01 नवम्बर, 1991।
- पी० एस० महता (095166 एन), सी० पी० ओ०, यू०,
डब्ल्यू०—21 सितम्बर, 1991।
- आई० राम (053410 एन), एम० ए० ए०—01 जून
1991।
- एस० एस० रवत (096114 टी), सी० पी० ओ०, यू०
सी०—01 जनवरी, 1992।
- एस० डी० मिश्रे (053100 एच), एम० ए० ए०—01
मई, 1991।
- पी० बी० अन्नासाहिब (053833 जैड); एम० ए० ए०—
15 अगस्त, 1991।
- आर० सी० मोहन (054423 आर), एम० ए० ए०—01
अगस्त, 1991।
- एस० राम (054473 बी), एम० ए० ए०—01 अप्रैल,
1991।
- एस० एस० जसवाल (055261 डब्ल्यू), एम० ए० ए०
—15 जुलाई, 1991।
- आई० एस० मिहास (095402 जैड), एम० ए० ए०—
15 जून, 1991।
- बी० सिंह (095881 एन), एम० ए० ए०—05
अक्टूबर, 1991।
- एम० लाल (055152 वाई), सी० पी० ओ० आर०, टैल
—15 अगस्त, 1991।
- जे० आर० यादव (055198 ए), सी० पी० ओ० आर०;
टैल—01 मई, 1991।
- एस० के० शर्मा (094379 जैड), सी० पी० ओ० आर०;
टैल—18 अक्टूबर, 1991।
- एस० तिवारी (095505 एव), सी० पी० ओ० आर०;
टैल—01 मई, 1991।
- टी० चांद (103174 एन), सी० पी० ओ० आर०;
टैल—20 मई, 1991।
- जे० आर० गौर (057713 टी), सी० पी० ओ०, एम०
ए० (एस० डी० 1)—01 मई, 1991।
- के० एम० पांडे (057743 के), सी० पी० ओ०, एम०
ए० (बी० टी० 1)—01 जून, 1991।
- आर० राजक (059191 ए), सी० पी० ओ०, एम० ए०
(एल० 1)—25 अप्रैल, 1991।
- एस० के० कर्माकर (059218 एन), सी० पी० ओ०,
एम० ए० (यू० एम० 1)—15 जुलाई, 1991।

पी० एन० सिंह (059591 के), सी० पी० ओ०, एम० ए० (बी० टी० 1)—15 जून, 1991।

एस० डैविड (105991 आर), एस० सी० पी० ओ०—20 मई, 1991।

बी० राम (140463 के), एस० सी० पी० ओ०—10 अप्रैल, 1991।

बी० सिंह (140483 एफ), एस० सी० पी० ओ०—20 अप्रैल, 1991।

आर० कुमार (140593 एफ), एस० सी० पी० ओ०—20 अप्रैल, 1991।

के० एस० पिल्लै (140599 डब्ल्यू), एस० सी० पी० ओ०—20 अप्रैल, 1991।

एम० सत्यानारायणन (140663 आर), एस० सी० पी० ओ०—10 मई, 1991।

आर० सिंह (140667 जेड), एस० सी० पी० ओ०—01 मई, 1991।

ओ० प्रकाश (104891 आर), सी० पी० ओ०, राइटर—25 सितम्बर, 1991।

एस० एस० बाबू (105764 जेड), सी० पी० ओ०, राइटर—01 अगस्त, 1991।

एन० एस० रवी (106603 एफ), सी० पी० ओ०, राइटर—01 नवम्बर, 1991।

एस० के० वर्मा (140203 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, राइटर—10 अप्रैल, 1991।

जे० चांद (140634 जेड) सी० पी० ओ० राइटर—15 सितम्बर 1991।

आर० सिंह (140648 एफ) सी० पी० ओ० राइटर—01 सितम्बर 1991।

जे० पीटर (140677 वाई) सी० पी० ओ० राइटर—01 अगस्त 1991।

के० वैलायउधन (059996 एफ) सी० पी० ओ०, स्टुवर्ड—01 मई 1991।

एच० चन्द्रा (140074 ए) सी० पी० ओ०, स्टुवर्ड—01 अप्रैल 1991।

एच० रायलक्ष्मी (140100 के) सी० पी० ओ०, स्टुवर्ड—10 अप्रैल 1991।

जे० आर० विजानिया (140121 एच) सी० पी० ओ०, स्टुवर्ड—20 अप्रैल 1991।

जे० चन्द्रा (159585 वाई) सी० पी० ओ० कुक (ओ०)—20 अप्रैल 1991।

एम० सिंह (059666 एफ) सी० पी० ओ० कुक (ओ०)—10 अप्रैल 1991।

एम० सी० मीना (069956 टी) सी० पी० ओ० कुक (ओ०)—20 अप्रैल 1991।

वी० खण्डेकर (069966 आर) सी० पी० ओ० कुक (ओ०)—01 अप्रैल 1991।

टी० ओ० वर्की (058104 एफ) सी० पी० ओ० कुक (एस०)—01 जून 1991।

के० बी० विजयन (069156 जेड) सी० पी० ओ० कुक (एस०)—01 जुलाई, 1991।

के० राम (055806 एच), सी० पी० ओ० ठॉप—30 जून, 1991।

बी० न० सिम्हा (068456 एच), सी० पी० ओ० ठॉप—30 जून, 1991।

ए० के० दत्ता (095802 एच), सी० एच० ए० (ए० एच०) 01 मई, 1991।

एम० सिंह (097079 के), सी० एच० ए० (ए० एच०)—01 मई, 1991।

जी० क० लोहाकर (097149 डब्ल्यू), सी० एच० ए० (ए० एच०)—15 अक्टूबर, 1991।

बी० शिन्दे (096147 टी), सी० एच० ए० (एस० ई०)—01 दिसम्बर, 1991।

टी० सिंह (097845 ए), सी० एच० ए० (एस० ई०) 01 दिसम्बर, 1991।

एस० लाल (200633 के), सी० एच० ए० (एस० ई०)—15 दिसम्बर, 1991।

जी० सिंह (097486 के) चीफ ई० एल० ए०—01 मई, 1991।

वाई० थंकाचन (201163 आर) चीफ ई० एल० ए०—01 अप्रैल 1991।

के० श्रीधरन (202737 टी) चीफ ई० एल० ए०—01 जून 1991।

पी० सदाशिवन (203112 डब्ल्यू) चीफ ई० एल० ए०—01 जून, 1991।

एस० चन्द्रा (02337 एच), सी० एच० ई० एल० ए० आर०—01 अप्रैल, 1991।

एन० आर० शर्मा (091980 वाई), सी० पी० ओ०, ए० एफ०—01 अप्रैल, 1991।

एच० जी० शर्मा (095378 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, ए० एफ०—01 मई, 1992।

एच० बिस्वास (096192 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, ए० एफ०—01 मई, 1992।

ए० जी० रंगानाथन (096375 के), सी० पी० ओ०, ए० एफ०—01 मई, 1991।

आर० प्रसाद (094034 आर), सी० पी० ओ०, ए० ए० एफ०—01 जून, 1991।

एम० अगबूल (095703 एच), सी० पी० ओ०, ए० ओ० एफ०—01 अप्रैल, 1991।

आई० प्रताप (095911 एफ), सी० पी० ओ०, ए० ओ० एफ०—01 अप्रैल, 1991।

के० रामाचन्द्रन (190525 एन), सी० एच०, ए० ए०—15 अप्रैल, 1991।

एफ० डी० क्रूज (190576 बी), सी० एच०, ए० ए०--
01 अप्रैल, 1991 ।

सी० जी० रामदास (190643 एफ), सी० एच०, ए०
ए०--01 मई, 1991 ।

सी० रामाकृष्णन (190888 एन), सी० एच०, ए० ए०
--01 जून, 1991 ।

आर० लाट (203387 डब्ल्यू), चीफ ए० ए०--01
अप्रैल, 1991 ।

ए० के० नरयाल (140929 डब्ल्यू), चीफ ए० एम०--
01 जून, 1991 ।

जे० चार्ली (200857 डब्ल्यू), चीफ ए० एम०--01
जून, 1991 ।

आर० के० शुक्ला (202366 जैड), चीफ ए० एम०--
01 जून, 1991 ।

एल० एच० सी० रघु (203032 एन), चीफ ए० एम०--
01 जून, 1991 ।

पी० एस० चन्देल (201726 डब्ल्यू), चीफ ए० एम०
(डब्ल्यू)--01 अप्रैल, 1991 ।

के० सी० ए० कुमार (190507 बाई), चीफ ई० ए०
ए०--01 अप्रैल, 1991 ।

सी० जे० थोमस (190604 टी), चीफ ई० ए० ए०--
01 मई, 1991 ।

एम० जयाप्रकाश (203774 जैड), चीफ ई० ए० ए०--
01 जून, 1991 ।

के० वी० विलसन (203831 बी), चीफ ई० ए० ए०--
01 मई, 1991 ।

आर० एन० यादव (148034 टी), चीफ ई० ए० ए०
आर०--01 अगस्त, 1991 ।

सी० वी० एस० प्रकाशराव (180292 एफ), चीफ ई०
ए० ए० आर०--01 जून, 1991 ।

ए० के० एस० चौहान (190493 आर), चीफ ई० ए०
ए० आर०--01 अप्रैल, 1991 ।

वी० के० डिमरी (190530 जैड), चीफ ई० ए० ए०
आर०--01 अप्रैल, 1991 ।

वी० कुमार (190556 एच), चीफ ई० ए० ए० आर०--
01 अप्रैल, 1991 ।

डी० चक्रवर्ती (190606 बाई), चीफ ई० ए० ए० आर०--
01 मई, 1991 ।

पी० लक्षादीपथी (190677 एच), चीफ ई० ए० ए०
आर०--01 जुलाई, 1991 ।

वी० पी० त्रिपाठी (203518 टी), चीफ ई० ए० ए०
आर०--01 अप्रैल, 1991 ।

ए० जॉर्ज (204146 डब्ल्यू), चीफ ई० ए० ए० आर०--
01 सितम्बर, 1991 ।

आर० सिंह (104228 एच), चीफ ई० एल० पी०--
01 अप्रैल, 1991 ।

जी० सिंह (104872 बाई), चीफ ई० एल० पी०--01
मई, 1991 ।

जे० एस० नागरा (200348 एन), चीफ ई० एल० पी०
--01 मई, 1991 ।

आर० आर० सिंह (200756 आर), चीफ ई० एल० पी०
--11 मई, 1991 ।

वी० सिंह (201079 जैड), चीफ ई० एल० पी०--15
मई, 1991 ।

आर० प्रसाद (104357 ए), चीफ ई० एल० आर०--
01 मई, 1991 ।

आर० सिंह (104721 बी), चीफ ई० एल० आर०--
01 मई, 1991 ।

टैप राव (200783 ए), चीफ ई० एल० आर०--01
मई, 1991 ।

जे० सिंह (097506 एफ), चीफ एम० ई०--01 जून,
1991 ।

के० सिंह (097507 एच), चीफ एम० ई०--01 मई,
1991 ।

एस० एस० रेड्डी (147066 टी), चीफ ई० आर० ए०
--01 मई, 1991 ।

सी० विजय रंगन (180317 एन), चीफ ई० आर० ए०
--01 अप्रैल, 1991 ।

जे० सेकन (180318 आर), चीफ ई० आर० ए०--
01 अप्रैल, 1991 ।

आर० कुमार (180326 एच), चीफ ई० आर० ए०--
01 अप्रैल, 1991 ।

आर० साहनी (180327 के), चीफ ई० आर० ए०--
01 अप्रैल, 1991 ।

एस० के० जयसवाल (180329 आर), चीफ ई० आर०
ए०--01 अप्रैल, 1991 ।

वी० आर० चन्द्रसेखर (180335 बी), चीफ ई० आर०
ए०--01 मई, 1991 ।

डी० के० सती (180336 एफ), चीफ ई० आर० ए०--
01 मई, 1991 ।

आर० के० कश्यप (180349 के), चीफ ई० आर० ए०
--01 अगस्त, 1991 ।

एम० एस० कृष्णन (180352 टी), चीफ ई० आर० ए०
--01 जून, 1991 ।

एस० एस० राना (190658 आर), चीफ ई० आर० ए०
--01 मई, 1991 ।

एस० के० सिंह (190714 टी), चीफ ई० आर० ए०--
01 जुलाई, 1991 ।

वी० एस० डोगरा (190715 डब्ल्यू), चीफ ई० आर०
ए०--01 मई, 1991 ।

डी० एस० महता (190717 जैड), चीफ ई० आर० ए०
--01 मई, 1991।

वी० एन० सिंह (190719 बी), चीफ ई० आर० ए०--
01 मई, 1991।

एच० सिंह (190789 एन), चीफ ई० आर० ए०--01
जुलाई, 1991।

आर० सिंह (190797 एफ), चीफ ई० आर० ए०--01
जुलाई, 1991।

पी० के० राजेन्द्रन (190807 बी), चीफ ई० आर० ए०
--01 जुलाई, 1991।

आर० वर्मा (190808 एफ), चीफ ई० आर० ए०--
01 जुलाई, 1991।

जी० काशी (094702 एच), चीफ मैक--01 जुलाई,
1991।

एस० एन० सिंह (090539 जैड), चीफ मैक--02 मई,
1991।

जे० शर्मा (095076 एच), चीफ मैक--01 जुलाई,
1991।

डी० पी० घोष (095796 डब्ल्यू), चीफ मैक--01
जुलाई, 1991।

आर० कुमार (096692 एफ), चीफ मैक--01 जुलाई,
1991।

एम० राम (097035 के), चीफ मैक--01 मई,
1991।

जी० एस० भुल्लर (097077 एफ), चीफ मैक--01 जुलाई,
1991।

एस० सिंह (097641 एन), चीफ मैक--01 जुलाई,
1991।

आर० के० सिंह (103455 ए), चीफ मैक--01 जुलाई,
1991।

सी० प्रभाकरन (180251 एन), चीफ ई० ए० पी०--
10 अप्रैल, 1991।

पी० एस० भट्ट (180257 ए), चीफ ई० ए० पी०--
12 अप्रैल, 1991।

पी० के० सिंह (180260 एच), चीफ ई० ए० पी०--
12 अप्रैल, 1991।

ए० के० वर्मा (180275 टी) चीफ ई० ए० पी०--20
मई, 1991।

एन० उपाध्याय (180301 ए), चीफ ई० ए० पी०--
15 मई, 1991।

एस० के० साहु (180303 एफ), चीफ ई० ए० पी०--
25 मई, 1991।

पी० के० बेहरा (190590 के), चीफ ई० ए० पी०--
01 मई, 1991।

जी० के० नायक (190602 एन), चीफ ई० ए० पी०--
01 मई, 1991।

बी० एन० तिवारी (190605 डब्ल्यू), चीफ ई० ए० पी०
--01 मई, 1991।

वी० कुमार (190623 के); चीफ ई० ए० पी०--05
मई, 1991।

के० एन० सुधाकरन (190634 के), चीफ ई० ए० पी०
--20 मई, 1991।

एच० सिंह (190682 डब्ल्यू), चीफ ई० ए० पी०--
01 जून, 1991।

वी० के० जानू (190710 एच), चीफ ई० ए० पी०--
01 मई, 1991।

सी० शर्मा (203684 डब्ल्यू), चीफ ई० ए० पी०--01
मई, 1991।

एच० आर० त्रिपाठी (203866 एच), चीफ ई० ए० पी०
--15 मई, 1991।

बी० सिंह (190446 एच), चीफ ई० ए० पी० (सी०)
--01 अप्रैल, 1991।

एस० शर्मा (190601 के), चीफ ई० ए० पी० (सी०)
--15 मई, 1991।

पी० बेहरा (190627 डब्ल्यू), चीफ ई० ए० पी० (सी०)
--01 मई, 1991।

के० ए० चमन लाल (190675 बी), चीफ ई० ए० पी०
(सी०)--01 जून, 1991।

बी० राम (190699 एच), चीफ ई० ए० पी० (सी०)
--01 जून, 1991।

पी० पी० नाई (203683 बी), चीफ ई० ए० पी० (सी०)
--01 मई, 1991।

पी० एन० मिश्रा (203693 आर), चीफ ई० ए० पी०
(सी०)--01 मई, 1991।

ए० सन्तु (203736 ए), चीफ ई० ए० पी० (सी०)
--01 मई, 1991।

एन० मोहन (094297 एन), सी० एच०, डब्ल्यू एम०--
15 अप्रैल, 1991।

एम० एन० भगवान (180333 जैड), चीफ ई० ए० आर०
--01 अप्रैल, 1991।

जे० एन० सिंह (180360 के), चीफ ई० ए० आर०--
10 अप्रैल, 1991।

एम० के० एम० बिस्ती (097980 एच), चीफ मैक आर०
--10 अप्रैल, 1991।

यू० एस० कुशवाहा (200332 टी), चीफ मैक आर०--
10 अप्रैल, 1991।

डी० चांद (201362 टी), चीफ मैक आर०--10
अप्रैल, 1991।

- बी० सिंह (190791 टी), सी० एच० एस० डब्ल्यू० ए०
—01 मई, 1991।
- एम० सिंह (204197 के), सी० एच० एस० डब्ल्यू०
ए०—01 मई, 1991।
- के० डी० पाठक (053546 वाई), सी० पी० ओ०, यू०
डब्ल्यू 1—01 सितम्बर, 1991।
- टी० डी० बैनर्जी (053756 ए), सी० पी० ओ०, आर०
पी० 1—01 फरवरी, 1992।
- पी० सिंह (053938 एन), सी० पी० ओ०, यू० सी० 1
—11 फरवरी, 1992।
- पी० बी० लाल (054120 ए), सी० पी० ओ०, आर०
सी० 1—11 फरवरी, 1992।
- आर० एम० थनापन्न (054144 एफ), सी० पी० ओ०
यू० सी० 1—21 फरवरी, 1992।
- बी० सिंह (054198 बी), सी० पी० ओ०, क्यू० ए०
1—01 फरवरी, 1992।
- पी० चांद (054906 एन), सी० पी० ओ०, आर०
सी० 1—11 फरवरी, 1992।
- एम० लाल (055017 आर), सी० पी० ओ०, क्यू०
ए० 1—01 फरवरी, 1992।
- एस० सिंह (055053 वाई), सी० पी० ओ०, क्यू०
ए० 1—01 फरवरी, 1992।
- एस० सिंह (054350 जैड), सी० पी० ओ०, आर०
सी० 1—11 फरवरी, 1992।
- जे० सिंह (055140 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, यू० सी०
1—11 फरवरी, 1992।
- एम० अली, (055144 बी), सी० पी० ओ०, यू० सी०
1—11 फरवरी, 1992।
- जी० सी० दास, (055260 टी), सी० पी० ओ०, आर०
सी० 1—01 जनवरी, 1992।
- पी० बी० ब्रह्म, (055393 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, क्यू०
ए० 1—11 फरवरी, 1992।
- बी० राम, (055674 एच), सी० पी० ओ०, आर० सी०
1—11 फरवरी, 1992।
- डी० कृष्ण, (085719 टी), सी० पी० ओ०, आर० पी०
1—11 फरवरी, 1992।
- बी० डी० पाठक, (085736 एफ), सी० पी० ओ०, आर०
सी० 1—11 फरवरी, 1992।
- ए० राम, (085781 एच), सी० पी० ओ०, क्यू० ए० 1—
11 फरवरी, 1992।
- सी० ओलगाणाथन, (091260 के), सी० पी० ओ० क्यू०
ए० 1—11 फरवरी, 1992।
- टी० वी० वी० नायर, (092083 एफ), सी० पी० ओ०, आर०
सी० 1—01 अक्टूबर, 1992।
- आर० सिंह (092929 बी), सी० पी० ओ०, आर० सी०
1—01 मार्च, 1992।
- सी० लाल (092950 ए०), सी० पी० ओ० क्यू० ए० 1—
15 नवम्बर, 1992।
- जे० सिंह (093772 डब्ल्यू), सी० पी० ओ० यू० डब्ल्यू०
1—11 फरवरी, 1992।
- एस० सिंह (093781 आर०), सी० पी० ओ०, आर० सी०
1—11 फरवरी, 1992।
- सी० लाल (093847 आर), सी० पी० ओ०, क्यू० ए०
1—11 फरवरी, 1992।
- पी० सिंह (093853 बी), सी० पी० ओ०, आर० पी०
1—01 नवम्बर, 1991।
- बी० एस० पाटिल (094813 के), सी० पी० ओ०, आर०
पी० 1—21 फरवरी, 1992।
- आर० सिंह (094971 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, आर० पी०
1—11 फरवरी, 1992।
- डी० आर० सैनी (095070 डब्ल्यू), सी० पी० ओ०, आर०
सी० 1—11 फरवरी, 1992।
- टी० सिंह (096330 एच), सी० पी० ओ० आर० सी० 1—
11 फरवरी, 1992।
- एफ० थोमस (201136 बी), सी० पी० ओ०, आर० सी०
1—15 जनवरी, 1992।
- एच० चांद, (103073 एच), ए० एम० ए०—10 फरवरी,
1992।
- बी० एस० ब्राह्म (103831 एफ), ए० एम० ए०—01
फरवरी 1992।
- सी० विजयन (105626 के), ए० एम० ए०—05 फरवरी
1992।
- पी० एस० जसरोतिया (055080 एच), सी० पी० ओ०
आर० स्पेशल—01 अगस्त 1991।
- एस० एस० इन्डा (140329 एफ), सी० पी० ओ० एम०
ए० एस० डी० 1—01 जुलाई 1991।
- पी० थोमस (140253 एच), एम० सी० पी० ओ०—01
फरवरी, 1991।
- पी० सिंह (140126 डब्ल्यू), सी० पी० ओ० स्टुअर्ड—
01 मई 1991।
- वी० यू० कृष्णन (140154 एच), सी० पी० ओ० स्टुअर्ड—
10 अप्रैल 1991।
- ए० कुमार (080892 वाई) सी० पी० ओ० कुक (एस)
—30 सितम्बर 1991।
- के० नन्द (081352 टी), सी० पी० ओ० कुक (एस)—
01 अप्रैल 1991।
- आर० के० शर्मा (042966 ए), सी० पी० ओ० म्यूज—
01 अप्रैल 1991।

के० एस० चौहान, 200435 के, सी० एच० ए० (एस०ई०)
--15 फरवरी, 1992 ।

ए० के० तरफदार, 201149 एच, सी० एच० ए० --
01 फरवरी, 1992 ।

एम० के० एस० कुमार, 202401 वी, सी० एच० ई०
एल० ए० आर०--01 अप्रैल, 1991 ।

एन० दास, 200320 जैड, सी० पी० ओ० ए० एफ०--
01 फरवरी, 1992 ।

आर० जी० शर्मा, 201328 आर, सी० पी० ओ० एफ०--
15 फरवरी 1992 ।

जे० सेबस्टेन, 190636 आर, सी० एच०, ई० ए० ए०--
01 जून, 1991 ।

जी० बी० भट्ट, 103060 वी, सी० एच० सी०--ई० एल०
आर०--01 जून, 1991 ।

एस० डी० महतो, 140936 के, सी० एच० ई० एल० आर०
--01 अप्रैल, 1991 ।

ए० सैनी, 180330 टी, सी० एच० ई० आर० ए०--01
अप्रैल, 1991 ।

जी० आर० बल्लयूमनी, 180345 ए, सी० एच० ई०
आर० ए०--01 मई, 1991 ।

के० एस० सिकरवाल, 190656 के, सी० एच०, ई०
आर० ए०--01 मई, 1991 ।

एम० यू० श्रीनिवास, 190718 ए, सी० एच० ई० आर०
ए०--01 मई, 1991 ।

के० आर० जट, 190734 एन, सी० एच० ई० आर० ए०--
01 मई, 1991 ।

आर० कुमार, 190798 एच, सी० एच० ई० आर० ए०--
01 जुलाई, 1991 ।

जी० डेविस, 190801 आर, सी० एच० ई० आर० ए०--
01 जुलाई, 1991 ।

बी० जी० शर्मा, 190806 ए, सी० एच०, ई० आर०
ए०--01 जुलाई, 1991 ।

डी० सिंह, 055498 एच, सी० एच० एम० ई० सी० एच०--
01 जुलाई, 1991 ।

बी० के० पी० सिंह, 096287 के, सी० एच०, एम० ई० सी०
एच०--01 जुलाई, 1991 ।

बी० सी० उप्रेति, 096888 ए, सी० एच०, एम० ई० सी०
एच०--01 जुलाई, 1991 ।

ए० के० श्रीवास्तव, 200165 वाई, सी० एच० एम०
सी० एच०--01 जुलाई, 1991 ।

जी० मथिवानन, 180307 आर, सी० एच०, ई० ए०
पी०--01 जून, 1991 ।

एस० एस० कुन्दु, 190622 एच, सी० एच० ई० ए०
पी०--20 मई, 1991 ।

पी० पी० राजगोंडा, 109676 एफ, सी० एच० ई० ए० पी०
--01 जून 1991 ।

पी० के० मधावन, 190695 जैड, सी० एच० ई० ए० पी०--
01 जून, 1991 ।

जी० एस० राणा, 190589 एच, सी० एच० ई० ए० पी०
(सी)--01 मई, 1991 ।

डी० वाई० राय, 10961 एच, सी० एच० ई० ए० पी०
(सी)--01 मई, 1991 ।

एच० सी० सिंह, 190661 वाई, सी० एच० ई० ए० पी०
(सी)--01 जून, 1991 ।

एम० राजिउद्दीन, 190671 डब्ल्यू, सी० एच० ई० ए० पी०
(सी)--01 जून, 1991 ।

आर० के० गांधी 190673 जैड, सी० एच० ई० ए०
पी० (सी)--01 जून, 1991 ।

ए० जी० शिदगे, 190681 टी, सी० एच० ई० ए० पी०--
01 जून, 1991 ।

यू० सी० राय, 203690 एच, सी० एच० ई० ए० पी०
(सी)--01 मई, 1991 ।

ओम प्रकाश, 204170 जैड, सी० एच० ई० ए० पी० (सी)
--01 मई, 1991 ।

वी० के० कुरुन, 190836 डब्ल्यू, चीफ ई० ए० आर०--
15 अप्रैल, 1991 ।

जे० राम, 190847 डब्ल्यू, चीफ ई० ए० आर०--15
अप्रैल, 1991 ।

वी० बल्लभ 103051 एच, चीफ मैक (आर)--10
अप्रैल, 1991 ।

आर० राजेन्द्रन, 190882 जैड, सी० एच० एस० डब्ल्यू०
ए०--01 मई, 1991 ।

आर० कुमार 203924 आर, सी० एच० एस० डब्ल्यू० ए०
--01 अप्रैल, 1991 ।

ए० के० दीक्षित, 085655 वाई, सी० पी० ओ० एस०
आर०--11 मार्च, 1992 ।

एस० महबूब, 092434 वाई, सी० पी० ओ० आर० सी०
--21 मार्च, 1992

जे० सिंह, 092602 के, सी० पी० ओ० क्यू० ए० 1--
21 मार्च 1992 ।

एस० लाल, 094312 वाई, सी० पी० ओ० पी० टी० 1--
07 मार्च, 1992 ।

एच० सिंह, 094709 जैड, सी० पी० ओ० क्यू० ए० 1--
21 मार्च, 1991 ।

जे० सिंह, 095763 डब्ल्यू, सी० पी० ओ०, पी० टी०--1
06 मार्च, 1992 ।

के० एस० पांडियन, 151353 के, सी० पी० ओ०
कु (एस)--31 जनवरी, 1992 ।

के० सिंह, 140609 टी सी० पी० ओ०, राइटर--01
मई, 1991 ।

सी० मोहन, 20034 बी, सी० एच० ए० (ए० एच०)—
01 मार्च, 1992 ।

बी० एम० लाल, 200590 एन, सी० एच० ई० ए० ए०—
01 जुलाई, 1991 ।

एस० साह, 190597 आर, सी० एच० ई० ए० ए० आर०
—01 अप्रैल 1991 ।

बी० सिंह 108351 आर, सी० एच० ई० आर० ए०—
15 मई, 1991 ।

पी० सी० शर्मा, 096682 एच, चीफ मैक—28 जनवरी,
1992 ।

आर० स्वल्प, 190810 के, सी० एच० ई० आर० ए०—
01 अगस्त 1991 ।

एस० राजा, 195158 डब्ल्यू, सी० पी० ओ०—11
फरवरी, 1991 ।

के० लाल, 081647 एन, सी० पी० ओ० (टाप)—30
जून, 1991 ।

बी० सिंह, 089768 डब्ल्यू, सी० पी० ओ०—01 नवम्बर,
1991 ।

डी० एस० बिष्ट, 085306 बी, सी० पी० ओ०, पी० टी०
—01 अप्रैल, 1992 ।

बी० सिंह, 103126 बी, एम० ए० ए०—01 अगस्त,
1992 ।

के० एस० मिन्हास, 103724 एन, एम० ए० ए०—01
जून, 1992 ।

आर० के० सिंह, 200002 ए, एम० ए० ए०—01 जुलाई,
1992 ।

के० बावरी, 09428 एन, सी० पी० ओ० आर० (टेक)
10 अप्रैल, 1992 ।

के० भूषण, 096269 डब्ल्यू, सी० पी० ओ० आर० (टैल)
—10 जून, 1992 ।

के० एस० अत्राहम, 096618 एन, सी० पी० ओ० आर०
(टैल)—01 मई, 1992 ।

पी० डुरडराजू, 096796 टी, सी० पी० ओ० आर० (टैल)
—15 मई 1991 ।

बी० सिंह, 103079 वाई, सी० पी० ओ० आर० (टैल)—
01 जून 1992 ।

आर० आर० नायर, 103433 ए, सी० पी० ओ० आर०
(टैल)—01 अक्टूबर, 1992 ।

जे० सिंह, 092910 के, सी० पी० ओ० आर० स्पेशल—
30 अप्रैल, 1992 ।

एल० जी० कुट्टी, 097761 के, सी० पी० ओ० आर०
स्पेशल—01 जुलाई, 1992 ।

आर० करन, 140234 के, सी० पी० ओ० एम० ए० पी० 2
—01 जून, 1992 ।

एस० सिंह, 140499 टी, सी० पी० ओ० एम० ए०, एम०
एस० I—01 जुलाई, 1992 ।

पी० एम० चट्टीगार, 105613 एफ, सी० पी० ओ० राइटर
—01 जून, 1992 ।

पी० एस० पटवाल, 105897 वाई, सी० पी० ओ० राइटर
—15 अप्रैल, 1992 ।

डी० पाण्डुरंगा, 140446 वाई, सी० पी० ओ० राइटर—
10 अप्रैल 1992 ।

यू० सिंह, 058082 एफ, सी० पी० ओ० स्टुवर्ड—05
अप्रैल 1992 ।

आर० कुमार, 140269 डब्ल्यू, सी० पी० ओ० स्टुवर्ड—
10 अप्रैल, 1992 ।

के० वर्गीज, 058150 के, सी० पी० ओ० कुक (एस)—
10 अप्रैल, 1992 ।

एस० एस० गोसाई, 058492 एन, सी० पी० ओ० कुक
(एस)—10 अप्रैल, 1992 ।

डी० दत्त, 068277 ए, सी० पी० ओ० कुक (एस)
—10 अप्रैल, 1992 ।

के० बालाकृष्णन्, 069116 एच, सी० पी० ओ० कुक
(एस)—10 अप्रैल, 1992 ।

एच० सिंह, 069563 जैड, सी० पी० ओ० कुक (एस)
—10 अप्रैल, 1992 ।

पी० वरद राजन, 082147 जैड, सी० पी० ओ० कुक
(एस)—01 अप्रैल, 1992 ।

एच० एन० चौधरी, 082227 एफ, सी० पी० ओ० कुक
(एस)—10 अप्रैल, 1992 ।

डी० पंगम, 082302 ए, सी० पी० ओ० कुक (एस)—
05 अप्रैल, 1992 ।

आर० रत्न, 082383 के, सी० पी० ओ० कुक (एस)—
05 अप्रैल, 1992 ।

के० लाल, 068480 एन, सी० पी० ओ० टाप—01 मई,
1992 ।

आर० एस० राम, 081334 ए, सी० पी० ओ० टाप—
15 अप्रैल, 1992 ।

एन० चांद, 081411 ए, सी० पी० ओ० टाप—10
अप्रैल, 1992 ।

आर० एस० कोंडले, 200737 वाई, सी० एच० ए०, पी०
एच०—01 मई, 1992 ।

ए० कुमार, 201023 वाई, सी० एच० ए० पी० एच
—01 सितम्बर, 1992 ।

पी० वी० थोमस, 202413 एफ, सी० एच० ई० एल० ए०
आर०—01 अप्रैल, 1992 ।

जी० ए० तुकाराम, 202769 आर, सी० एच० ए० एम०
—01 अप्रैल, 1992 ।

जी० एस० पी० राव, 202774 ए, सी० एच० ए० एम०—
01 नवम्बर, 1992 ।

के० चांद 096555 डब्ल्यू, सी० एच० ए० एम० (डब्ल्यू)
—01 अप्रैल, 1992 ।

जे० एस० कुमार, 200070 एफ, सी० एच० ए० एम० (डब्ल्यू)—01 जून, 1992 ।
 डी० बिहरा, 200368 एच, सी० एच० ए० एम० (डब्ल्यू)
 --01 जून, 1992 ।
 बी० पाण्डे, 201686 बी, सी० एच० ए० एम० (डब्ल्यू)
 --01 मई, 1992 ।
 के० एस० वर्मा, 186017 टी, सी० एच० ई० ए० ए०—
 15 अगस्त, 1992 ।
 एच० एस० कम्बो, 190594 डब्ल्यू, सी० एच० ई० ए० ए०
 --01 मई, 1992 ।
 एस० कुमार, 180369 एफ, सी० एच० ई० ए० ए० आर०
 --01 अगस्त, 1992 ।
 जे० लिंगइया, 180383 के, सी० एच० ई० ए० ए० आर०
 --01 अगस्त, 1992 ।
 आर० बी० शिन्दे, 190740 ए, सी० एच० ई० ए० ए०
 आर०—01 अगस्त, 1992 ।
 एस० के० शर्मा, 203698 ए, सी० एच० ई० ए० ए० आर०
 --01 नवम्बर, 1992 ।
 एच० ओ० सिंह, 104837 टी, सी० एच० ई० ए० ए० पी०
 --01 अप्रैल, 1992 ।
 बी० बी० बाबूराव, 200696 बी, सी० एच० ई० ए० ए० पी०
 --05 अप्रैल, 1992 ।
 बी० के० बासक, 200916 बी, सी० एच० ई० ए० ए० पी०,
 --10 अप्रैल, 1992 ।
 के० एस० वेहरा, 104184 एच, सी० एच० ई० ए० ए०
 आर०—12 अप्रैल, 1992 ।
 पी० विश्वनाथन, 105354 टी, सी० एच० ई० ए० ए०
 आर०—05 अप्रैल, 1992 ।
 बी० बी० जोर्ज, 200333 बी, चीफ ई० ए० ए० आर०—
 10 अप्रैल, 1992 ।
 एन० सिंह, 094464 टी, चीफ एम० ई०—15 मई,
 1992 ।
 एस० एन० दास, 0957:9 एन, चीफ एम० ई०—01
 अक्टूबर, 1992 ।
 आर० सी० बेहरा, 097042 ए, चीफ एम० ई०—15
 अक्टूबर, 1992 ।
 बी० एस० यादव, 103511 बी, चीफ एम० ई०—01
 सितम्बर, 1992 ।
 आर० जनार्दनन, 185083 डब्ल्यू, चीफ ई० आर० ए०—
 15 सितम्बर, 1992 ।
 एल० अली, 095177 एन, चीफ मैक०—01 अगस्त,
 1992 ।
 पी० एन० शर्मा, 096369 वाई, चीफ मैक०—01 अगस्त,
 1992 ।

एस० डी० राम, 202639 डब्ल्यू, चीफ ई० ए० पी० (सी)
 --10 अप्रैल, 1992 ।

एम० एन० सुकुमारन
 डैस्क आफिसर

वायु शाखा

सं० 872, दिनांक 19 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति
 निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—
 भारतीय वायुसेना

लेखा शाखा

एयर कोमोडोर से एयर वाइस मार्शल के मूल
 रैंक में

शाम राव, अ० वि० से० मै०, वि० से० मै० (6200),
 लेखा—26 मई, 1993 ।

मौसम विज्ञान शाखा

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :—
 ओ० पी० शर्मा (8617) 1-5-93

ए० एम० सिंह
 सहा० निदेश० कार्मिक (अफसर)/2(ए)

थल सेना विभाग

सं० 873, दिनांक 20 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति, थल
 सेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अफसरों को
 थल सेवा से मुक्त करते हैं :—

नियमित सेवा

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
 (अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन (श्रीमती) सीमा जी० नाथक (डी० एस०—11737
 पी)—22 जून, 1993 ।

कैप्टन शीतल कुमार (डी० एस० 11711 ए)—16
 मई, 1993 ।

कैप्टन अनिल कुमार (डी० एम० 11713 एन)—16
 मई, 1993 ।

कैप्टन प्रसन्नता कुमार सरदार (डी० एस० 11712 एच)
 --16 मई, 1993 ।

कैप्टन जय राम (डी० एस० 11705 एम)—14
 मार्च, 1993 ।

कैप्टन अजय नन्तर काराडे (डी० एस० 11716 वाई)—
 30 जून, 1993 ।

बी० के० सूद
 डिप्टी डी० जी० डी० एस०

सं० 874, दिनांक 20 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति, निम्नलिखित आफिसर को त्रिकिंसा आधार पर अवैध घोषित करके, थलसेना से मुक्ति प्रदान करने हेतु :—

निधमित सेना

ईनिक दस्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कर्मीगत)

ले० कर्नल पी० के० राठी (डी० आर०—10274 वाई)—21 मई, 1993 (अपराह्न) ।

श्री० के० मुद

त्रिग्रेडियर

डिप्टी टी० जी० डी० एम०

विद्युत् एवं यांत्रिक इंजीनियरी कोर

सं० 875, दिनांक 25 अगस्त, 1993—निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिए हुए दिनांक से निर्धारित समय पर सेवा निवृत्त हुए :—

श्री उतनाह सिंह बिष्ट वर्कशॉप अधिकारी ग्रुप 'बी'—31 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

श्री डी० के० मुरखई, ई० एम० ई० अधिकारी (मिथिलिथन)—31 जुलाई, 1993 (अपराह्न) ।

एच० आर० अजूरिया

ई० एम० ई० अधिकारी (मिथ०)

स्थानापन्न जी० डी० ई० एम० ई० (मिथ०)

वायुसेना

सं० 876, दिनांक 20 अगस्त, 1993—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों की तारीख से स्वेच्छा पूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

विंग कमांडर ए० पी० दाया (11360)—31 मई, 1993 (ए० डी०) ।

वैमा० इंजी० (इलैक्ट०) शाखा

विंग कमांडर एम० जे० सिंह (11495)—31 मई, 1993 (ए० डी०) ।

विंग कमांडर ए० के० रैना (12086)—31 मई, 1993 (ए० डी०) ।

विंग कमांडर सी० पालनीवाल (10795)—31 मई, 1993 (ए० डी०) ।

ग्रुप कैप्टन आकरिया भाई (9948)—15 मई, 1993 (ए० डी०) ।

विंग कमांडर जे० पी० तलवार (11744), वैमा० इंजी० (इलैक्ट०)—21 जनवरी, 1992 (ए० डी०) ।

9—254GI/93

विंग कमांडर आर० के० सिंह (11128), वैमा० इंजी० (इलै०)—31 जनवरी, 1993 (ए० डी०) ।

स्क्वाड्रन लीडर पी० सी० अग्रवाल (13307) वैमा० इंजी० (इलै०)—31 जनवरी 1993 (ए० डी०) ।

ग्रुप कैप्टन एम० के० श्रोवर (8017) वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—01 फरवरी 1993 (ए० डी०) ।

ग्रुप कैप्टन वी० ए० एन० देसाई (7110), वैमा० इंजी० (इलै०)—28 फरवरी 1993 (ए० डी०) ।

स्क्वाड्रन लीडर एन० गोपालन (12570) मौसम शाखा—31 नवम्बर, 1992 (ए० डी०) ।

विंग कमांडर के० सी० वर्मा (8588), प्रशासन—30 नवम्बर 1992 (ए० डी०) ।

शिक्षा शाखा

पायलट अफसर एम० के० बाजपायी (21962) प्रशासन—22 दिसम्बर 1992 (ए० डी०) ।

वैमा० इंजी० (इलैक्ट०) शाखा

विंग कमांडर सी० जे० एम० आलुवा (13300) वैमा० इंजी० (इलैक्ट०)—31 मार्च 1993 (ए० डी०) ।

ग्रुप कैप्टन वी० रमानी (6178) प्रशा०—15-2-93 कैप्टन जे० पी० सिंह (13594) प्रशासन—15 फरवरी 1993 (ए० डी०) ।

थल सेना विभाग

शूद्धि-पत्र

सं० 877, तारीख 25 अगस्त 1993—9 जनवरी 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित (पेज सं० 83) रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1203 तारीख 11 दिसम्बर 1992 में शीर्षक 'दि राजपूताना राइफल' उपशीर्षक 'नायब सूबेदार के रैंक में' निम्नलिखित एन० सी० ओ० (अब जे० सी० ओ०) का नाम और ज्येष्ठता इस प्रकार बदली किया जाये :—

2870278 एम—हवलदार सुरता राम जाट के स्थान पर हवलदार सुरता राम जाट पढ़ा जाये ।

हवलदार सतपाल मिह—नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 1992 के स्थान पर 01 फरवरी 1992 पढ़ा जाये ।

16 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित (पेज सं० 155 और 158) रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1225, तारीख 17 दिसम्बर, 1992 में शीर्षक 'दि राजपूताना राइफल' उपशीर्षक 'नायब सूबेदार के रैंक में' निम्नलिखित एन० सी० ओ० (अब जे० सी० ओ०) का सफेकस सं० और नाम इस प्रकार बदली किया जाये :—

हवलदार सतापाला कमरजू—जे० सी० 224400 के स्थान पर जे० सी०—224400 पी पढ़ा जाये ।

2868367 एम—हवलदार धरम पाल के स्थान पर हवलदार धरम पाल पढ़ा जाये ।

9 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1203, तारीख 11 दिसम्बर, 1992 में शीर्षक 'नियमित सेना, उपशीर्षक 'इन्फैन्ट्री' और 'राजपूताना रेजिमेंट' के अन्तर्गत 'नायब सूबेदार के रैंक में' के नीचे :—

के स्थान पर

हवलदार भेष नाथ सिंह (सं० 2872885 ए० अब जे० सी०—220739 एन) —04 फरवरी, 1992

पढ़ा जाये :—

हवलदार भेष नाथ सिंह (सं० 2972885 ए० अब जे० सी०—220739 एन) —04 फरवरी, 1992।

भारत के राजपत्र सं० 1203, दिनांक 11 दिसम्बर, 1992 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना सं० 02, दिनांक 09 जनवरी, 93 में शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री" और "विहार रेजिमेंट के अन्तर्गत" नायब सूबेदार के रैंक के नीचे :—

(प्र) "हवलदार प्रभुदन कुजूर (सं० 4248141 पी अब जे० सी०—222771 वाई), 01 मई, 1991"

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर, 1991 से दी जाएगी) के स्थान पर

"हवलदार प्रभुदन कुजूर (सं० 4248141 पी अब जे० सी०—222771 वाई), —01 मई 1992"

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर, 1991 से दी जाएगी) पढ़ा जाये।

(ब) "हवलदार बालदेव प्रसाद यादव (सं० 4250446 एन अब जे० सी०—222773 के), —27 फरवरी 1992"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी, 1992 से दी जाएगी)" के स्थान पर

"हवलदार बाल देव प्रसाद यादव (सं० 4250446 एन अब जे० सी०—222773 के), —07 फरवरी, 1992"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी, 1992 से दी जाएगी)" पढ़ा जाये।

03 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1389, दिनांक 20 नवम्बर, 1990 में शीर्षक "नियमित सेना", उपशीर्षक

"इन्फैन्ट्री" और "दि कुमाऊं रेजिमेंट" के अन्तर्गत "नायब सूबेदार" रैंक के नीचे :—

सी० एच० एम० पान सिंह रावत (सं० 4160294 डब्ल्यू अब जे० सी०—196582 पी) —01 जनवरी, 1990 के स्थान पर

सी० एच० एम० पान सिंह रावत (सं० 4160294 डब्ल्यू अब जे० सी०—196582 पी) को एक ही जे० सी० नं० दो जे० सी० ओज को दिये जाने के कारण रद्द किया जाता है।

09 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1203, दिनांक 11 दिसम्बर, 1992 में शीर्षक "नियमित सेना", उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री" और "दि कुमाऊं रेजिमेंट" के अन्तर्गत।

नायब सूबेदार के रैंक के नीचे

के स्थान पर—सी० एच० एम० विजय सिंह (नं० 13608957 डब्ल्यू अब जे० सी०—222741 एफ—01 मई, 1992"

पढ़ा जाये—"सी० एच० एम० विजय सिंह (सं० 13608957 डब्ल्यू अब जे० सी०—222741 एफ—21 जुलाई, 1992"

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1992 से दी गई है)

09 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1203, तारीख 11 दिसम्बर, 1992 में शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री" और "4 जी० आर०" के अन्तर्गत "नायब सूबेदार के रैंक" के नीचे :—

"हवलदार कृष्णा बहादुर गुरुंग (सं० 5341328 के अब जे० सी०—6129002 एन) —1 अगस्त, 1992" के स्थान पर "हवलदार कृष्णा बहादुर गुरुंग (सं० 5341328 के अब जे० सी०—612002 पी) —1 अगस्त, 1992" पढ़ा जाये।

19 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1144, तारीख 18 नवम्बर, 1992 में शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री" और "4 जी० आर०" के अन्तर्गत "सूबेदार के रैंक में" के नीचे :—

"नायब सूबेदार भान प्रसाद गुरुंग (जे० सी०—161024 पी) —01 अगस्त, 1992" के स्थान पर "नायब सूबेदार धन प्रसाद गुरुंग (जे० सी०—161024 पी), —01 अगस्त, 1992" पढ़ा जाये।

नरेन्द्र सिंह
डैक अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE
(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 25th September 1993

No. A-38011/6 93-Estt.I.—The President is pleased to permit Shri R. K. Paul, who has been working in the Ministry of Defence (Finance) as Section Officer on ad-hoc basis, to retire voluntarily from Government service with effect from the forenoon of the 9th September, 1993 under the provisions of Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972.

2. Accordingly, the name of Shri R. K. Paul, will be struck off from the strength of this Ministry and transferred to the Pension Establishment with effect from the 9th September, 1993 (FN).

S. K. SUMAN
Asstt. Financial Adviser (E)

INFANTRY SCHOOL, MHOW

No. 860, dated the 25th August 1993.—Shri RC Sharma, Pmt Librarian Grade II is appointed as Officiating Librarian Grade I at Infantry School, Mhow wef 17 Jun 1993.

V. K. KAIN, CSO
GS/MT7

ARMY HEADQUARTERS
(GS BRANCH)

No. 861, dated the 13th August 1993.—The Competent Authority appoints Shri Saroj Prakash Steno Grade 'A' of AFHQ Stenographers' service as Officiating Principal Private Secretary (Gp 'A') (pay scale of Rs. 3000-4500) on long term basis wef 28-2-91; Shri Suraj Prakash will be on probation for a period of two years which may be extended at the description of the Competent Authority.

P. N. MAULIK
Dy. Chief Administrative Officer (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION D.R.D.S.

No. 862, dated the 18th August 1993.—The President is pleased to make the following appointments:—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishments and with effect from the dates shown against their names:—

Shri V. Selvanesan, SC 'B', NSTL, Visakhapatnam—19-11-1992 (F/N).

Shri Giridhari Kumar, SC 'B' RTO (Engrs), Bangalore—5-9-1991 (F/N).

Shri G. P. Sriram, to be temporary Asstt. Project Manager, Chief Construction Engineer (R&D), Secunderabad with effect from 9-9-1991 (F/N).

R. K. SHARMA
Asstt. Director (Pers).

NAVY BRANCH

NAVAL HEADQUARTERS

No. 863, dated the 16th August 1993.—Shri Gurvir Singh, ACSO is appointed as Civilian Staff Officer under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 for a period from 1 Jun 1993 to 25 Oct 1993 or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as stop-gap arrangements and can be terminated without notice for administrative reasons.

P. N. MAULIK
Up Mukhya Prashasan Adhikari (A)

ARMY BRANCH

No. 864, dated the 25th August 1993.—The undermentioned Ex-JCOs are re-employed on the active list in the rank and dates specified:—

REGULAR ARMY
DEFENCE SECURITY CORPS
In the rank of Subedar (GD)

Subedar Som Nath (JC-144819-M), Formerly 01 Dec 1991 The Mech Inf Regt.

Subedar Parmeshari Dass (JC-130607-W), Formerly 07 Mar 1992 The Dogra Regt.

Subedar Anand Singh Negi (JC-112882-N), Formerly 13 June 1992 The Garhwal Rif.

Subedar Bhanwar Singh (JC-128827-F), Formerly 15 June 1992 Armoured Corps.

Subedar Ram Singh Yadava, SM (JC-123528-Y), Formerly 20 July 1992 Regt. of Artillery.

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Tara Chand (JC-169737-P), Formerly 25 Apr 1992 Regt. of Artillery.

Naib Subedar Net Ram (JC-190581-W), Formerly 10 June 1992 Regt. of Artillery.

Naib Subedar Amrik Singh (JC-149989-A), Formerly 13 June 1992 BEG.

Naib Subedar Gian Singh (JC-172801-M) Formerly 13 June 1992 The JAK Rif.

Naib Subedar Ganesh Tamang (JC-151485-L), Formerly 15 June 1992 1/11 Gorkha Rif.

Naib Subedar Surjit Singh (JC-126421-P), Formerly 15 June 1992 The Punjab Regt.

Naib Subedar Balam More (JC-146586-P), Formerly 10 Sep 1992 BEG.

NARENDER SINGH, Desk Officer

(AIR BRANCH)

No. 865, dated the 24th August 1993.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers wef the date stated against their names who were granted permanent commission (on probation) and to promote them to the sub rank of Fg Offr wef the date stated against their names:—

F(P) BRANCH

Plt Offr Sajan Sivaraman (21807), Dennis Nathaniel (21808), Prajul Singh (21809), Abhijit C Gokhale (21811), Raiesh Ranwan (21812), Jay Deep Banerjee (21813), Yogesh Jagannath Joshi (21814), Shreepad Tokkar (21815), Arvind Singh (21816), Ajit Meennath Sapre (21817), Sanjeev Vasistha (21818), Anshudhar (21820), Praveen Prakash (21821), Ranbir Singh (21822), Pinaki Bhowmik (21823), Rajeev Thakran (21824), Sanjay Mahadev Bawle (21826), Baljinder Singh (21827), Mukesh Tewari (21828), Dilip Khurana (21829), Manish Sahdev (21830), Sandeep Singh Gill (21832), Anuj Gupta (21833), Sandeep Singh Chhabra (21834), Jaideep Chakraborty (21835), Praveen Kumar (21836), Gopal Singh Bishen (21837), Sajal Kundu (21838), S Arunachalm (21839), Anil Kumar Dudpuri (21840), Dhceeraj Matang (21841), Jai Mitra (21842), Mahesh Singh Bhandari (21843), Vijay Shankar Rana (21844), Rajan Puri (21846), Rajiv Kumar Choudhary (21847), B. K. Suresh (21848), Sanyam Prerak (21849), Neeraj Singh Yadav (21850), Manish Pahwa

(21851), Harpreet Singh Malhotra (21852), Sachin Kapoor (21853), S. A. Gopal (21854), Tejinder Singh Mattu (21855), Sudhanshu Swami (21856), G. Laxman (21857), Rajesh Walia (21858), Ajay Singh Yadav (21859), Rajesh Mankotia (21860), Bibhuti Prakash (21862), Sandeep Bhargava (21863), Deepak Sharma (21864), Bidyut Ghosh (21865), confirmation wef 13 June 92 promotion wef 13 June 93.

Plt Offr Ananda Mukherjee (21867), Rajesh Narain (21869), Augustine B Raju (21870), Asheesh Prakash (21871), Manish Kumar (21873), Kazi Irfan Ahmed (21875), confirmation wef 13 June 92, Promotion wef 13 June 93.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers wef the date stated against their names who were granted Permanent Commission (On probation) and to promote them to the subs rank of Fg Offr. wef the date stated their names :—

73 NB (F/N BRANCH)

Plt Offr Manish Kumar Sinha (21969), Kamlesh Bahadur Singh (21971), Mahesh N Bhaviyavar (21972), Deepak Kashinath Nerkar (21973), Brijesh Kumar Chauhan (21974), Baljit Singh (21975), Barthelomew John D'Souza (21976), Nagasundram Bhagvathy (21978), Ganne Ram Babu (21979), Kaushik Kumar Ghosh (21980), Rajgepal Lakshminipathy (21981), Mohd Aslam Chaudhary (21982), Naval Saini (21983), Ajay Gairola (21984), Animesh Kumar Singh (21985), Azhagaiah Stellutubin Marcus Selva Ananth (21986), Anurag Gupta (21987), Arit Mahanty (21988), Natraj Balasubramanian (21989), confirmation wef 13 June 92 promotion wef 13 June 93.

H. B. SHARMA, Sqn Ldr.
ADPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 866, dated the 27th August 93.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

AK Shrestha (IC 34589) Inf, SK Mohanty (IC 34623) Arty 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

VK Prasad (IC 37322) AOC 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

PDN Kishore (IC 35774) Sigs., A Mukherji (IC 35777) Arty PD Mazumdar (IC 35897) EME 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

Ashok Madan (IC 38233) Engrs, R Kumar (IC 38237) Engrs 12-6-88 (But for pay and allowances from 4-9-89).

GPS Sandhu (IC 35241) Inf., SV Nathan (IC 35334) Sigs 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

AK Singh (IC 35455) Engrs 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

Avinash Barge (IC 36151) Arty 7-3-91 (But for pay and allowances from 7-9-92).

SS Yadav (IC 37745) AC 29-4-92 (But for pay and allowances from 7-9-92).

NS Sujlana (IC 37629) AOC 30-4-93

SS Rathore (IC 30915) Arty 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

Pankaj Sud (IC 35043) Engrs 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

Ashok Kumar Singh (IC 40656) EME 12-6-91.

D Chotai (IC 41052), DK Rastogi (IC 41063), EME 24-12-91.

SV Gaopande (IC 37863) Engrs 27-10-90.

RK Verma (IC 37864), FME 27-10-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

RP Pande (IC 37701) AOC 14-11-91 (But for pay and allowances from 7-9-92).

MM Kaul (IC 38636) Engrs 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

JS Gill (IC 33176) AOC 7-9-88 (But for pay and allowances from 7-9-92).

Irshad Ahmed (IC 37253) INF 7-9-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

Joginder Pal Singh (IC 40284) EME 23-12-90 (But for pay and allowances from 7-9-92).

LT TO BE CAPT

N Kochar (IC-41132) AC, Alok Raj (IC-41154) Inf, Subhash Chand (IC-41188) Engrs, KV Singh (IC-41194) AC, RS Rawat (IC-41223) Inf, Sanjeev Kumar (IC-41240) Engrs, Chander Puri (IC-41263) EME, Ravi Kumar (IC-41275) Arty, M Mohan Dass (IC-41286) Arty, PK Mehta (IC-41350) Sigs, SB Raj (IC-41361) Arty, C Massey (IC-41378) EME—18 Jun 1988.

M. Adhikari (IC-41174) Inf.—1st Jun 1988 (But for the pay & allowances wef 06 Feb 1989).

Hardayal Singh (IC-41364) EME, B S Shekhawat (IC-41401) Arty, S S Rathore (IC-41422) ASC, Amit Kansal (IC-41423) Arty, G K Singh (IC-41427) Inf.—18 Jun 1988 (But for the pay & allowances wef 06 Feb 1989).

Daya Chand (IC-41518) Inf, R Gupta (IC-41547) Mech Inf, Samir Man Singh (IC-41548) Engrs, R N Ghosh (IC-41567) Arty, A K Sharma (IC-41572) Inf, P S Gupta (IC-41573) Inf, J S Lotay (IC-41591) Arty, A Tewari (IC-41626) Inf, R Pramod (IC-41630) Inf, V Kumar (IC-41639) Arty, A S Sodhi (IC-41647) AC, R K Bali (IC-41650), AC, Ajay Tomar (IC-41654) Sigs, Rajeev Gupta (IC-41655) Arty, A Sharma (IC-41656) AC, A Nanda (IC-41662) AC, V K Khanna (IC-41670) Arty, K K Pant (IC-41689) Inf, J K Sinha (IC-41710) Arty, S Gandotra (IC-41727) Mech Inf, V Mohan (IC-41729) Sigs, R K Mongia (IC-41731) Mech Inf, J A Rocque (IC-41734) Mech Inf—17 Dec 1988.

Sanjay Dutta (IC-41648) Inf, Praveen Sharma (IC-41685) Sigs—17 Dec 1988 (But for the Pay and Allowances wef 06-2-89).

R N P Singh (IC-41460) FME—03 Feb 1991 (But for the Pay & Allowances wef 03 Feb 1992).

B K Sinha (IC-40678) Engrs—03 Feb 1991 (But for the Pay & Allowances wef 03 Feb 1992).

DK Rastogi (IC-41063) EME—24 Dec 1985 (But for the Pay & Allowances wef 15 Jul 1986).

R V V S Jagati (IC-40503) Inf, Ajay Singh (IC-40577) Inf.—12 Jun 1987.

S K Bose (IC-37591) Inf—30 Apr 1985 (But for the Pay & Allowances wef 16 Jul 85).

Jai Prakash (IC-37363) Inf—05 Apr 1989 (But for the Pay & Allowances wef 05-2-90).

M D Mangesh (IC-39796) Arty—20 Mar 1987.

K A K Singh (IC-38786) AC, V S Chhauker (IC-38789) Inf—07 Jun 1985.

S Sarkar (IC-37625) AOC—04 Feb 1990 (But for the Pay & Allowances wef 04 Feb 1991).

A S Ahlawat (IC-39353) AOC—06 Feb 1988 (But for the Pay & Allowances wef 06 Feb 1989).

AS Hundle (IC-39627) Arty, Sudhir Sharma (IC 39717) Engrs—05 Feb 1989 (But for the Pay & Allowances wef 05 Feb 1990).

No. 867, dated the 13th September 1993.—The President is pleased to make the following promotions :—

(REGULAR ARMY)

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Kundan Singh (JC-138385F), 1st June 1993.

Subedar Kasab Nagoji (JC-138353Y), 1st July 1993.

Subedar Dhan Pal (JC-135163F), 1st July 1993.

Subedar Rajendra Prasad Yadav (JC-119902Y), 1st July 1993.

Subedar Ishwar Singh (JC-135118P), 1st July 1993.

Subedar Piara Singh (JC-114222P), 1st July 1993.

Subedar Devinder Singh (JC-118229W), 1st July 1993.

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Subedar Nathu Ram (JC-116542H), 1st July 1993.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Kuldip Singh (JC-193402W), 1st Feb 1993.

Nb Sub Hukam Singh (JC-172151K), 1st Apr 1993.

Nb Sub Indar Mani Singh (JC-183321H), 1st May 1993.

Nb Sub Sumer Singh Yadav (JC-184024F), 1st May 1993.

Nb Sub Ram Bharose (JC-198757L), 1st June 1993.

Nb Sub Laxman Ramchandra Gole (JC-200879W), 1st July 1993.

Nb Sub Jagdish Singh Bhadoria (JC-203312L), 1st July 1993.

Nb Sub Hans Raj (JC-201726Y), 1st July 1993.

Nb Sub Debi Lal Saharan (JC-203913W), 1st July 1993.

Nb Sub Amar Singh (JC-149904Y), 1st July 1993.

Nb Sub Baljit Singh (JC-164890F), 1st July 1993.

Nb Sub Chand Kishore (JC-160647M), 1st July 1993.

Nb Sub Nageendra Singh (JC-181031M), 1st July 1993.

Nb Sub Zulfi Ram (JC-182111W), 1st July 1993.

Nb Sub Satya Dev (JC-184578A), 1st July 1993.

Nb Sub Hanuman Prasad (JC-195158A), 1st July 1993.

Nb Sub Raveendran KK (JC-195084W), 1st July 1993.

Nb Sub Abhai Raj Singh (JC-169701W), 1st July 1993.

Nb Sub Aboo Backer KP (JC-169935A), 1st July 1993.

Nb Sub Shamrao Khasliaba Ghorpade (JC-200308Y), 1st July 1993.

Nb Sub Parma Chand (JC-162682N), 1st July 1993.

Nb Sub Prem Chand (JC-184655K), 1st July 1993.

Nb Sub Vijayan KM (JC-193098X), 1st July 1993.

Nb Sub Harjinder Singh (JC-177864Y), 1st July 1993.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-180439Y), 1st July 1993.

Nb Sub Vijay Rajaram Patil (JC-203301Y), 1st July 1993.

Nb Sub Hari Ram (JC-221521L), 1st July 1993.

Nb Sub Chinnappa Thajan (JC-166997P), 1st July 1993.

Nb Sub Swarn Singh (JC-169755X), 1st July 1993.

Nb Sub Babu Ram (JC-219996W), 1st July 1993.

Nb Sub Darshan Singh (JC-199119Y), 1st July 1993.

Nb Sub Shiv Charan Singh Yadav (JC-223313P), 1st July 1993.

Nb Sub Vinnakota Hanumantha Satyanarayana (JC-149356M), 1st July 1993.

Nb Sub Shrimati Shinde (JC-157531L), 1st July 1993.

Nb Sub Joginder Singh (JC-171342M), 1st July 1993.

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Bhim Bahadur Rai (JC-119816N), 1st July 1993.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Waryam Singh (JC-193599X), 1st Oct 1992.

Nb Sub Udaivir Singh (JC-168254L), 1st Apr 1993.

Nb Sub Alakh Niranjan Singh (JC-169954L), 1st May 1993.

Nb Sub Phuman Singh (JC-181056Y), 1st July 1993.

Nb Sub Champa Lal (JC-151015A), 1st July 1993.

Nb Sub Ram Pukar Sharma (JC-172101Y), 1st July 1993.

Nb Sub Ram Ratan Singh (JC-176233K), 1st July 1993.

Nb Sub Jagadish Singh (JC-157469K), 1st July 1993.

Nb Sub Raghubir Singh (JC-186701M), 1st July 1993.

Nb Sub Rajendra Prasad Tripathi (JC-190582Y), 1st July 1993.

Nb Sub Sant Lal (JC-221129L), 1st July 1993.

Nb Sub Ujer Singh Thapa (JC-203313N), 1st July 1993.

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Ajaypal Singh Bhadoria (JC-200334Y), 1st May 1993.

Nb Sub Matadin Yadava (JC-200341P), 1st May 1993.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-200339X), 1st May 1993.

Nb Sub K Kesavan (JC-186766A), 1st May 1993.

Nb Sub Dass Ram (JC-186769N), 1st June 1993.

Nb Sub Bhagirath Sharma (JC-186583K), 1st July 1993.

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Uday Nath Tiwary (JC-177670W), 1st June 1993.

To be Substantive Subedar (FGA)

Nb Sub Kulwant Singh (JC-182087L), 1st July 1993.

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Roshan Lal Rannot (JC-129838A), 1st Oct 1992.

Subedar Ajaib Singh (JC-133912N), 1st May 1993.

Subedar Ramasamy Vemanna (JC-123482F), 1st June 1993.

Subedar Ramasamy Gurusamy Ramasamy (JC-128637P), 1st June 1993.

Subedar Dan Singh (JC-136265K), 1st June 1993.

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Subedar Charan Singh Baghi (JC-119756K), 1st June 1993.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Jaivir Singh (JC-180463P), 1st Feb 1993.

Nb Sub Menangadda Kunhikrishnan (JC-184640F), 1st Feb 1993.

Nb Sub Parkash Chand (JC-197437K), 1st Feb 1993.

Nb Sub Balwan Singh (JC-162681L), 1st Mar 1993.

Nb Sub Ram Parkash (JC-168236H), 1st Mar 1993.

- Nab Sub Satya Narain Rai (JC-169744L), 1st Mar 1993.
- Nb Sub Pritam Singh (JC-174115X), 1st Mar 1993.
- Nb Sub Gajadhar Singh Kushwah (JC-172707H), 1st Apr 1993.
- Nb Sub Narotam Chand (JC-180573K), 1st Apr 1993.
- Nb Sub Ram Kishan Yadav (JC-184627X), 1st May 1993.
- Nb Sub Pale Ram (JC-178952F), 1st May 1993.
- Nb Sub Ram Parkash (JC-180488F), 1st May 1993.
- Nb Sub Chhaju Ram (JC-178913H), 1st May 1993.
- Nb Sub Balbir Kumar Bakshi (JC-179639H), 1st May 1993.
- Nb Sub Madan Lal (JC-184029A), 1st May 1993.
- Nb Sub MM Ponacha (JC-195274H), 1st May 1993.
- Nb Sub Chanan Singh (JC-190591A), 1st May 1993.
- Nb Sub Balbir Chand (JC-187558X), 1st May 1993.
- Nb Sub Jai Parkash (JC-190728F), 1st May 1993.
- Nab Sub Jarnail Singh (JC-190546N), 1st May 1993.
- Nb Sub N Subramanian (JC-190646Y), 1st June 1993.
- Nb Sub Swaran Singh Kalsi (JC-184658X), 1st June 1993.
- Nb Sub Santokh Raj (JC-193403Y), 1st June 1993.
- Nb Sub Lalji Ram (JC-197444A), 1st June 1993.
- Nb Sub Rama Nand (JC-190635M), 1st June 1993.
- Nb Sub Misri Lal (JC-190551Y), 1st June 1993.
- Nb Sub Parkash Chand (JC-193426A), 1st June 1993.
- Nb Sub Khedekar Manik Sopana (JC-193592N), 1st June 1993.
- Nb Sub Sunil Kumar Modak (JC-195020L), 1st June 1993.
- Nb Sub Deva Ram Jat (JC-197483Y), 1st June 1993.
- Nb Sub Chaman Singh (JC-193136H), 1st June 1993.
- Nb Sub Dharam Singh (JC-197947L), 1st June 1993.
- Nb Sub Gandhi Ram Chauhan (JC-200258X), 1st July 1993.
- Nb Sub Guljari Lal (JC-202614L), 1st July 1993.
- To be Substantive Subedar (AIG)
- Nb Sub Ranjit Singh (JC-200385M), 1st May 1993.
- Nb Sub Krishan Kant Jha (JC-200340M), 1st May 1993.
- Nb Sub Balbir Singh (JC-195702W), 1st June 1993.
- Nb Sub Torase Shripati Tukaram (JC-200335F), 1st June 1993.
- Nb Sub Darshan Singh (JC-186768I), 1st June 1993.
- (To be Nb Sub)
- RHM (AIG) Sanwat Singh (No. 1266646L now JC-225370 P), 04 Jun 92*.
- *(Granted seniority wef 20 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Nanak Chand Dogra (No. 1269439K now JC-225371X), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 20 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Piar Chand (No. 14320610H now JC-225372 A), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 20 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Balbir Singh (No. 14326660K now JC-225373 H), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 20 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Lekh Ram (No. 14328219A now JC-225374 L), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 20 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Tapsi Ram (No. 14339188L now JC-225375 N), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 20 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Ratan Singh (No. 14319517P now JC-225376 W), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 01 May 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Balwinder Singh (No. 14451055W now JC-225377Y), 24 May 92*.
- *(Granted seniority wef 01 May 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Krishan Kumar Yadav (No. 14322274A now JC-225378F), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 01 Jun 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Shis Ram (No. 14338818N now JC-225379 K), 24 Apr 92*.
- *(Granted seniority wef 28 Oct 91 without effect on pay and allowances).
- HAV (OEM) Gopal Singh (No. 14454673M now JC-225380Y), 01 May 92*.
- *(Granted seniority wef 01 Nov 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (TIFC) Jaswant Singh (No. 14327282H now JC-225381F), 24 Apr 92*.
- (Granted seniority wef 14 Dec 91 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Gurnam Singh (No. 1265088H now JC-225382K), 24 Apr 92.
- RHM (AIG) Balbir Singh (No. 1269651F now JC-225383 M), 24 Apr 92.
- RHM (AIG) Jiwan Kumar Gurung (No. 5039579W now JC-225384P), 24 Apr 92.
- RHM (AIG) Mangat Ram (No. 14318999H now JC-225385X), 05 May 92*.
- *(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Gurmeet Singh Sarrow (No. 14321267X now JC-225386A), 24 Apr 92.
- RHM (AIG) Ram Sumer Singh (No. 14323736N now JC-225387H), 24 Apr 92.
- RHM (TIFC) Thanga Raju D (No. 14324309K now JC-225388L), 24 Apr 92.
- RHM (AIG) Sher Singh Yadava (No. 14325109A now JC-225389N), 24 Apr 92.
- RHM (TIFC) Gurbachan Singh (No. 14326272M now JC-225390H), 24 Apr 92.
- RHM (TIFC) Y Venkateswarlu (No. 14330528F now JC-225391L), 23 Jun 92*.
- *(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).
- RHM (AIG) Tejpal Singh (No. 14331075N now JC-225392 N), 24 Apr 92.

RHM (TIFC) Jayawant Babu Katamble (No. 14332607P now JC-225393W), 24 Apr 92.

RHM (TIFC) Mahesh Kumar Rajbanshi (No. 14332876F now JC-225394Y), 10 Jun 92*.

*(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).

RHM (TIFC) S Pethu (No. 14333030M now IC-225395F 06 Jun 92*.

*(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).

RHM (TIFC) Sadasivan KN (No. 14337610Y now JC-225396K), 24 Apr 92.

RHM (TIFC) Mugana Ram (No. 14339845K now JC-225397K), 24 Apr 92.

RHM (AIG) Kila Singh (No. 14348181H now JC-225398P), 24 Apr 92.

RHM (AIG) Jukanti Madhava Reddy (No. 14354642X now JC-225399X), 24 Apr 92.

RHM (AIG) Sarvesh Singh (No. 14356326X now JC-225400F), 24 Apr 92.

RHM (AIG) Munna Singh (No. 14356496F now JC-225401K), 13 Jun 92*.

*(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).

RHM (AIG) Samai Singh Yadav (No. 14451521A now JC-225402M), 24 Apr 92.

RHM (AIG) Rajdev Yadava (No. 14452291K now JC-225403P), 24 Apr 92.

RHM (AIG) P Navalani (No. 14462111 K now JC-225404X), 24 Apr 92.

RHM (FGA) Lalkaji Tamang (No. 11243249X now JC-225405A), 01 May 92.

RHM (TIFC) Balachandran Nair K (No. 14317832M now JC-225406H), 01 Jun 92.

RHM (TIFC) Mashkin Singh (No. 14318358W), now JC-225407L), 03 Jul 92*.

*(Granted seniority wef 01 Jun 92 without effect on pay and allowances).

RHM (TIFC) Sahib Singh Chandail (No. 14326928W now JC-225408N), 01 Jun 92.

RHM Randhir Singh (No. 14451021H now JC-226866W), 01 Mar 93*.

*(Granted seniority wef 01 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 14330532K now JC-226867Y), 30 Jun 92.

Hav Balwant Singh (No. 14451279W now JC-226868F), 30 Jun 92.

Hav Dau Singh, (No. 14309853N now JC-226869K), 14 Aug 92*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Subhash Chander Gothwal (No. 1264069L now JC 226870Y), 13 Nov 92*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav J Selvaraj (No. 1267117L now JC-226871F), 18 Jan 93*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Basavanneppa Mellihalli (No. 14325086K now JC-226872K), 25 Jan 93*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Charan Singh (14323306K now JC-226850L), 01 Oct 92*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh (14453970N now JC-226851N), 17 Jan 93*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Padmasana Kumar KS (1259524Y now JC-226852W), 22 Nov 92*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Baryam Singh (1258273N now JC-226853Y), 02 May 93*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav V Manoharan (1261740L now JC-226854F), 30 Jun 92.

Hav Darshan Singh (1254126N now JC-226855K), 01st Oct 92*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Berkumans Fernando M (14316727K now JC-226856M), 14 Mar 92.

Hav Daya Nand (14328384L now JC-226857P), 26 Mar 93*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

RHM Sukha Singh (1251729Y now JC-226858X 05 Nov 92*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Balkar Singh (14320277P now JC-226951Y), 01 Jan 92.

Hav Birbal Singh (14310287I now JC-226952F), 02 Apr 92*.

*(Granted seniority wef 21 Mar 92 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Shripatt Dadu (14327413H now JC-226953K), 20 Mar 92.

RHM Didar Singh (14307119F now JC-226954M), 01 Feb 93*.

*(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).

RHM Jairam Singh (14320364H now JC-226955P), 22 Jan 93*.

*(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).

RHM Devi Prasad (14322409W now JC-226956X), 22 Jan 93*.

*(Granted seniority wef 24 Apr 92 without effect on pay and allowances).

Hav Nand Singh (14456664K now JC-226957A), 30 Jun 1992.

BHM Abhey Singh (14322356H now JC-226958H), 01 Jun 92.

Hav Prabhakaran Nair (13856273W now JC-226959L), 28 Apr 93*.

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Mahendra Pratap Singh (1269205A now JC-226960A), 18 Feb 93.*

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Lal (1263370P now JC-226961H), 10 May 93.*

*(Granted seniority wef 30 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav Mohinder Singh (14327351N now JC-255315N), 01 Jul 92.

RHM Ram Kumar (14455440X now JC-255316W), 02 Aug 92.*

*(Granted seniority wef 01 Jul 92 without effect on pay and allowances).

BHM Amarjit Singh (14321618F now JC-255317Y), 09 Jul 92.

BHM Pulin Kumar Mandal (6904539H now JC-255318F), 01 Aug 92.

Hav Dharam Pal (1265717P now JC-255319K), 01 Aug 92.

BHM Hem Singh (14331650K now JC-255320Y), 01 Aug 92.

Hav Bakul Chandra Deka (14311399X now JC-255321F), 17 Nov 92.*

*(Granted seniority wef 01 Aug 92 without effect on pay and allowances).

BHM Ramesh Chand Dhatwalia (14318884P now JC-255322K), 07 Aug 92.

Hav Om Parkash (1250240N now JC-255323M), 06 Nov 92.*

*(Granted seniority wef 01 Sep 92 without effect on pay and allowances).

Hav Krishan Kumar (14326603H now JC-255324P), 01 Sep 92.

Hav P Arul Vasagam (14328577L now JC-255325X), 01 Sep 92.

BHM Shiv Lal (14307245N now JC-255326A), 01 Oct 92.

Hav Satnam Singh (14318462K now JC-255327H), 01 Oct 92.

Hav Hardeep Singh Kanwar (14308427N now JC-255328L), 01 Oct 92.

BHM Reghuvaran Nair G (14313949N now JC-255329N), 28 Oct 92.*

*(Granted seniority wef 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

BHM Ganpat Singh (1262976M now JC-255330H), 01 Oct 92.

BQMH Mathew Thomas M (14333426W now JC-255331I), 19 Nov 92.*

*(Granted seniority wef 01 Nov 92 without effect on pay and allowances).

Hav Prabhakaran KG (14350511P now JC-255332N), 27 Feb 93.*

*(Granted seniority wef 01 Nov 92 without effect on pay and allowances).

Hav Raghu Nath (14319843X now JC-255333W), 07 Nov 92.

RHM Kirpal Singh (14316212K now JC-255334Y), 21 Apr 93.*

*(Granted seniority wef 13 Nov 92 without effect on pay and allowances).

Hav Chaman Lal (14310352A now JC-255335F), 22 Nov 92.*

*(Granted seniority wef 15 Nov 92 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Dayal Sharma (14307956N now JC-255336K), 20 Nov 92.

Hav Bijendra Singh (14317760N now JC-255337M), 14 Dec 92.*

*(Granted seniority wef 30 Nov 92 without effect on pay and allowances).

Hav IS Chelladu Rai (14327298N now JC-255338N), 30 Nov 92.

Hav Balraj K (14454844N now JC-255339X), 30 Nov 92.

Hav V Vijaya Raghavan (14317090X now JC-255340M), 30 Nov 92.

Hav Ram Swaroop (14304447K now JC-255341P), 01 Dec 92.

Hav Manphool Singh (14331125N now JC-255342X), 01 Dec 92.

RHM Ajaib Singh (14335993X now JC-255343A), 20 Dec 92.*

*(Granted seniority wef 01 Dec 92 without effect on pay and allowances).

BHM Sawaran Singh (1257041H now JC-255344H), 01 Jan 93.

Hav Piar Chand (1264462N now JC-255345L), 01 Jan 93.

BHM Rattan Singh (14323663M now JC-255346N), 01 Jan 93.

Hav Makhan Singh (1251789N now JC-255347W), 04 Jan 93.*

*(Granted seniority wef 01 Jan 93 without effect on pay and allowances).

BQMH Chandra Singh Bankoti (1262230W now JC-255348Y), 01 Feb 93.

Hav Gulzar Singh (14316060N now JC-255349F), 01 Mar 93.

BHM Chhatar Pal Singh (14302817A now JC-255350W), 01 Mar 93.

BHM Prasanna Kumar C (14343727N now JC-255351Y), 01 Mar 93.

BHM Hanuman Singh (1262930K now JC-255352F), 01 Apr 93.

Hav Balbir Singh (14456408P now JC-255353K), 01 Apr 93.

Hav Rameshwar Dayal (1264261P now JC-255354M), 01 Apr 93.

To be Nb Sub (Clks GD/SKST)

Hav (Clk) Korla Uma Maheswara Rao (No. 1256980Y now JC-255229H), 22 Jan 1993.

Hav (Clk) Waryam Chand (No. 1259406L now JC-255230X), 22 Jan 1993.

Hav (Clk) Ram Kumar (No. 1267226X now JC-255231A), 22 Jan 1993.

Hav (SKT) Parshotam Narayan Shukla (No. 14311200L now JC-255232H), 22 Jan 1993.

Hav (SKT) Sasi Kumar PG (No. 14312542I now JC-255233L), 01st Feb 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 22 Jan 93 without effect on pay and allowances).

Hav (SKT) Ram Singh (No. 1259578A now JC-255234N), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) Inder Singh (No. 1269695Y now JC-255235W), 03rd Feb 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 93 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) More Prakash Babu Rao (No. 1269726N now JC-255236Y), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) M Venu (No. 1269730W now JC-255237F), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) Bagane Rajaram Sakharam (No. 1269768A now JC-255238K), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) Rajesh Singh Rana (No. 1269783P now JC-255239M), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) M Subramanian (No. 1269786H now JC-255240F), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) C Ignacy (No. 1269794F now JC-255241K), 01st Feb 1993.

Hav (SKT) Darshan Singh (No. 14312452K now JC-255242M), 06th Feb 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 93 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Shayam Sunder (No. 14327213M now JC-255243P), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) Yamuna Prasad Pandey (No. 14327224Y now JC-255244X), 01st Feb 1993.

Hav (Clk) Chandan Kumar Sumanta (No. 14327234H now JC-255245A), 01st Feb 1993.

Hav (SKT) Padam Singh (No. 1259597L now JC-255246H), 01st Mar 1993.

Hav (Clk) Subhash Chander Yadav (No. 1269881P now JC-255247L), 01st Mar 1993.

Hav (Clk) D Sivapragasam (No. 14327303N now JC-255248N), 01st Mar 1993.

Hav (Clk) K Shanmugam Naidu (No. 14327305Y now JC-255249W), 04th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 93 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Padmanabhan S (No. 14327313N now JC-255250L), 01st Mar 1993.

Hav (Clk) Gurbachan Singh (No. 14327344X now JC-255251N), 01st Mar 1993.

Hav (Clk) Ashok Kumar (No. 14327350L now JC-255252W), 01st Mar 1993.

Hav (Clk) Baldev Singh (No. 14327353Y now JC-255253Y), 01st Mar 1993.

Hav (Clk) Raghavan Mangattil (No. 14327414L now JC-255254F), 01st Mar 1993.

Hav (SKT) Sant Prasad (No. 1259672K now JC-255255K), 01st Apr 1993.

Hav (Clk) Mohite Harishandra Shripati (No. 1269704P now JC-255256M), 01st Apr 1993.

Hav (Clk) A Rajendran (No. 1269892F now JC-255257P), 08th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 93 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Dharam Pal (No. 14327429M now JC-255258X), 01st Apr 1993.

(INFANTRY)

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Nb Sub

Hav Avtar Singh (No. 3372325L now JC-402023N), 02nd Aug 1992.

Hav Gangadharan VP (No. 13672664F now JC-402038W), 07th Nov 1992.

Hav Mohanan Nair B (No. 8024612N now JC-402039Y), 01st Dec 1992.

Hav Vijay Singh (No. 13672516W now JC-402040N), 31st Jan 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 03rd Dec 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Sadanandan D (No. 13673868A now JC-402041W), 26th Dec 1992.

Hav Niharendu Kumar Mondal (No. 13669527X now JC-402042Y), 11th Jan 1993.

10—254 GI/93

Hav O Har Kumar Singha (No. 13672309K now JC-402043F), 19th Jan 1993.

Hav Kulbir Singh (No. 13667846L now JC-402044K), 03rd Feb 1993.**

** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 22nd Jan 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Basant Singh (No. 13670623Y now JC-402045M), 01st Feb 1993.

Hav Harikesh (No. 13670708P now JC-402046P), 23rd Mar 1993.***

*** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st Feb 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Jaspal Singh (No. 13675695M now JC-402047X), 05th Apr 1993.@

@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 14th Feb 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Kanta Prasad Yadav (No. 13671271Y now JC-402048A), 01st Mar 1993.

Hav Kailash Prasad (No. 13670622W now JC-402049H), 08th Mar 1993.

Hav Kunwar Bahadur Singh (No. 13670749Y now JC-402050X), 08th Mar 1993.

Hav Kashi Ram (No. 13670770F now JC-402051A), 01st Apr 1993.

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Satpal Singh (No. 14906433A now JC-402052H), 07th Apr 1993.

THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jaswant Singh (No. 2466927F now JC-428024N), 02nd Dec 1992.

Hav Banarsi Dass (No. 2462915P now JC-428025W), 21st Jan 1993.

Hav Harbans Singh (No. 2465968Y now JC-428026Y), 11th Mar 1993.

(Granted ante date of seniority wef 24th Feb 93 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdev Singh (No. 2459928F now JC-428027F), 01st Mar 1993.

Hav Priram Singh (No. 2464489L now JC-428028K), 01st Apr 1993.

Hav Kulwant Singh (No. 2462621F now JC-428029M), 01st Apr 1993.

Hav Rawal Singh (No. 2465546N now JC-428030F), 01st Apr 1993.

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Nathuram (No. 3168724N now JC-438092P), 1st Dec 1992.

Hav Prasada Rao Odugu (No. 2574424A now JC-438093X), 1st Apr 1993.

Hav S Raju (No. 2579648K now JC-438094A), 1st Apr 1993.

Hav Dominic K Thomas (No. 2580835P now JC-438095H), 7th Apr 1993.

Hav Hariharan P (No. 2581136W now JC-438096L), 3rd June 1993.

Hav MB Unni Krishnan Nair (No. 2578570X now JC-438097N), 3rd June 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) A Mariadass (No. 2574946W now JC-438098W), 1st June 1993.

To be Nb Sub

Hav Radhakrishnan KS (No. 2575138L now JC-438099Y), 26th Oct 1992.

Hav Veluchamy Varatharaj (No. 2572058M now JC-438100H), 27th June 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15th Apr 1993 without effect on pay and allowances).

THE MARATHA LI

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Patan Tajuddin (No. 2770060L now JC-458030W), 01st May 1993.

To be Nb Sub

Hav Bamane Ashok Joti (No. 2771856N now JC-458031Y), 14th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Dec 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Lushte Babaji Ramu (No. 2767920H now JC-458032F), 16th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 29th Dec 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Jagtap Pandurang Vithalrao (No. 2772364F now JC-458033K), 25th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Kudale Ramdas Nivrutti (No. 2768186M now JC-458034M), 28th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 18th Sep 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Parle Ashok Bandu (No. 2771238H now JC-458035P), 22nd May 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12th Dec 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Vishwa Prakasha TN (No. 2772786M now JC-458036X), 02nd Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Mar 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Satale Shivaji Ekanath (No. 2771717K now JC-458037A), 03rd Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25th Oct 1992 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Amar Nath Prasad (JC-458038H), 20th Feb 1993.

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Survase Rajkumar Apparao (No. 2771211L now JC-458039L), 01st May 1993.

Hav Shinde Vithal Sadashiv (No. 2769668N now JC-458040A), 25th May 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09th Mar 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Shelar Dhondu Vithoba (No. 2770461H now JC-458041H), 25th May 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09th Mar 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Algude Rajeshkumar Baburao (No.2766822W now JC-458042L), 25th May 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09th Mar 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Bhanudas Namdeo Chavan (No. 22774898L now JC-458043N), 03rd June 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st November 1992 without effect on pay and allowances.)

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Hawa Singh (No. 2667664K now JC-448059L), 1st May 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Man Singh Bhandari (No. 2665356L now JC-448060A), 1st May 1993.

To be Nb Sub

Hav Ram Lal (No. 2666502M now JC-448063N), 18th Apr 1993.

Hav Bhanwaru Khun (No. 2664040M now JC-448064W), 1st Jun 1993.

Hav Sarwar Ali (No. 22666832L now JC-448065Y), 1st Jul 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Ajit Singh (No. 2665511F now JC-448066F), 1st Jun 1993.

THE RAJ RIF

To be Nb Sub

Hav Nihal Chand Jat (No. 2870272L now JC-468059K), 1st Mar 1993.

Hav Rohitashv Singh (No. 2870480A now JC-468059M), 27th Mar 1993.

Hav Kailash Singh Shekhawat (No. 2867810H now JC-468060F), 1st Apr 1993.

Hav Jabar Singh (No. 2868254K now JC-468051K), 18th Apr 1993.

Hav Rohtas Kumar (No. 2868512Y now JC-468062M), 1st May 1993.

Hav Jagdish Prasad (No. 2869979W now JC-468063P), 1st May 1993.

Hav Rattan Singh (No. 2864656K now JC-468064X), 12th May 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ram Prakash (No. 2865698H now JC-468065A), 1st May 1993.

Hav Clk Thomas Mathew (No. 14518968M now JC-468066H), 12th May 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st May 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Suresh Kumar (No. 2868760P now JC-468067L), 1st May 1993.

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mahavir Singh Sharma (No. 2973130N now JC-478062A), 1st Jan 1993).

Hav Chaman Lal Nagar (No. 2966009X now JC-478063H), 13th Jan 1993.

Hav Girish Babu (No. 2973841N now JC-478064L), 1st Feb 1993.

Hav Rajesh Kumar Sharma (No. 2974411W now JC-478065N), 1st Mar 1993.

Hav Harkesh (No. 2974536N now JC-478066W), 1st Mar 1993.

Hav Harmesh Lal (No. 2974087K now JC-478067Y), 1st Mar 1993.

Hav Ghisa Ram Siradna (No. 2971602A now JC-478068F), 24th Apr 1993.

Hav Barahmjit (No. 2974599W now JC-478069K), 1st June 1993.

Hav Mam Chand (No. 2972813P now JC-478070Y), 1st June 1993.

Hav Krishan Lal (No. 2970873L now JC-478071F), 1st June 1993.

THE JAT REGT

To be Nb Sub

Hav Sunehra Singh (No. 3164993H now JC-488040P), 1st Mar 1993.

Hav Sukhvir Singh (No. 3160438X now JC-488041X), 24th Apr 1993.

Hav Suraj Bhan (No. 3167760M now JC-488042A), 19th May 1993.

Hav Sanwal Ram (No. 3167096X now JC-488043H), 1st June 1993.

Hav Hawa Singh (No. 3164489H now JC-488044L), 1st July 1993.

Hav Gurdial Singh (No. 3165366H now JC-488045N), 1st July 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ram Phal Kalher (No. 3167727P now JC-488046W), 1st July 1993.

Hav Clk Om Parkash (No. 3167745X now JC-488047Y), 1st July 1993.

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Tarlok Singh (3372522N now JC-498066X), 09 Apr 93.

Hav Gurmit Singh (3372697W now JC-498067A), 09 Apr 93.

Hav Sarabjit Singh (3372826L now JC-498068H), 08 May 93.

Hav Suba Singh (3372870P now JC-498069L), 01 Jun 93.

Hav Joginder Singh (3377427L now JC-498070A), 01 Jun 93.

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Harpal Singh (No. 4455464K now JC-508037Y), 15th July 1992.

Hav Surjit Singh (No. 4460944X now JC-508038F), 18th Dec 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 5th Nov 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Sudagar Singh (No. 4460449Y now JC-508039K), 1st Dec 1992.

Hav Gurmukh Singh (No. 4453277M now JC-508040Y), 29th Mar 1993.

Hav Jeevan Singh (No. 4457192N now JC-508043M), 1st June 1993.

To be Nb Sub (Clerk) (GD)

Hav Clk Baldev Singh 'Azad' (No. 4454909Y now JC-508041F), 1st Apr 1993.

Hav (Clk) Surjit Singh (No. 4454898X now JC-508042K), 1st May 1993.

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Alam Singh Koteri (No. 4054358L now JC-528029F), 1st Jan 1993.

Hav Yashpal Singh (No. 4057825H now JC-528030W), 1st Jan 1993.

Hav Kalam Singh (No. 4056452N now JC-528031Y), 1st Jan 1993.

Hav Kunwar Singh (No. 4050555W now JC-528032F), 1st Jan 1993.

Hav Bhagwati Prasad (No. 4054874A now JC-528033K), 1st Jan 1993.

Hav Matbar Singh Rawat (No. 4055294X now JC-528034M), 1st Jan 1993.

Hav Khim Singh (No. 4053650N now JC-528035P), 1st Jan 1993.

Hav Parshotam Chand (No. 13736559P now JC-528036X), 1st Jan 1993.

Hav Prem Singh Rawat (No. 4056384L now JC-528037A), 2nd Jan 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Biseshwar Prasad (No. 4056041P now JC-528028Y), 5th Feb 1993.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Chatar Singh Negi (No. 4053894F now JC-528038H), 1st Feb 1993.

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

CHM Rajendra Singh Nagarkoti (No. 4169219N now JC-538062M), 1st July 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Moola Ram Verma (No. 4165092Y now JC-538049H), 27 Dec 1992.

Hav (Clk) Nawab Singh Thenua (No. 4165244P now JC-538051A), 21 Apr 1993.

To be Nb Sub

Hav Ramesh Kumar (No. 4166898L now JC-538063P), 17th June 1993.*

*(Granted ante date seniority wef 01 June 1993 without effect on pay and allowances).

CHM Ram Khilawan (No. 4170097F now JC-538064X), 19th June 1993.*

*(Granted ante date seniority wef 01 June 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Autar (No. 4163514A now JC-538070L), 1st July 1993.

Hav Bidhya Dhar Kandpal (No. 4166229N now JC-538066H), 1st July 1993.

Hav Gajender Singh (No. 4171217F now JC-538067L), 1st July 1993.

Hav Kunwar Singh (No. 4166614A now JC-538068N), 1st July 1993.

Hav Shankar Datt (No. 4165027Y now JC-538061K), 1st July 1993.

THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Thueswar Saikia (4346476M now JC-548039M), 29 Sep 1992.

Hav Kamal Singh Pathania (13732775L now JC-548037F),
01 Jan 1993.

Hav Rabindra Nath Roy (4349396W now JC-548040F),
10 Jan 1993.

Hav S Ramanna (2577436A now JC-548038K), 18 Feb
1993.

Hav Badal Chandra Biswas (4349430L now JC-548041K),
24 Mar 1993.

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Jo, Mani Singha (4348660M now JC-548035W),
17 May 1993.

*(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub
without effect on pay and allowances wef 01 Jan 93).

Hav/Clk, Suryya Kanta Bordoloi (4348661P now JC-
548036Y), 06 May 1993.@

@(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub
without effect on pay and allowances wef 01 Feb 93).

JAK RIF

To be Naib Subedar (GD)

Hav Onkar Singh (13738175Y now JC-578116L), 1st Apr
1993.

Hav Duni Chand Sharma (13736238X now JC-578117N),
1st Apr 1993.

Hav Roop Singh Chandel (13736482X now JC-578118W),
1st Apr 1993.

Hav Kulbir Singh Rana (13739460K now JC-578119Y),
16th Apr 1993.

Hav Darshan Chand (13736703Y now JC-578120N), 25th
Apr 1993.

Hav Ramesh Chand (13734434Y now JC-578121W), 2nd
May 1993.

Hav Kehar Singh (13734439X now JC-578122Y), 8th Jun
1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 May
1993 without effect on pay and allowances).

Hav Sunder Lal (13736317M now JC-578123F), 1st Jun
1993.

Hav Rup Lal (13734527N now JC-578124K), 1st Jun
1993.

Hav Prem Chand (13734542N now JC-578125M), 1st
Jun 1993.

11 GR

To be Nb Sub

Hav Indra Singh Pradhan (9413614II now JC-634026Y),
2nd Jun 1993.

Hav Yash Bahadur Limbu (9415766H now JC-634027F),
1st Feb 1993.

Hav Shyam Kumar Rai (9414056Y now JC-634028K),
1st Apr 1993.

Hav Sankhar Bahadur Rai (9412696K now JC-634029M),
1st Jun 1993.

1 GR

To be Nb Sub

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 5038568X now JC-602014
W), 20th Jun 1993.

4 GR

To be Nb Sub

Hav Tirtha Bahadur Pun (No. 5341051W now JC-612012
Y), 30th May 1993.

5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Man Bahadur Gurung (No. 5446767N now JC-
617013L), 28th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f.
01 Apr 1993 without effect on pay and allowances).

8 GR

To be Nb Sub

Hav EK Bahadur Gurung (No. 5745553K now JC-623006
L), 06th Feb 1993.

Hav Kumar Bahadur Ghale (No. 5746931K now JC-
623007N), 06th Feb 1993.

Hav Chandra Shamsher Pradhan (No. 5747076M now
JC-623008W), 06th Feb 1993.

Hav Man Bahadur Thapa (No. 5747009F now JC-623009
Y), 06th Feb 1993.

Hav Rem Bahadur Thapa (No. 5747561F now JC-
623010F), 06th Feb 1993.

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav K M Sethuraman (No. 13611072F now JC-412016L),
01 Oct 1992.

Hav Diwan Singh (No. 13610141A now JC-412015H),
15 Oct 1992.

Hav Trilok Singh (No. 13607962K now JC-412017N), 01
Jan 1993.

Hav Sohan Singh (No. 13607959K now JC-412018W), 01
Jan 1993.

Hav Bhagat Singh (No. 13609394H now JC-412019Y), 01
Jan 1993.

Hav Singh Bahadur Gurung (No. 13609564F now JC-
412020N), 01 Jan 1993.

Hav Chet Bahadur Pun (No. 13609774F now JC-412021
W), 16 Jan 1993.

Hav Hajar Singh (No. 13608449P now JC-412022Y), 16
Jan 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Janardan Sharma (No. 13609148X now JC-
412014A), 01 May 1993.

THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Raghbir Singh (No. 2465456M now JC-428031K),
01st June 1993.

(Granted ante date of seniority w.e.f. 10th Jan 1991
without effect on pay and allowances).

Hav Keshav Ram (No. 2464767N now JC-428032M),
30 Mar 1993.

(Granted ante date of seniority w.e.f. 11th Jan 1993
without effect on pay and allowances).

Hav Beet Singh (No. 2463156M now JC-428033P), 23rd
Feb 1993.

Hav Devki Nand Kalta (No. 2464523A now JC-428034
X), 02nd Mar 1993.

Hav Baldev Singh Thakur (No. 2466942W now JC-
428035A), 16th Mar 1993.

Hav Bali Ram (No. 2461381H now JC-428036H), 05th
May 1993.

Hav Karnail Singh (No. 2466299X now JC-428037L),
01st June 1993.

Hav Joginder Paul Paliat (No. 2464641N now JC-428038
N), 01st June 1993.

Hav Ajmer Singh (No. 2465844K now JC-428039W), 17th
June 1993.

Hav Hans Raj (No. 2464565M now JC-428040L), 22nd
June 1993.

Hav Dalbir Singh (No. 2462611X now JC-428041N), 01st
July 1993.

Hav Jagir Singh (No. 2466378M now JC-428042W), 01st July 1993.

Hav Sajjan Singh (No. 2465789Y now JC-428043Y), 01st July 1993.

Hav Ajit Singh (No. 2463953X now JC-428044F), 12th July 1993.

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Bhaskaran P (No. 2577258H now JC-438102N), 8th July 1993.

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Misal Saheba Narayan (No. 2766040A now JC-458044W), 09th Mar 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Dec 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Lonkar Balasaheb Chandu, SM (No. 2766315H now JC-458045Y), 06th Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Dhekane Ekanath Bhiku (No. 2766643W now JC-458046F), 08th Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Mandrulkar Laxman Ekanath (No. 2766624L now JC-458047K), 16th Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Chandrakant Tukaram Deshmukh (No. 2765138F now JC-458048M), 28th Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 11th Jan 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Bhore Laxman Govindrao (No. 2773305F now JC-458049P), 30th Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Jun 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Kadam Sahebrao Dattu (No. 2770250X now JC-458050K), 01st Jul 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27th Aug 1992 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Patil Ashok Ganapati (No. 2770177K now JC-458051M), 01st Jul 1993.*

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Gurdial Singh Mina (No. 2662061K now JC-448067K), 20th Jan 1993.

Hav Nasiruddin Khan (No. 2668852X now JC-448068M), 25th Apr 1993.

Hav Bhim Singh (No. 2664473K now JC-448069P), 13th Jul 1993.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01st Jul 1993 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Amar Singh Chauhan (No. 2665603N now JC-448070K), 1st Jul 1993.

Hav/Clk Krishan (No. 2665615H now JC-448071M), 1st Jul 1993.

THE RAJ RIF

To be Nb Sub

Hav Hari Singh Rathore (No. 2870736X now JC-468068N), 1st Feb 1993.

Hav Dalpat Singh (No. 2870815M now JC-468069W), 22nd Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 2nd Mar 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 2869794P now JC-468070L), 6th Apr 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 30th Mar 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh Rarh (No. 2867155P now JC-468071N), 15th Apr 1993.

Hav Madan Singh (No. 2869745M now JC-468072W), 10th May 1993.

Hav Mahipal Singh (No. 2870233M now JC-468073Y), 17th May 1993.

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Bhagwana Ram (No. 3164807F now JC-488048F), 28th Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 27th Jun 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh (No. 3161229M now JC-488049K), 1st Jul 1993.

Hav Hans Raj (No. 3165113N now JC-488050Y), 4th Jul 1993.

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Gudev Singh (No. 3373421M now JC-498072L), 18th Apr 1993.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Bachan Singh (No. 3373337M now JC-498073N), 31st May 1993.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Bakshish Singh (No. 3374319W now JC-498074W), 1st July 1993.

Hav Sukhdev Singh (No. 3375728W now JC-498075Y), 1st July 1993.

Hav Darshan Singh (No. 3374100F now JC-498076F), 1st July 1993.

Hav Jodh Singh (No. 3375202K now JC-498077K), 22nd July 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Sucha Singh (No. 3372425W now JC-498078M), 1st Aug 1993.

THE NAGA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav S K Lomar (No. 14700493P now JC-590004X), 8th July 1993.

CHM Prem Singh (No. 4164150L now JC-590005A), 8th July 1993.

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ranbir Singh (No. 3971022F now JC-518057A), 1st Jan 1993.

Hav Ram Singh Pal (No. 3968613X now JC-518058H), 4th Jan 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Jan 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Todar Mal (No. 3969043Y now JC-518059L), 1st Feb 1993.

Hav Kuran Singh (No. 3970070P now JC-518060A), 1st Feb 1993.

Hav Maggar Singh (No. 3971599F now JC-518061H), 1st July 1993.

Hav Jagdish Chand (No. 3969713P now JC-518062L), 1st July 1993.

Hav Dila Ram (No. 3969799Y now JC-518063N), 1st July 1993.

Hav Wakil Singh Chib (No. 13610478H now JC-518050W), 6th Jan 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Jan 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Hardayal Singh (No. 2864488W now JC-518051Y), 22nd Apr 1993.

Hav Jaswant Singh Dhatwalia (No. 3968004N now JC-518052F), 4th Jun 1993.

Hav Anchal Singh (No. 3968102N now JC-518053K), 20th Jun 1993.

Hav Madan Lal (No. 3968129L now JC-518054M), 1st July 1993.

Hav Kulwant Singh (No. 3969372P now JC-518055P), 1st July 1993.

Hav Nasib Singh (No. 3970211Y now JC-518056X), 1st July 1993.

Hav Ramesh Chand (No. 3972060K now JC-518064W), 20th May 1993.

Hav Tilak Raj (No. 3968610K now JC-518065Y), 15th July 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st July 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Singh Saklani (No. 3972175X now JC-518066F), 1st July 1993.

Hav Sawaran Singh Jasrotia (No. 3969112K now JC-518067K), 1st Aug 1993.

Hav Rajinder Singh Chauhan (No. 3969172Y now JC-518068M), 1st Aug 1993.

Hav Jagdish Chand (No. 3969800H now JC-518069P), 1st Aug 1993.

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Bachi Singh (No. 4165545F now JC-538069W), 1st July 1993.

Hav Kundan Singh Karki (No. 4166755Y now JC-538071N), 1st July 1993.

Hav Lachham Singh (No. 4168003A now JC-538072W), 1st July 1993.

Hav Sunder Singh Aithani (No. 4166536K now JC-538073Y), 1st July 1993.

Hav Gopal Singh (No. 4166862M now JC-538074F), 1st July 1993.

Hav Bhawan Singh (No. 4166233P now JC-538075K), 1st July 1993.

CHM Om Prakash (No. 4166800M now JC-538077P), 13th Mar 1993.

Hav Kishan Singh (No. 4171059X now JC-538076M), 22nd Apr 1993.

Hav Diwan Ram (No. 4164697M now JC-538080P), 1st July 1993.

Hav Dev Singh Kholiya (No. 4167227N now JC-538078X), 6th Aug 1993.*

*(Granted ante date seniority w.e.f. 01 Jul 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Khushal Singh (No. 4166946A now JC-538081X), 22nd July 1993.

Hav Ram Singh (No. 4165057W now JC-538079A), 16 Aug 1993.*

*(Granted ante date seniority w.e.f. 01 Aug 1993 without effect on pay and allowances).

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Lakshaman Mahto (No. 4250072H now JC-558053M), 23th Dec 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Govind Prasad Singh (No. 4253443L now JC-558054P), 1st Jan 1993.

Hav Chandru Shekhar Sharma (No. 4253643F now JC-558055X), 14th Mar 1993.

JAK RIF

To be Naib Subedar (GD)

Hav Hari Saran (No. 13735355W now JC-578126P), 1st Jun 1993.

Hav Chhabi Lal Khattri (No. 13739610P now JC-578127X), 1st Jul 1993.

Hav Gurmit Singh (No. 13737180X now JC-578128A), 1st Jul 1993.

Hav Madan Lal (No. 13738008H now JC-578129H), 1st Jul 1993.

Hav Om Parkash (No. 13736336X now JC-578130X), 1st Jul 1993.

Hav Bahadur Singh (No. 13736220F now JC-578131A), 1st Jul 1993.

Hav Hem Singh (No. 13735934H now JC-578132H), 1st Jul 1993.

Hav Janak Raj Khajuria (No. 13735840L now JC-578133J), 1st Jul 1993.

Hav Gurdial Singh (No. 13736721H now JC-578134N), 1st Jul 1993.

Hav Yodh Raj (No. 13736679N now JC-578135W), 1st Jul 1993.

Hav Kamal Singh (No. 13737362L now JC-578136Y), 1st Jul 1993.

Hav Surain Singh (No. 13738056H now JC-578137F), 1st Jul 1993.

Hav Shamsher Singh (No. 13735652K now JC-578138K), 12th Jul 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 7th Feb 1993 without effect on pay and allowances).

JAK LI

To be Nb Sub (Clks)

Hav(Clk) Jagdish Chander (No. 9079667N now JC-592055K), 01 Aug 1992.

Hav (Clk) Darshan Kumar (No. 9079668W) now JC-592056M), 01 Sep 1992.

I GR

To be Nb Sub

Hav Gokarna Kesar Thapa (No. 5039891Y now JC-602015Y), 1st Jul 1993.

Hav Dhak Bahadur Thapa (No. 5039326F now JC-602016F), 1st Jul 1993.

II GR

To be Nb Sub

Hav Suraj Kumar Rai (No. 9412605P now JC-634030F), 01 Feb 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Jan 1993).

Hav Padam Bahadur Limbu (No. 9414660K now JC-634031K), 01 Feb 1993.

Hav Dip Bahadur Rai (No. 9414638Y now JC-634032M), 01 Feb 1993.

Hav Chandra Bahadur Subba (No. 9415276P now JC-634033P), 01 Feb 1993.

4 GR

To be Nb Sub

Hav Udai Bahadur Thapa (No. 5340999F now JC-612013 F), 04th Jul 1993.

5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Kharga Bahadur Gurung (No. 5445906A now JC-617014N), 26th Jun 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st May 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Bal Bahadur Thapa (No. 5444376K now JC-617016 Y), 16th Jul 1993.

Hav Ashok Gurung (No. 5445242X now JC-617017F), 1st Aug 1993.

Hav Mohan Gurung (No. 5445542Y now JC-617018K), 1st Aug 1993.

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Nb Sub

Hav Brij Raj Yadav (No. 13670328W now JC-226873M), 25th Feb 1993.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 20th Jan 1992 without effect on pay and allowances).

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Satnam Singh Gill (No. 13611144A now JC-226874 P), 04th Sep 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Feb 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Chand Singh (No. 13611162H now JC-226875X), 04th Sep 1992.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Feb 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Bhajan Singh (No. 13611191X now JC-226876A), 19th Mar 1992.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Feb 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Balkar Singh (No. 13611829Y now JC-226877H), 25th May 1992.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 May 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Gian Chand (No. 13609733X now JC-226878L), 01st Jun 1992.

Hav Chamman Lal (No. 13610046N now JC-226879N), 01st Jun 1992.

Hav Ammi Lal Mehella (No. 13609246X now JC-226880H), 22nd Dec 1992.££

££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 May 1991 without effect on pay and allowances).

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Shrirang Bapu Patkure (No. 2766797H now JC-226881L), 6th May 1992.

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Sita Ram (No. 2663122H now JC-226882N), 20th Apr 1992.

THE RAJ RIF

To be Nb Sub

Hav Kalu Singh (No. 1052942F now JC-226883W), 1st May 1992.

Hav Sat Parkash (No. 2871046A now JC-226884Y), 1st June 1992.

Hav Bhopal Singh (No. 2864166W now JC-226885F), 19th Nov 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st June 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Ranbir Singh (No. 2866091H now JC-226886K), 10th June 1992.

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Fateh Chand Gujar (No. 2968709K now JC-226887 M), 16th Jun 1992.

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Balwinder Singh (No. 3371948H now JC-226888P), 3rd May 1992.

Hav Gurmail Singh (No. 3372705K now JC-498045F), 1st Feb 1993.

Hav Jaswant Singh (No. 3376493F now JC-498046K), 1st Feb 1993.

Hav Sardul Singh (No. 3373226P now JC-498047M), 1st Feb 1993.

Hav Swaran Singh (No. 3373717L now JC-498048P), 1st Mar 1993.

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Santokh Singh (No. 4452774K now JC-226889X), 10th Sep 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30th Jan 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Jagjit Singh (No. 4456601K now JC-226890M), 30th Jan 1992.

Hav Surinder Singh (No. 4457152H now JC-226891P), 7th Aug 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30th Jan 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Narinder Singh (No. 4453690H now JC-226891X), 30th Jan 1992.

Hav Karnail Chand (No. 4456746P now JC-226893A), 30th Jan 1992.

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Fuman Singh (No. 4461668M now JC-226894H), 30th Jan 1992.

Hav Labh Singh (No. 4458359Y now JC-226895L), 30th Jan 1992.

Hav Kewal Singh (No. 4459087W now JC-226896N), 30th Jan 1992.

Hav Balbir Singh (No. 4461745W now JC-226897K), 30th Jan 1992.

Hav Parmjit Singh (No. 4458566L now JC-226898Y), 1st May 1992.

THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Majen Ch. Das (No. 4348713A now JC-226899F),
19 Dec 1992.*

Hav Krishna Kanta Gogoi (No. 4349127K now JC-226900
L), 17 Sep 1992.%

Hav Paokhogin Kuki (No. 4349182A now JC-226901N),
01 Mar 1992.

Hav Ranjit Gohain (No. 13676224L now JC-226902W),
01 Apr 1992.

Hav Gunadhan Sinha (No. 4349449K now JC-226903Y),
23 Jun 1992.@

* (Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub
without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Jan 1992).

% (Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub
without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Feb 1992).

@ (Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub
without effect on pay and allowances w.e.f. 01 May 1992).

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Sarat Kumar Nayak (No. 4257438X now JC-226904
F), 17 Apr 1992.

JAK LI

To be Naib Subedars

Hav Balwant Singh, VrC (No. 9080730K now JC-226905
K), 09 Sep 92*.

(* Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec
91).

NARENDER SINGH
Desk Officer

No. 868, dated the 23rd August 1993.—The President is
pleased to make the following promotions :—

ARMY BRANCH

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

To be Substantive Subedar Major Clerk (GD/SD)

Paid acting Sub Maj Dhan Charan Singh (JC-175313P),
01 Mar 93.

Paid acting Sub Maj Ajit Singh Banwait (JC-175314K),
01 Mar 93.

Paid acting Sub Maj KKS Kutty Nair (JC-175315A),
01 Apr 93.

Paid acting Sub Maj Shio Dutta Shah (JC-181639F),
01 Apr 93.

Paid acting Sub Maj Ganamani Jaya Mohan (JC-175316N),
01 Apr 93.

Paid acting Sub Maj T N Tripathi (JC-181640W)
01 Apr 93.

Paid acting Sub Maj Raghunandan Yadav (JC-181641Y),
01 Apr 93.

Paid acting Sub Maj Shailendra Mishra (JC-181642F),
06 May 93.

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR CLERK (GD/SD)

Paid acting Subedar Sapan Nimbalker (JC-192811X),
01 Mar 93.

Paid acting Subedar Ishwar Singh Pahal (JC-192812A),
01 Mar 93.

Paid acting Subedar Raghbir Singh (JC-192813N),
01 Mar 93.

Paid acting Subedar Baldev Singh (JC-192814L), 01 Apr
93.

Paid acting Subedar Swadesh Kumar (JC-192815N), 01
93.

Paid acting Subedar Vincent MV (JC-192816W), 01 Apr
93.

Paid acting Subedar Sreedharan M (JC-198933X). 01 Apr
93.

Paid acting Subedar Someshwar Borah (JC-192817Y), 01
Apr 93.

Paid acting Subedar Ram Mohan Baitalik (JC-198934A),
10 Apr 93.

Paid acting Subedar Manik Chander Saha (JC-204908X),
06 May 93.

To be Substantive Subedar Major Clerk (Store)

Paid Acting Subedar Major Daroga Singh (JC-171300A),
01 Feb 93.

Paid Acting Subedar Major Ram Gopal Singh (JC-168025
A), 01 Feb 93.

Paid Acting Subedar Major Govindan Manian (JC-168026
H). 01 Feb 93.

Paid Acting Subedar Major Mehar Singh (JC-171306F),
01 Mar 93.

Paid Acting Subedar Major Malamal Madathil Radha-
krishnan (JC-171307K). 10 Mar 93.

Paid Acting Subedar Major Raveendran Pillai PKP (JC-
163016P), 10 Mar 93.

Paid Acting Subedar Major Major Singh Gill (JC-163024M),
12 Mar 93.

Paid Acting Subedar Major Gian Chand Bali (JC-171308
M), 01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Major Yadu Nandan Biswas (JC-
171311M), 01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Major Musafir Tiwary (JC-171312P),
01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Major Munna Lal (JC-171313X),
01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Major Shri Krishna Singh (JC-175900
A), 01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Major Santoo Singh Yadav (JC-
171316L), 01 May 93.

To be Substantive Subedar Clerk (Store)

Paid Acting Subedar C Mohinder Paul (JC-195247Y), 01
Feb 93.

Paid Acting Subedar Babu P (JC-193235L), 01 Feb 93.

Paid Acting Subedar Somanadhan Nair (JC-193236N), 01
Feb 93.

Paid Acting Subedar Radha Krishnan Nair (JC-193237W),
01 Mar 93.

Paid Acting Subedar Ram Kumar (JC-193238Y), 10 Mar
93.

Paid Acting Subedar Munnu Swamy Kasinathan (JC-
193239F). 10 Mar 93.

Paid Acting Subedar Basant Ballabh Pant (JC-193240W),
12 Mar 93.

Paid Acting Subedar Vijay Bahadur Nayak Vashisth (JC-
193241Y), 12 Mar 93.

Paid Acting Subedar Upender Nath Dubey (JC-193242F),
01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Jagir Singh (JC-193243K),
01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Thankswar Phukan (JC-193244M),
01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Ranjit Singh (JC-199546P),
01 Apr 93.

Paid Acting Subedar Damodaran Prayankot Veetil (JC-
193245P), 01st Apr 93.

Paid Acting Subedar Jagat Ram (JC-193246X), 01st Apr
93.

Paid Acting Subedar Kashmir Chand (JC-193247A), 01
May 93.

PRAKASH CHAND,
Under Secy.

No. 869, dated the 23rd August 1993.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Army Medical Corps

To be Naib Subedar (Nursing Assistant)

Havildar Ram Das Singh Guru (No. 13917940M now JC-
690435Y), 15th Dec 1992*.

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Oct 92 without effect on pay and
allowances).

Havildar Arvind Kumar Mahto (No. 13918778X now JC-
690436F), 27th Jan 1993**.

Havildar Prem Sagar Singh (No. 13918807F now JC-
690437K), 23rd Apr 93**.

** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 21st Nov 92 without effect on pay and
allowances).

Havildar Rawal Singh (No. 13918825K now JC-690438M),
03rd May 1993***.

Havildar Som Datt Bali (No. 13919145W now JC-690439
P), 23rd Apr 1993***.

*** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Dec 92 without effect on pay and
allowances).

Havildar Prithvi Singh Sidhu (No. 13919404N now JC-
690440K), 02nd Apr 93%.

% (Granted notional seniority in the rank of Naib Sube-
dar with effect from 01st Feb 93 without effect on
pay and allowances).

Havildar Ram Karan (No. 13919510M now JC-690441M),
23rd Jun 1993% %.

Havildar Shamshad Khan (No. 13919516H now JC-690442
P), 30th Apr 1993% %.

Havildar Laxmi Narayan (No. 13919551W now JC-690443
X), 20th Apr 1993% %.

Havildar Chidambaram Krishnan (No. 13919649K now
JC-690444A), 16th Apr 93% %.

Havildar Om Prakash (No. 13918427K now JC-690445H),
08th Apr 1993% %.

Havildar Soji Lal (No. 13919686X now JC-690446L), 21st
Apr 1993% %.

% % (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Mar 93 without effect on pay and
allowances).

Havildar Azad Singh (No. 13919672A now JC-690447N),
20th Apr 1993% % %.

Havildar Balbir Singh Bisht (No. 13919622M now JC-
690448W), 10th Apr 1993% % %.

Havildar Madan Pal Singh (No. 13919683N now JC-
690449Y), 8th Apr 1993% % %.

Havildar Jitendra Singh (No. 13919684M now JC-690450
N), 08th Apr 1993% % %.

Havildar Bhirma Ram Patel (No. 13919696F now JC-
690451W), 06th Apr 1993% % %.

% % % (Granted seniority in the rank of Naib Subedar
with effect from 01st Apr 93 without effect on pay and
allowances).

Havildar Surender Singh Yadav Koslia (No. 13919730W
now JC-690452Y), 07th Jul 1993@.

@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Jun 93 without effect on pay and
allowances).

Havildar Mohinder Singh (No. 13919776Y now JC-690453
F), 01st Jun 1993.

Havildar Raghbir Singh (No. 13919844F now JC-690454
K), 01st Jun 1993.

Havildar Pooiarira Palangappa Belliappa (No. 13919901X
now JC-690455M), 06th Jul 1993@@.

@@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar
with effect from 01st Jul 93 without effect on pay and
allowances).

Havildar Haridwar Singh (No. 13919890W now JC-690456
P), 01st Jul 1993.

To be Naib Subedar (Ambulance Assistant)

Havildar Biram Ram Chaudhary (No. 13917835F now JC-
690457X), 15th Mar 1993*.

* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Mar 93 without effect on pay and
allowances).

Havildar Nafe Singh (No. 13918235L now JC-690458A),
03rd Apr 1993**.

Havildar Harish Chander Jha (No. 13918498K now JC-
690459H), 06th Apr 1993**.

Havildar Behari Lal (No. 13918599X now JC-690460X),
20th May 1993**.

** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Apr 93 without effect on pay and
allowances).

Havildar Rushi Nath Bhoi (No. 13918573Y now JC-
690461A), 28th Jun 1993***.

Havildar Ganesh Mandal (No. 13917704W now JC-690462
H), 13th May 1993***.

Havildar Brahama Nand (No. 13918840Y now JC-690463
I), 01st May 1993.

Havildar Parshotam Lal (No. 13918864H now JC-690464
N), 13th May 1993***.

Havildar Ram Singh (No. 13918901L now JC-690465W),
14th May 1993***.

*** (Granted notional seniority in Naib Subedar with
effect from 01st May 93 without effect on pay and
allowances).

Havildar Dulo Ram (No. 13919002 W now JC-690466Y),
16th Jun 1993@.

Havildar Radha Kanta Singha (No. 13919064W now JC-
690467F), 24th Jun 1993@.

Havildar Rattan Chand (No. 13921151H now JC-690468
K), 03rd Jun 1993@.

Havildar Debi Datt (No. 13921155Y now JC-690469M), 12th Jun 1993@.

@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 93 without effect on pay and allowances)

Havildar Shri Krishan (No. 13921139F now JC-690470F), 01st Jun 1993.

Havildar Jagdish Chander (No. 13921201H now JC-690471K), 01st Jun 1993.

Havildar Mohinder Singh (No. 13921598A now JC-690472M), 01st Jul 1993.

To be Naib Subedar (DVR MT)

Havildar Keshar Deo (No. 13918227M now JC-690473P), 25th Jun 1993%.

%(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 93 without effect on pay and allowances).

C. P. JOSHI
Lt. Col
Jt. Dir Med Services (Trg.)

No. 870, dated the 23rd August 93.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGRS.

Hav : To be Nb Sub Clk (GD)

Gopinathan Nair MK (No. 14503314L now JC-747127A), 05 Nov 92%.

Goutam Kumar Mazumdar (No. 14528899P now JC-747126X), 09 Nov 92**.

Kalyan Chakraborty (No. 14528914Y now JC-747128H), 01 Nov 92.

Madan Gopal Singh (No. 14528915F now JC-747129L), 13 Nov 92%.

Vinod Paul Sharma (No. 14528894W now JC-747306A), 11 Dec 92**.

Narayan Karnase (No. 14529058Y now JC-747318P), 14 Jan 93@.

Maha Brata Kumar Mishra (No. 14529062F now JC-747319X), 01 Dec 92.

Virendra Singh Chauhan (No. 14504034K now JC-747424N), 04 Oct 92**.

Harikumar R (No. 14527563H now JC-747423L), 01 Sep 92.

Sushil Kumar Sharma (No. 14528916K now JC-747425W), 01 Nov 92.

Ram Niwas Rai (No. 14529066X now JC-747426Y), 01 Dec 92.

Kiran (No. 14506282L now JC-747430F), 01 Feb 93.

Jeevan (No. 14518110W now JC-747431K), 01 Feb 93.

Santosh Kumar (No. 14523261Y now JC-747432M), 01 Feb 93.

Hav : To be Nb Sub SKT

Ballar Ram (No. 14526088L now JC-747320M), 01 Oct 92.

Raghuvir Singh (No. 14526076W now JC-747427F), 01 Nov 92.

Dirisipam Kishor Kumar (No. 14526257F now JC-747428K), 01 Dec 92.

Hav : To be Nb Sub Armr

Gurmail Chand (No. 14504637A now JC-747130L), 01 Dec 92.

Sukhraj (No. 14504959A now JC-747373L), 01 Dec 92.

Pua Ram Boro (No. 14505387W now JC-747374N), 01 Jan 93.

Mohendra Singh (No. 14505394M now JC-747375W), 01 Jan 93.

Satya Narayan Ray (No. 14505627H now JC-747429M), 01 Jan 93.

Hav : To be Nb Sub Dvr (MT)

Girija Prasad (No. 14514973A now JC-747322X), 01 Oct 92.

Vijay Kumar Mulay (No. 7117555N now JC-747325N), 30 Oct 92£.

Jai Prakash (No. 7116777M now JC-747326N), 20 Dec 92*@.

Shri Ram Gujar (No. 14513103W now JC-747327W), 16 Dec 92**@.

Nand Kumar Saha (No. 13847450K now JC-747328Y), 28 Nov 92**@.

Vijay Bahadur (No. 14513004N now JC-747323A), 01 Oct 92.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 92 without effect on pay and allowances).

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 92 without effect on pay and allowances).

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 92 without effect on pay and allowances).

*@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Dec 92 without effect on pay and allowances).

**@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Rec Mech

Biman Behari Das (No. 14513947M now JC-747321P), 01 Oct 92.

Ramanuj Thakur (No. 13847479M now JC-747376Y), 01 Feb 93.

Ramesh Zhope (No. 13849699P now JC-747365M), 17 Jan 93@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Turner

Ram Mehar Malik (No. 7116905H now JC-747329F), 01 Jan 93.

Hav : To be Nb Sub Dvr (MT)

Fakir Mohan Mohanta (No. 14512542P now JC-747378K), 01 Oct 92.

Bali Ram (No. 13850065L now JC-747384X), 28 Nov 92%.

Rishi Kesh (No. 14515007A now JC-747379M), 01 Oct 92.

Harjit Ram (No. 7116085F now JC-747386H), 04 Jan 93£*.

Jagdish (No. 13850081M now JC-747380F), 02 Dec 92£.

Rajvir Singh (No. 14516830Y now JC-747381K), 30 Oct 92**.

Dharam Pal Prasad (No. 14515314X now JC-747382M), 01 Oct 92.

Uma Dutt (No. 14517130N now JC-747383P), 04 Dec 92**.

K Ram Das (No. 12482645Y now JC-747385A), 30 Jan 93***.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 92 without effect on pay and allowances).

£* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 91 without effect on pay and allowances).

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 92 without effect on pay and allowances).

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Rec Mech

Yogendra Prasad (14508214K now JC-747304P), 21 Oct 92.**

Lakhi Chand Singh (14514704M now JC-747305X), 01 Dec 92.**

Girjesh Pandey (14515397A now JC-747490A), 21 Oct 92.% @

Bimal Prasad Singh (14517111M now JC-747291H), 29 Nov 92.% @

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

% @ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jun 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Limb Maker

Mathew C (14518524H now JC-747289L), 08 Jan 93.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jan 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Carp & Jnr

Shiv Kumar Ojha (14546319X now JC-747331Y), 26 Oct 92.*

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 22 Oct 92 without effect on pay and allowances).

Virendra Kumar (14544960K now JC-747421A), 24 Oct 92.*

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 22 Oct 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Tlr (U)

Prasanna Kumar Pillai R (14528144L now JC-747422H), 11 Nov 92.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 08 Nov 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Metal Smith

Sri Chand (14501328W now JC-747330W), 01 Jan 93.

Hav : To be Nb Sub Uphol

Bahadur Chand (14501022K now JC-747324H), 21 Oct 92.††

†† (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 18 Oct 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub VM (MV)

Puni Ram Bora (7127591M now JC-747292L), 01 Oct 92.

Durga Das (7127862H now JC-747293N), 01 Oct 92.

Raghubir Singh (14500125W now JC-747294W), 01 Oct 92.

Budhi Bahadur Karki (14500299W now JC-747295Y), 01 Oct 92.

Mahesh Chandra Gupta (14500153H now JC-747296F), 01 Oct 92.

Ram Niwas Pandey (14500305W now JC-747297K), 01 Oct 92.

Savari Siluva, Raju Muthu (14500509L now JC-747298M), 01 Oct 92.

Bachan Chand (14500613Y now JC-747299P), 01 Oct 92.

Kartar Singh (14501090X now JC-747300Y), 30 Dec 92.*

Ram Gopal Singh (14501221X now JC-747301F), 23 Oct 92.*

Satya Narayan Sharma (14501624X now JC-747302K), 05 Nov 92.*

Madaswami Durai Raju (14501667M now JC-747303M), 24 Oct 92.*

Pediredla Venkata Ramana Murty (7115032W now JC-747307H), 22 Oct 92.*

Mohinder Singh (7127089X now JC-747308L), 01 Oct 92.

Sageer (14500462L now JC-747309N), 01 Oct 92.

Sudha Singh (7127376F now JC-747310H), 21 Oct 92.*

Mihir Kumar Pathak (7127578H now JC-747311L), 10 Nov 92.*

Bal Bahadur Kumar (7127813M now JC-747312N), 01 Oct 92.

Joy Nath Sahu (14500857M now JC-747313W), 01 Oct 92.

Ravi Dutt Pandey (14501151K now JC-747314Y), 25 Oct 92.*

Amar Singh (14501217P now JC-747315F), 02 Nov 92.*

Harinder Prasad Singh (14501522F now JC-747316K), 25 Oct 92.*

M D Sabu (14501806L now JC-747317M), 23 Oct 92.*

Ram Rao Rawate (14500315H now JC-747366P), 01 Oct 92.

Raj Singh (14501615W now JC-747367X), 24 Oct 92.*

Ramesh Chand Choudhary (14501685P now JC-747368A), 24 Oct 92.*

Gurcharan Sah (14501816P now JC-747369H), 24 Dec 92.*

Amarjit Singh (7127857N now JC-747370X), 27 Nov 92.*

Anand Kumar (14502174X now JC-747371A), 28 Nov 92.*

Janardhan Dube (7117507N now JC-747372H), 17 Dec 92.*

Surender Singh Bora (7127290H now JC-747411W), 01 Oct 92.

Sudarshan Prasad (7127892W now JC-747412Y), 01 Oct 92.

Ram Prabesh Singh (14500293P now JC-747413F), 01 Dec 92.*

Sita Ram (14500705L now JC-747414K), 01 Oct 92.

Ram Bahadur Thapa (14500975A now JC-747415M), 01 Oct 92.*

Doodala Pudi Narasimha Rao (14500914H now JC-747416P), 01 Oct 92.

Sher Bahadur Gurung (14501239M now JC-747417X), 19 Oct 92.*

Marijappan Rama Lingam (14501779N now JC-747418A), 13 Jan 93.*

Narad Thakur (14502137K now JC-747419H), 27 Nov 92.*

Bhagwan Bahadur (14502215N now JC-747420X), 16 Jan 93.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub TCM(RO)

Gurucharan Singh (7116900K now JC-747125P), 01 Jul 92.

HMT Elect : To be Nb Sub Tech (Elect)

Sis Ram (14503935K now JC-747333K), 02 Dec 92.*

Gulshan Kumar (14524347L now JC-747334M), 18 Dec 92.*

Chavan Dharmaji Ganpat (14524818M now JC-747335P), 01 Oct 92.

Pushkar Datt Bhatt (14503114P now JC-747336X), 01 Oct 92.

Ummed Singh (14518509N now JC-747337A), 01 Oct 92.

HMT : To be Nb Sub Tech (Elect)

Bhoole Ram (14519996L now JC-747338H), 15 Nov 92.*

Sistu Mohana Rao (14522113F now JC-747339L), 01 Oct 92.

Gurmit Singh (14519760W now JC-747393Y), 01 Oct 92.

Amiya Kumar Singha Mahapatra (14525500F now JC-747394F), 01 Oct 92.

C Nicholas (14509320P now JC-747395K), 01 Oct 92.

Dhanish Kumar Sharma (14523627L now JC-747396M), 01 Oct 92.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

HMT : To be Nb Sub Tech (RO)

Pritam Singh (7119113N now JC-747340A), 27 Jan 93.*

Harnath Deka (14514279N now JC-747341H), 30 Oct 92.*

Viswanathan T (7119244Y now JC-747342L), 01 Oct 92.

Bhagwan Prasad Yadav (14524511F now JC-747343N), 01 Oct 92.

Krishnan KIV (7119242L now JC-747404A), 01 Oct 92.

Harbans Lal Chajgotra (14514621H now JC-747405H), 01 Oct 92.

B Shankaraiah (14516433A now JC-747406L), 01 Oct 92.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

HMT : To be Nb Sub Tech (Inst)

Chandra Singh (14511666X now JC-747344W), 17 Dec 92.*

Sobh Nath Mishra (14513937H now JC-747345Y), 01 Oct 92.

Hari Krishna Patra (14510788P now JC-747346F), 19 Nov 92.*

Kamal K Jit (14522838F now JC-747347K), 01 Oct 92.

Eknath Pusaram Kathane (14525441A now JC-747348M), 01 Oct 92.

Padmanabhan A (14526411P now JC-747349P), 19 Oct 92.*

Surjit Singh (14505847M now JC-747402P), 01 Oct 92.

Dolgobinda Kundu (14526452Y now JC-747403X), 01 Oct 92.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

HMT : To be Nb Sub Tech (Rdr)

Satyapal Singh Chouhan (14524481P now JC-747363F), 01 Dec 92.

Kaushlendra Singh (14524823X now JC-747364K), 01 Dec 92.

Shri Bhagwan (14524083M now JC-747407N), 01 Oct 92.

Mehar Singh Sharma (14521050F now JC-747410N), 01 Feb 93.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec 92 without effect on pay and allowances).

HMT : To be Nb Sub Tech (Gun)

R Purushothaman (7119695Y now JC-747355H), 01 Oct 92.%

Viswambharan PR (7118849N now JC-747356L), 17 Dec 92.*

Ram Sewak Yadav (14521315W now JC-747357N), 01 Oct 92.

Sachidanandan Ghosh (14521337P now JC-747358W), 01 Oct 92.

Subhash Jaikar John (14525231A now JC-747359Y), 01 Oct 92.

Sudhir Kumar (14521201L now JC-747360N), 01 Oct 92.

Kushal Singh (14675092M now JC-747361W), 01 Oct 92.

Chandra Babu S (7119682F now JC-747362Y), 02 Dec 92.*

Gajanand (14523009A now JC-747397P), 31 Oct 92.*

Kallapa Dundapa Magadam (14517358N now JC-747398Y), 21 Jan 93.*

Panchhi Prasad Roy (14521400Y now JC-747399A), 01 Oct 92.

Amarendra Datta (14517372A now JC-747400K), 01 Oct 92.

Vijayan N (14526101K now JC-747401M), 28 Jan 93.*

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jan 92 without effect on pay and allowances).

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

HMT : To be Nb Sub Tech (Line)

Harshan M (7119564N now JC-747352P), 01 Oct 92.

Kaushalendra Singh (7119522F now JC-747353X), 01 Oct 92.

Naryanan FV (7119611A now JC-747408W), 01 Oct 92.

HMT : To be Nb Sub Tech (GCE)

G Alagiri (14512906L now JC-747354A), 22 Dec 92.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

HMT : To be Nb Sub Tech (Veh)

Amaralinga Swamy Judugu (14513434X now JC-747409Y), 22 Nov 92.

Ishwara MK (14525793X now JC-747387L), 01 Oct 92.%

Madan Lal Gupta (14503395W now JC-747388N), 29 Nov 92.*

Ram Raj Goswamy (14503974H now JC-747389W), 05 Oct 92.*

Sasawde Shikandar (14505028H now JC-747390L), 01 Oct 92.

Narayan Chandra Nanda Goswami (14512251P now JC-747391N), 01 Oct 92.

Brij Bihari Choubey (14514568H now JC-747392W), 01 Oct 92.

Rajan KP (7119218X now JC-747332F), 19 Jan 93.%

Ramesh Singh Bhandari (14510058K now JC-747350K), 15 Nov 92.*

Gulab Singh Rajput (14510442L now JC-747351M), 01 Oct 92.

% (Gran'ed seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jan 92 without effect on pay and allowances).

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 92 without effect on pay and allowances).

Hav : To be Nb Sub Ptr & Dectr

Jagir Singh (7127960M now JC-747377F), 01 Feb 93.

S. S. KEMWAL,
Under Secy.

No. 871, dated 25th August 1993.—The President is pleased to make the following appointments with effect from the dates shown against each (Navy Instruction 15/69 refers).

INDIAN NAVY
PERMANENT CADRE

To be Master Chief Petty Officer Class I

Name, No., Rank and Date

J Singh 048221W MCPO 2 SPT1, 30-11-89.
B Dubey 066903B MCPO 2 RP1, 20-04-89.
RL Yadava 082075K MCPO 2 RC1, 01-05-88.
D Kapoor 082662W MCPO 2 PR1, 30-11-89.
D Raj 083261F MCPO 2 TAS1, 30-11-89.
KS Gill 087926H MC-AT-ARMS2, 31-01-90.
L Ram 058350R MSCPO 2, 31-01-90.
M Lal 069690N MSCPO 2, 31-03-90.
RC Lakhanpal 069949A MSCPO 2, 31-03-90.
TJ Singh 067932T MCPO WTR 2, 31-01-90.
R Chand 082085H MCPO WTR 2, 31-01-90.
SK Mitra 049525H MCA(AH) 2, 01-04-89.
L Singh 082496T MCA(SE) 2, 30-11-89.
Gian Chand 089330Z MCA(PH) 2, 28-02-90.
B Ram 095152F MCELAR 2, 01-05-89.
FP D'Souza 052424Y MCAA 2, 15-04-89.
K Narendra 097623Y MCAA 2, 29-04-89.
Jose P Kizhakkayil 190647R MCAA 2, 01-10-89.
TH Robin 051913K MCERA 2, 01-03-87.
H Lal 049671R MCPO II PT 1, 01-04-90.
J Chander 082133T MCPO II PT 1, 01-04-90.
MS Bambrah 069872A MSCPO II, 01-04-90.
TR Sharma 069223A MCPO WTR II, 01-04-90.
S Singh 069888N MCPO WTR II M, 01-04-90.
RP Sharma 082126A MCPO WTR II, 01-04-90.
SP Singh 082522A MCPO WTR II, 01-04-90.
JS Sharma 082114Z MCA (AH) II, 31-03-90.

SN Tiwari 086381Y MCA (AH) II, 01-04-90.
SA John 088650B MCA (AH) II, 01-04-90.
TV Venkatesan 051925N MC AA (W) II, 01-04-90.
LS Dhaliwal 052463K MC ERA II, 01-05-89.
K Singh 049177T MCPO II SPT I, 01-04-90.
B Singh 066966Y MCPO II RC I, 20-04-90.
KK Kutty 067317W MCPO II RC I, 10-04-90.
RK Ahi 067420B MCPO II RC I, 20-04-90.
G Singh 067938F MCPO II GL I, 01-10-90.
GS Negi 081513H MCPO II UC I, 01-07-90.
C Sain 081564Z MCPO II RP I, 20-04-90.
SS Bist 081842F MCPO II QAII, 01-10-90.
AK Sarkar 082022R MCPO II RC I, 20-04-90.
GC Sharma 082339K MCPO II RC I, 10-04-90.
D Singh 082341R MCPO II SPT I, 01-05-90.
D Singh 082781R MCPO II SPT I, 01-05-90.
T Rai 083285K MCPO II RC I, 30-04-90.
P Singh 083455Y MCPO II PR I, 01-07-90.
RK Singh 083670K MCPO II UW I, 01-08-90.
SB Singh 083842A MCPO II RC I, 01-08-90.
GS Karki 086107Z MCPO II QA I, 10-04-90.
G Singh 086284A MCPO II RP I, 20-04-90.
D Nand 086843Y MCPO II QA I, 01-04-90.
SN Singh 086937K MCPO II RP I, 30-04-90.
G Singh 087685K MCPO II UW I, 01-09-90.
U Chand 087811Y MCPO II TAS I, 01-10-90.
C Singh 088546T MCPO II QA I, 01-05-90.
K Chand 089954T MCPO II RC I, 01-11-90.
OP Sundhi 080499B MC AA II, 01-07-90.
G Singh 086508K MC AA II, 01-08-90.
KPPK Nair 086785R MCPORAC II, 05-04-90.
K Singh 088994K MCPORAC II, 01-08-90.
N Chand 089255B MCPORAC II, 01-05-90.
SR Verma 068716Z MCPORTEL II, 02-07-90.
RK Mazumdar 069102A MCPORTEL II, 20-04-90.
S Singh 082442W MCPORTEL II, 30-04-90.
NS Punni 082501B MCPORTEL II, 01-04-90.
R Patil 082688B MCPORTEL II, 16-04-90.
KS Nair 083015Y MCPORTEL II, 09-04-90.
VK Nair 088234H MCPORTEL II, 12-04-90.
CS Jaswal 088713Y MCPORTEL II, 25-04-90.
KPR Nair 089208Y MCPORTEL II, 01-07-90.
SC Sood 090169F MCPORTEL II, 10-10-90.
VR Jose 090192H MCPORTEL II, 01-10-90.
N Singh 068626W MCPORTEL II, 31-10-90.
S Kulkarni 066293T MCPO MA II ORT, 01-04-90.
L Chand 066523R MCPO MA II ORT, 10-04-90.
KK Lakkappa 080370K MCPO MA II LT, 01-04-90.
S Ram 058189Z MCPO WTR II, 01-06-90.
J Singh 081825T MCPO WTR II, 01-07-90.
K Singh 082084F MCPO WTR II, 01-04-90.
A Lal 080880W MCPO STD II, 01-04-90.
B Lal 066558W MCPO CK (O) II, 01-04-90.
D Ram 080394R MCPO CK (O) II, 01-04-90.
CM Thomas 064496H MCPO CK (S) II, 01-04-90.

S Singh 066195W MCPO CK (S) II, 01-05-90.	M Punnen 097465N MC EAP II, 01-06-90.
D Ram 080278A MCPO CK (S) II, 01-06-90.	R Roy 097575N MC EAP II, 01-07-90.
G Singh 080342Y MCPO CK (S) II, 01-06-90.	RA Kushwaha 097638F MC EAP II, 01-07-90.
CD George 065212K MCPO TOP II, 01-04-90.	S Singh 190002Z MC EAP II, 01-06-90.
U Singh 065223K MCPO TOP II, 01-04-90.	Kaus Hik 190007K MC EAP II, 01-06-90.
BS Karki 042697R MCPO MUS II, 01-04-90.	S Nag 190071F MC EAP II, 01-06-90.
SB Singh 042744Y MCPO MUS II, 01-05-90.	TK Mukerjee 052340F MCEAP C II, 01-05-90.
S Ram 082343W MCA (AH) II, 01-08-90.	K Singh 190207R MCEAP C II, 01-07-90.
GS Rawat 083676Z MCA (AH) II, 01-10-90.	DC Chauhan 052479Y MCEAR II, 01-06-90.
H Singh 088278H MCA (AH) II, 01-09-90.	K Karunakaran 052498R MCEAR II, 01-06-90.
CF Paul 067234F MCA PH II, 01-07-90.	A Singh 097619N MCEAR II, 01-04-90.
P Datt 096262B MC ELA II, 01-04-90.	AK Buddhist 097828N MCEAR II, 01-07-90.
B Gope 093153N MC ELAR II, 01-05-90.	J Gochhayat 190011W MCEAR II, 01-06-90.
JV Singh 095052B MC ELAR II, 01-04-90.	Shamsuddil 057027H MC MECH R II, 01-05-90.
AP Singh 053947H MCPO AF II, 01-05-90.	PS Shekhawat 057535N MC MECH R II, 01-06-90.
R Singh 087241A MCPO AF II, 01-04-90.	B Singh 094989K MC MECH R II, 01-06-90.
S Raju 090539Y MCPO AOF II, 01-04-90.	SR Yadav 051850T MC SWA II, 01-04-90.
RK Tripathi 094177R MCPO AOF II, 01-05-90.	BR Choudhary 052389T MC SWA II, 01-01-89.
KC Kukreti 052439F MC AA II, 01-04-90.	H Singh 052469Z MC SWA II, 01-05-90.
RK Nikam 052441K MC AA II, 01-05-90.	K Shingh 190034Y MC SWA II, 01-06-90.
G Soman 097775T MC AA II, 01-06-90.	M Ramachandran 081548N MCPO II QA I, 01-10-90.
PU Jamal 190141R MC AA II, 01-07-90.	J Chander 082133T MCPO II PT I, 01-04-90.
A Kumar 096836H MC AA(W) II, 01-04-90.	H Lal 083890K MCPO II PR I, 01-11-90.
R Prasad 200067Z MC EAA II, 01-05-90.	NR Tangadagi 067046B MC AT ARMS II, 01-04-90.
KP Gopalakrishnan 200215K MC EAA II, 01-05-90.	SK Chopra 068663B MCPO TEL II, 01-02-90.
ID Sharma 094165N MC MECH (AR) II, 01-04-90.	NC Biswas 080066W MCPO MA II LT, 01-04-90.
J Singh 056100A MC ELP II, 01-05-90.	PGG Nair 068169F MSCPO II, 22-11-90.
AS Rawat 057039K MC ELP II, 01-05-90.	MS Rawat 069243Y MSCPO II, 01-02-91.
HW Sinh 057404R MC ELP II, 01-04-90.	S Singh 069762A MSCPO II, 01-12-90.
B Singh 057287Z MC ELR II, 01-04-90.	S Abraham 190038F MC AA II, 01-06-90.
KS Pillai 057444F MC ELR II, 01-04-90.	DP Sharma 095245T MC MECH (AL) II, 01-04-90.
M Nagarajan 057573Z MC ELR II, 01-04-90.	RS Bhadouria 088011A MC ME II, 20-04-90.
MR Singh 095331N MC ELR II, 01-10-90.	V Parkash 081971Z MCPO II GL I, 01-02-91.
Z Singh 056192K MC ME II, 01-05-90.	PV Balakrishnan 084025T MCPO II UC I, 31-03-91.
KL Banik 067095R MC ME II, 01-04-90.	K Singh 084542T MCPO II UW I, 01-03-91.
BS Rathore 068502N MC ME II, 01-07-90.	RS Bohra 087253B MCPO II GL I, 01-10-90.
A Krishnan 081440T MC ME II, 10-04-90.	RL Singh 088390N MCPO II G I, 31-03-91.
P Chand 086513Y MC ME II, 01-04-90.	P Singh 089727A MCPO II SPT I, 01-03-91.
DS Dhaka 089473Z MC ME II, 20-04-90.	S Kumar 089885K MCPO II UW I, 01-02-91.
S Singh 052461F MC ERA II, 01-05-90.	R Singh 090733N MCPO II CD I, 01-03-91.
AVV Rao 180213A MC ERA II, 01-07-90.	SN Singh 088788T MC ME II, 01-01-91.
SK Madan 190019N MC ERA II, 01-06-90.	JK Singh 065040W MCPO II QA I, 15-08-91.
K Prasad 190029K MC ERA II, 01-07-90.	TM Samuel 066611R MCPO II RP I, 15-10-91.
BK Banarjee 190037B MC ERA II, 01-06-90.	K Ram 066718H MCPO II RC I, 01-04-91.
A Singh 190050H MC ERA II, 01-06-90.	F Singh 066950K MCPO II QA I, 01-06-91.
O Prakash 190056Y MC ERA II, 01-06-90.	RS Rawat 067650A MCPO II RP I, 15-07-91.
TSM Nair 190059B MC ERA II, 01-06-90.	B Kadam 082083B MCPO II PR I, 15-04-91.
RC Kaushal 190118N MC ERA II, 01-07-90.	R Singh 082313A MCPO II GL I, 15-09-91.
A Singh 190143W MC ERA II, 01-07-90.	S Singh 082334Z MCPO II RC I, 01-08-91.
AS Inda 200167A MC ERA II, 01-07-90.	PC Rajput 082996B MCPO II RP I, 01-09-91.
DS Bangari 056381R MC MECH II, 01-06-90.	S Singh 083076K MCPO II QA I, 01-10-91.
RL Mishra 056815A MC MECH II, 01-07-90.	SJ Balan 083187N MCPO II UW I, 01-08-91.
S Dass 087604A MC MECH II, 01-04-90.	P Singh 083638N MCPO II RC I, 15-05-91.
S Singh 090583Y MC MECH II, 01-07-90.	T Singh 083999H MCPO II RC I, 01-12-91.
V Singh 090589K MC MECH II, 01-07-90.	SS Yadava 086600W MCPO II PT I, 01-04-91.
TS Rajan 052497N MC EAP II, 01-04-90.	

- SN Singh 087269R MCPO II RC I, 15-04-91.
 MA Khan 087939N MCPO II RC I, 15-06-91.
 M Singh 088440A MCPO II RP I, 01-05-91.
 TM Alexander 088577N MCPO II RP I, 01-08-91.
 SK Chakravarty 088749B MCPO II TAS I, 15-07-91.
 RK Singh 089221A MCPO II RC I, 10-08-91.
 K Singh 089525T MCPO II RC I, 10-08-91.
 PSK Nair 091254Y MCPO II RC I, 15-09-91.
 JS Khanka 066849F MCAT ARMS II, 01-05-91.
 GV Bhargawaram 067599K MC AT ARMS II, 01-05-91.
 C Singh 088051T MC AT ARMS II, 01-06-91.
 D Ram 068654H MC PORTAC II, 15-05-91.
 U Balasubbramanian 093868N MCPORTELE II, 01-10-91.
 H Singh 082549N MCPORTELE II, 01-05-91.
 AK Kundu 080303H MCPO MA II BTA, 01-04-91.
 JP Sharma 080313F MCPO MA II L 2, 01-04-91.
 VS Ratnam 080790R MCPO MA II PH 3, 01-05-91.
 S Singh 058053R MSCPO II, 20-04-91.
 KS Rao 058201A MSCPO II, 15-07-91.
 C Kharkwal 058310Z MSCPO II, 20-04-91.
 RH Kudige 058381K MSCPO II, 01-08-91.
 RK Sharma 0683867F MSCPO II, 01-04-91.
 S Singh 069229R MSCPO II, 01-04-91.
 J Prasad 069882Z MSCPO II, 01-07-91.
 SC Awasthi 082347B MSCPO II, 10-04-91.
 TS Bora 058089Y MCPO WTR II, 01-09-91.
 JC Kothiyari 058347H MCPO WTR II, 01-08-91.
 H Singh 058624N MCPO WTR II, 01-09-91.
 T Chand 059090Y MCPO WTR II, 01-09-91.
 LS Shekhawat 081457F MCPO WTR II, 01-04-91.
 M Arif 081883Z MCPO WTR II, 01-04-91.
 H Bhau 082484R MCPO WTR II, 01-04-91.
 K Lal 058607Z MCPO STD II, 10-04-91.
 IS Chauhan 059231T MCPO STD II, 15-11-91.
 KK Chakroborty 084405F MCPO STD II, 01-11-91.
 SP Chakroborty 084537F MCPO STD II, 10-04-91.
 K Singh 084575T MCPO STD II, 20-04-91.
 SBS Bajwa 084628N MCPO STD II, 20-04-91.
 J Singh 058035Z MCPO CK (O) II, 20-04-91.
 PL Ummachan 066579T MCPO CK (O) II, 01-04-91.
 MKR Pillai 069917B MCPO CK (O) II, 10-04-91.
 O Parkash 080602N MCPO CK (O) II, 20-04-91.
 H Bisoi 065788W MCPO CK (S) II, 01-04-91.
 S Ram 080022W MCPO CK (S) II, 01-04-91.
 D Singh 080667K MCPO CK (S) II, 10-04-91.
 B Ram 080146A MCOP CK (S) II, 20-04-91.
 R Dass 066470W MCPO TOP II, 01-04-91.
 M Lal 066513T MCPO TOP II, 07-12-91.
 S Pal 080110W MCPO TOP II, 01-05-91.
 M Lal 080554B MCPO TOP II, 01-05-91.
 T Dhari 082220R MCA (AH) II, 01-05-91.
 M Balasubramaniam 088688R MCA (AH) II, 01-10-91.
 VP Singh 096659F MC ELA II, 01-04-91.
 R Niwas 097108A MC ELA II, 01-04-91.
 B Sunder 094886A MC ELAR II, 01-07-91.
 JL Yadava 095088K MC ELAR II, 01-04-91.
 G Singh 053929T MCPO AF II, 01-05-91.
 N Radhacharan 054681A MCPO AF II, 01-04-91.
 J Singh 054929R MCPO AF II, 01-05-91.
 SK Dhulaji 094268Y MCPO AF II, 01-04-91.
 C Lal 094026Y MCPO AOF II, 10-06-91.
 GS Sekhawat 094041F MCPO AOF II, 01-04-91.
 MM Rajagopal 190098T MC AA II, 01-05-91.
 SK Sharma 200736W MC AA II, 01-07-91.
 AV Chelliah 200903Z MC AA II, 01-07-91.
 P Kumar 201050H MC AA II, 01-07-91.
 GV Tanawade 054212K MC AA II, 01-04-91.
 D Singh 092964H MC AA II, 01-06-91.
 BS Sekhon 095238A MC AA II, 01-06-91.
 B Singh 095992R MC AA (W) II, 01-04-91.
 RP Singh 095182Z MC AA (W) II, 01-09-91.
 M Stephen 097940T MC EAA II, 01-05-91.
 TS Rao 200606Z MC EAA II, 01-05-91.
 JR Murty 200984H MC EAA II, 01-06-91.
 PAK Rao 201586A MC EAA II, 01-06-91.
 S Kumar 096005W MC MECH (AL) II, 01-04-91.
 SS Yadava 093498Y MC MECH (AR) II, 01-04-91.
 S Balasubramanian 056387B MC ELP II, 10-04-91.
 J Singh 057222A MC ELP II, 01-04-91.
 DN Badhani 057405T MC ELP II, 01-05-91.
 S Singh 057528Y MC ELP II, 10-05-91.
 PC Singh 096126W MC ELR II, 01-04-91.
 AP Singh 096198H MC ELR II, 10-05-91.
 BB Dubey 096282Y MC ELR II, 01-05-91.
 RK Ram 096358Y MC ELR II, 10-05-91.
 R Niwas 097036N MC ELR II, 10-05-91.
 KV Rao 087272Y MC ME II, 01-05-91.
 H Singh 089641F MC ME II, 10-05-91.
 SN Singh 090528Y MC ME II, 20-05-91.
 MV Prakasan 180206K MC ERA II, 01-06-91.
 LS Kweera 180209T MC ERA II, 01-07-91.
 T John 190047A MC ERA II, 01-04-91.
 RS Nimeal 190067Y MC ERA II, 01-05-91.
 TP Cyril 190094H MC ERA II, 01-04-91.
 RI Kapoor 190101Z MC ERA II, 01-07-91.
 B Singh 190104F MC ERA II, 01-08-91.
 AM Jadhav 190148F MC ERA II, 01-07-91.
 JS Parihar 190152R MC ERA II, 01-07-91.
 P Singh 190161K MC ERA II, 01-07-91.
 JS Mani 190165W MC ERA II, 01-07-91.
 MV Joseph 190171H MC ERA II, 01-07-91.
 D Raj 190187W MC ERA II, 01-07-91.
 P Singh 190254Y MC ERA II, 1-08-91.
 Mah Baig 190281H MC ERA II, 01-08-91.
 KKA Reddy 200220Y MC ERA II, 01-07-91.
 V Gopal 200284T MC ERA II, 01-05-91.
 K Singh 200359N MC ERA II, 01-07-91.
 BR Sharma 200646R MC ERA II, 01-08-91.
 S Mahapatra 200914Z MC ERA II, 01-08-91.
 M Singh 200938B MC ERA II, 01-08-91.

- BN Prasad 201022W MC ERA II, 01-08-91.
 HP Shukla 201391H MC ERA II, 01-08-91.
 BS Panwar 056103H MC MECH II, 01-07-91.
 B Ram 056275Z MC MECH II, 01-07-91.
 R Chand 056319Z MC MECH II, 01-07-91.
 C Singh 056875N MC MECH II, 01-04-91.
 NK Pant 056976T MC MECH II, 01-07-91.
 OP Ohlan 068866R MC MECH II, 01-05-91.
 S Chand 069737W MC MECH II, 01-07-91.
 D Ram 088981F MC MECH II, 01-05-91.
 B Singh 052490Y MC EAP II, 01-04-91.
 S Singh 190087T MC EAP II, 15-04-91.
 M Chand 190232Z MC EAP II, 15-05-91.
 VP Singh 190242W MC EAP II, 15-05-91.
 VK Singh 190338N MC EAP II, 15-05-91.
 H Mittar 097930W MCEAP C II, 01-05-91.
 PS Somal 190201A MCEAP C II, 01-05-91.
 NA Rahim 190202B MCEAP C II, 01-05-91.
 PJ Tambi 190208T MCEAP C II, 01-05-91.
 KK Sharma 190209W MCEAP C II, 15-04-91.
 BP Ramdas 190221Y MCEAP C II, 01-05-91.
 R Singh 190223A MCEAP C II, 15-04-91.
 PK Patnaik 190226H MCEAP C II, 1-05-91.
 R Kumar 200064T MCEAP C II, 15-04-91.
 PK Sharma 085958K MC WM II, 15-05-91.
 Riyaaudhin 052495H MCEAR II, 01-04-91.
 KK Singh 097535Y MCEAR II, 01-04-91.
 SN Sharma 097872N MCEAR II, 15-04-91.
 DS Bist 190070B MCEAR II, 20-04-91.
 SS Gusain 190080A MCEAR II, 15-04-91.
 MK Paliwal 190344A MCEAR II, 10-05-91.
 C Ram 200040N MCEAR II, 15-04-91.
 HP Chauhan 200044Y MCEAR II, 15-04-91.
 S Sah 200065W MCEAR II, 01-05-91.
 P Sasidharan 200071H MCEAR II, 01-05-91.
 I Dayal 200077Y MCEAR II, 15-04-91.
 MK Jha 201193H MCEAR II, 01-05-91.
 DS Sangwan 057291H MC MECH R II, 01-05-91.
 K Singh 057426R MC MECH R II, 01-04-91.
 MK Ghosh 190023Y MC SWA II, 01-04-91.
 MS Santosh 190133Y MC SWA II, 01-05-91.
 RK Anand 190170F MC SWA II, 01-06-91.
 R Kumar 190178Z MC SWA II, 01-06-91.
 JN Dinakar 200317T MC SWA II, 01-07-91.
 RL Yadav 081634H MCPO II QA1, 01-12-91.
 C Ram 082793T MCPO II RC1, 01-12-91.
 SRS Chauhan 082974B MCPO II QA1, 01-12-91.
 RC Sharma 082992W MCPO II UC1, 01-01-91.
 J Singh 083530T MCPO II RP1, 01-01-91.
 P Singh 083564W MCPO II RP1, 01-12-91.
 B Krishan 083775Z MCPO II RPI, 15-11-91.
 S Bhan 084283B MCPO II UW1, 15-12-91.
 D Pal 084905T MCPO II GL1, 01-02-91.
 H Singh 085220H MCPO II QA1, 15-12-91.
 J Singh 089380N MCPO II QA1, 01-12-91.
 A Nath 090608B MCPO II QA1, 15-01-92.
 G Singh 091183K MCPO II RC1, 01-01-92.
 N Singh 084622Z MCPORTAC II, 01-01-92.
 PN Singh 084993T MCPORTAC II, 01-01-92.
 L Ram 069006H MCPO STD II, 10-04-91.
 H Singh 081056W MCPO STD II, 01-04-91.
 H Raj 057451Y MC MECH R II, 01-04-91.
 KR Pillai 089112B MCA (AH) II, 01-11-91.
 K Sivasankaran 090788N MCA (AH) II, 01-12-91.
 CV Joseph 190144Y MC AA II, 01-05-91.
 P Lal 057164W MC ME II, 01-11-91.
 MM Mathew 190263T MC ERA II, 01-09-91.
 PB Rana 190229R MC EAP II, 15-05-91.
 K Manoharan 052491Z MCEAR II, 01-04-91.
 OP Srivastava 200473Y MCEAR II, 10-5-91.
 KP Madhu 190105H MC SWA II, 01-05-91.
 S Singh 049600B MCPO II QA1, 01-01-92.
 RS Yadav 081221W MCPO II RC1, 01-05-91.
 H Singh 083125Y MCPO II RC1, 01-12-91.
 KP Badola 083363N MCPO II RP1, 15-01-92.
 BS Pandey 083397R MCPO II RP1, 15-01-92.
 K Lal 083469B MCPO II QA1, 15-01-92.
 D Nand 083861W MCPO II QA1, 15-02-92.
 M Prasad 083874Z MCPO II RPI, 01-03-92.
 RS Rajput 084021H MCPO II RC1, 15-02-92.
 G Lal 084366T MCPO II GI, 15-01-02.
 A Jadhav 084678A MCPO II UW1, 01-02-92.
 S Nand 084740T MCPO II RC1, 01-01-92.
 A Singh 085224T MCPO II QA1, 15-02-92.
 Satpal 085586R MCPO II QA1, 01-02-92.
 SR Hele 086702A MCPO II RC1, 15-12-91.
 S Bhan 090420A MCPO II QA1, 01-07-91.
 K Singh 068699K MCPORTAC II, 01-01-92.
 AL Yadav 085042B MCPORSPL II, 02-02-92.
 I Jit 069864H MSCPO II, 01-02-92.
 AC Debnath 069962F MCPO WTR II, 01-02-92.
 JS Peixoto 042816K MCPO MUS II, 01-04-91.
 S Chand 093231R MCA UH II, 01-02-92.
 Kalika 094342R MCPO AF II, 01-02-92.
 RS Shrivastava 094109K MC ELP II, 01-05-91.
 KD Kumar 190272N MC SWA II, 01-07-91.
 G Singh 084638K MCPO II QA1, 01-03-92.
 H Dass 082799F MC AT ARMS II, 05-01-92.
 H Singh 083525F MC AT ARMS II, 01-06-91.
 TR Vats 089709K MC AT ARMS II, 10-11-91.
 TM Uthup 65691Z MCPO CK (S) II, 01-04-89.
 SR Tiwari 066365F MCPO CK(S) II, 03-10-91.
 J Singh 094059Y MCPO AF II, 01-03-92.
 R Singh 095075F MCPO AOF II, 01-03-92.
 VK Sharma 190123Z MC ERA II, 31-12-91.
 PGK Pillai 067476F MC AT ARMS II, 01-01-92.
 SC Anand 049706W MCPO II RC1, 01-04-92.
 S Chand 083984Z MCPO II RP1, 01-06-92.
 S Chand 088232B MCPO II UW1, 01-04-92.
 P Gopinathan 083059Y MC AT ARMS II, 01-04-92.
 HS Bhati 055109Z MCPORTAC II, 15-04-92.

R Sarup 090434H MCPORTAC II, 01-06-92.
 L Singh 091654F MCPORTAC II, 01-07-92.
 R Singh 085012K MCPORTELE II, 01-11-92.
 KN Joshi 089360T MCPORTELE II, 10-04-92.
 PK Sajeevan 090283R MCPORTELE II, 01-04-92.
 SN Yadav 069283N MCPO MA II SD2, 01-06-92.
 AK Biswas 058344A MSCPO II, 01-05-92.
 K Singh 058368F MSCPO II, 01-10-92.
 S Singh 058867R MSCPO II, 01-11-92.
 DD Thakur 058045Y MCPO WTR II, 01-11-92.
 VS Chandel 058462W MCPO WTR II, 01-05-92.
 P Jayaraman 080400B MCPO CK(S) II, 15-04-92.
 P Singh 080547N MCPO CK(S) II, 01-04-92.
 J Benson 080570R MCPO TOP II, 01-05-92.
 K Kumar 089676K MCA (AH) II, 01-10-92.
 D Ram 089698K MCA (AH) II, 01-06-92.
 C Singh 095793N MCA(AH) II, 01-10-92.
 S Singh 097251A MCA (AH) II, 01-11-92.
 C Shekhar 097013K MC ELA II, 01-04-92.
 RS Tomar 093339K MC ELAR II, 01-05-92.
 CR Mattu 053798W MCPO AF II, 01-07-92.
 S Singh 093210T MCPO AF II, 01-08-92.
 R Misra 095258Y MCPO AF II, 01-09-92.
 HS Gularia 096056K MCPO AF II, 01-10-92.
 J Singh 091184N MCPO AOF II, 01-06-92.
 K Dinakaran 091744K MCPO AOF II, 01-04-92.
 TD Joshi 093923N MCPO AOF II, 01-05-92.
 R Singh 190040K MC AA II, 01-04-92.
 RJ Sharma 190269F MC AA II, 01-09-92.
 R Pal 190290B MC AA II, 01-09-92.
 P Koshy 190313F MC AA II, 01-09-92.
 Yogashwar 200087W MC AA II, 01-06-92.
 R Singh 201606Y MC AA II, 01-10-92.
 MJA Mollah 201944R MC AA II, 01-10-92.
 BK Sahu 202059A MC AA II, 01-10-92.
 SP Thakur 093655B MC AM II, 01-07-92.
 M Ram 095864Z MC AM (W) II, 02-07-92.
 S Ananthakodi 190363W MC EAA II, 01-07-92.
 RV Vijayan 190372R MC EAA II, 01-07-92.
 DP Rao 201467F MC EAA II, 01-07-92.
 R Singh 202108N MC EAA II, 01-07-92.
 GS Patawat 093770R MC MECH (AL) II, 01-06-92.
 VV Singh 093809B MC MECH (AL) II, 01-04-92.
 N Kishore 096721Y MC MECH (AL) II, 01-06-92.
 R Kumar 096889B MC MECH (AL) II, 01-06-92.
 M Singh 201345B MC EAARR II, 01-04-92.
 PC Kondal 056386A MC ELP II, 17-04-92.
 S Singh 056551A MC ELP II, 17-04-92.
 MS Rawat 056856W MC ELP II, 01-04-92.
 BP Singh 093113Y MC ELP II, 17-04-92.
 RA Yadav 095254N MC ELP II, 17-04-92.
 B Singh 096158T MC ELP II, 07-04-92.
 RS Yadav 097347W MC ELP II, 15-04-92.
 RSS Yadav 097348Y MC ELP II, 15-04-92.
 J Singh 097401F MC ELP II, 17-04-92.
 R Tewari 097622W MC ELP II, 17-04-92.

O Singh 097687T MC ELP II, 17-04-92.
 B Dass 056366F MC ELR II, 10-04-92.
 T Chatterjee 097052Z MC ELR II, 15-04-92.
 JC Yadava 056357K MC ME II, 01-04-92.
 RS Shakya 068317T MC ME II, 01-04-92.
 SKS Rajawat 069778N MC ME II, 01-10-92.
 B Singh 089229W MC ME II, 20-04-92.
 R Prasad 091756N MC ME II, 20-05-92.
 O Parkash 091938A MC ME II, 15-10-92.
 RS Sundaram 180218N MC ERA II, 01-11-92.
 MV Kumar 180220T MC ERA II, 01-11-92.
 S Singh 180222Y MC ERA II, 01-10-92.
 TB Parvatrao 190268B MC ERA II, 01-10-92.
 H Bhardwaj 190294N MC ERA II, 01-11-92.
 D Singh 190315K MC ERA II, 01-11-92.
 VP Sharma 190317R MC ERA II, 01-11-92.
 SM Mahalley 190319W MC ERA II, 01-11-92.
 BD Sharma 069559R MC MECH II, 01-06-92.
 PN Venu 052475N MC SWA II, 01-09-92.

Master Chief Petty Officer Class II

T Singh 094789F CPOR TAC, 31-12-89.
 H Dhali 059718Z CPOMA, 01-07-89.
 AN Malkar 059751Z CPOMA, 01-07-89.
 NN Satpure 140357W CPO WTR, 01-02-90.
 JP Samuel 140477T CPO WTR, 01-02-90.
 S Mall 058550W CPO STD, 30-05-89.
 R Appu 069150K CPOCK(S), 20-05-89.
 RN Srivastava 080723F CPOCK(S), 30-05-89.
 D Raj 081958W CPOCK(S), 10-05-89.
 KD Devassy 081138F CPO TOP, 20-04-89.
 MPD Kutty 081324B CPO TOP, 15-05-89.
 B Ram 081569K CPO TOP, 20-05-89.
 L Singh 097594F CHA AH, 31-12-89.
 RS Ram 090571W CAH MET, 05-04-89.
 M Prasad 097345R CHA PH, 01-12-89.
 MM Britto 097772K CHELA, 15-04-89.
 VN Rao 200405T CHELA, 01-04-89.
 M Pillai 200893A CHELA, 01-04-89.
 KN George Kutty 201679N CHELAR, 15-04-89.
 KVG Pillai 201730B CHELAR, 15-04-89.
 JS Budhwar 202594T CHELAR, 15-04-89.
 MP Singh 200082H CPOAF, 05-04-89.
 Sreedharan NR 097679Z CPOAOF, 05-04-89.
 V Kumaran 190298Y CHAA, 01-04-89.
 KB Rajan 190320Y CHAA, 30-04-89.
 PB Devidasan 190564A CHAA, 05-05-89.
 R Srinivasan 190568K CHAA, 05-05-89.
 PS Nayyar 190638W CHAA, 01-10-89.
 Jacob Ittyerah 190640Z CHAA 01-10-89.
 SK Singh 190642B CHAA, 01-10-89.
 CR Mohapatra 190652A CHAA, 01-10-89.
 J Ramr. Ghule 190657N CHAA, 01-10-89.
 PP Paul 201515W CHAA, 10-05-89.
 M Ram 202097N CHAA, 10-04-89.

- G Josph 202369W CHAA, 20-04-89.
 VS Rangı 202433A CHAA, 20-10-89.
 N Kumar 203282F CHAA, 01-10-89.
 Om Prakash 203369B CHAA, 30-04-89.
 S Kumar 203669K CHAA, 01-10-89.
 K Singh 203869K CHAA, 01-10-89.
 RS Monkotta 190364Y CHEAA, 10-04-89.
 G Joseph 190544F CHEAA, 01-06-89.
 B Singh 190555F CHEAA, 01-06-89.
 VP Singh 190560T CHEAA, 01-06-89.
 RS Yadav 202644F CHEAA, 01-05-89.
 JK Koshy 202663Z CHEAA, 01-05-89.
 V Vinod 202736R CHEAA, 01-05-89.
 MM Cherian 202776F CHEAA, 01-04-89.
 T Philip 202782N CHEAA, 01-05-89.
 KR Rajesekharan Nair 202784Z CHEAA, 20-04-89.
 KP George 203218K CHEAA, 01-06-89.
 MJ Joseph 203622B CHEAA, 01-05-89.
 SK Yadav 097132F CHMECH AL, 20-04-89.
 S Pal 097137T CHMECH AL, 01-05-89.
 R Singh 1180270F CHEAAR, 01-10-89.
 A Kumar 180281F CHEAAR, 01-10-89.
 T Narayanan 180284N CHEAAR, 01-10-89.
 DK Panchal 180286T CHEAAR, 01-10-89.
 OM Prakash 190500F CHEAAR 01-10-89.
 GG Sadashiv 190535K CHEAAR, 01-10-89.
 G Sabastian 190548R CHEAAR, 01-10-89.
 Achan Kunjuk 190597H CHEAAR, 01-10-89.
 RB Suresh Kumar 190614R CHEAAR, 01-10-89.
 KG Gopakumar 190625R CHEAAR, 01-10-89.
 KR Ramchandra 202773A CHEAAR, 01-10-89.
 D Borah 203024W CHEAAR, 01-10-89.
 PM Abraham 203128F CHEAAR, 01-10-89.
 AK Joy 203142N CHEAAR, 01-10-89.
 K Manikantan 203211W CHEAAR 01-10-89.
 NA Khan 203371H CHEAAR, 01-10-89.
 CM Srikumarn Nair 203629W CHEAAR, 01-10-89.
 H Chaurasia 203700F CHEAAR 01-10-89.
 D Ratheesh 203719Z CHEAAR, 01-10-89.
 BP Sajeev 203770R CHEAAR, 01-10-89.
 P Rajan 203833H CHEAAR, 01-10-89.
 M Alagarsamy 097962T CHMECH AR, 01-10-89.
 Swamy Nathan 200504T CHMECH AR, 01-10-89.
 CK Shaju 200828B CHEMCH AR, 01-10-89.
 N Giriprakash 200908K CHMECH AR, 01-10-89.
 C Ram 20108W CHMECH AR, 01-10-89.
 OM Prakash 104390A CHELP 01-05-89.
 D Pal 104453W, CHELP 01-05-89.
 MK Chousey 104808A CHELP, 01-05-89.
 DP Raju 104888H CHELP, 01-05-89.
 SR Budharaju 200244B CHELP 15-05-89
 D Rajendran 200919F CHELP, 15-05-89
 C Samal 202223Z CHELP, 01-04-89.
 S Kumar 104238F CHELR, 01-04-89.
 T Singh 104581K CHELR, 20-04-89.
 A Kumar 200720H CHELR, 25-04-89.
 OM Prakash 200743K CHELR, 30-04-89.
 NA Khan 190137F CHELR, 01-10-85.
 G Sharma 190579K CHERA, 01-05-89.
 VS Rana 190581R CHERA, 01-05-89.
 S Singh 190654F CHERA, 01-05-89.
 WJ Yadav 202461R CHERA, 15-04-89.
 RK Singh 203355Y CHERA, 01-05-89.
 K Raj 203407R CHERA, 01-05-89.
 R Singh 203571N CHERA, 01-05-89.
 A Berchmans 203724K CHERA, 01-05-89.
 KD Prasad 056851H CHMECH, 01-04-89.
 GP3 Chauthan 096509R CHMECH, 01-05-89.
 S Joshi Kumar 180226F CHEAP, 01-05-89.
 V Sxsena 180240N CHEAP, 01-05-89.
 AS Bhatti 180241R CHEAP, 01-05-89.
 SD Joshi 180243W CHEAP, 01-05-89.
 BFS Xavier 180247B CHEAP, 01-05-89.
 KK Vishwambharan 180248F CHEAP, 01-04-89.
 D Sarbabidya 180255Y CHEAP, 01-09-89.
 P Pavithran 180258B CHEAP, 01-09-89.
 B John 180259F CHEAP, 01-09-89.
 KJ Sebastian 180263R CHEAP, 01-11-89.
 AB Patil 180264T CHEAP, 01-09-89.
 BR Sharma 190509A CHEAP, 01-06-89.
 CP Singh 190552Z CHEAP, 01-05-89.
 D Singh 190596Z CHEAP, 01-11-89.
 MJ Kokare Rao 190621F CHEAP, 02-10-89.
 DK Negi 190626T CHEAP, 08-10-89.
 S Chandra 203052H CHEAP, 01-05-89.
 R Singh 203074H CHEAP, 20-04-89.
 VCM Panicker 203141K CHEAP, 01-05-89.
 DP Ghosh 203534B CHEAP, 01-06-89.
 R Vasudeva 203277W CHEAP, 01-06-89.
 B Singh 203756H CHEAP, 03-10-89.
 CM Tiwari 200847Y CHMECH P, 01-09-89.
 TK Mazumdar 190532B CHEAC, 01-05-89.
 G Joseph 1905334H CHEAC, 01-05-89.
 MH Ansari 203373N CHEAC, 01-05-89.
 S Kumar 203771T CHEAC, 01-11-89.
 RB Singh 084815H CHWM, 15-04-89.
 KA Singh 190586A CHEAR, 01-10-89.
 L Sharma 190609B CHEAR, 01-10-89.
 PU Shankar 190612K CHEAR, 01-10-89.
 SR Kumar 203535F CHEAR, 01-04-89.
 N Kumar 190641A CHSWA, 15-04-89.
 K Chand 190731F CHSWA, 01-10-89.
 K Chand 190731F CHSWA, 01-10-89.
 SK Chaturvedi 203366Y CHSWA, 15-04-89.
 B Mishra 203686Z CHSWA, 01-10-89.
 AC Joshi 190728Z CHSWA, 01-10-89.
 NA Khan 190137F MERA 2(NQ), (NQ) Removed.
 RP Khairwar 052223T MCEAC 2(NQ), (NQ) Removed
 S Pal 059568H CPO CK(O), 01-04-90.

- J John 200132Y CHA (AH), 01-04-90.
 KK Vijayan Nair 200677K CPO AF, 01-04-90.
 V Kumar 053069N CPO QA1, 01-05-90.
 V Singh 053333N CPO RC1, 30-04-90.
 M Lal 053375H CPO RP1, 10-04-90.
 R Prashad 053481Z CPO RP1, 20-04-90.
 N Singh 053499R CPO QA1, 20-04-90.
 S Singh 053579Y CPO RC1, 20-04-90.
 DS Rautela 053719R CPO UW1, 01-05-90.
 PS Negi 053808T CPO UW1, 30-04-90.
 T Lal 082239H CPO RC1, 01-04-90.
 KP Singh 083613F CPO RC1, 01-05-90.
 S Upadhyaya 084743A CPO QA1, 01-05-90.
 KS Cheema 084207F CPO PT1, 01-05-90.
 AS Nagra 084755A CPO RC1, 30-04-90.
 PD Pandit 084891K CPO QA1, 20-04-90.
 B Chand 085314Y CPO RC1, 10-04-90.
 K Chand 085574N CPO UW1, 20-04-90.
 R Ram 085587T CPO RP1, 01-05-90.
 BD Chaudhary 085810Z CPO QA1, 10-04-90.
 NC Majumder 087211H CPO UW1, 10-04-90.
 B Singh 087544R CPO SPT1, 01-04-90.
 K Singh 089881A CPO PT1, 01-05-90.
 DR Singh 092770T CPO RC1, 01-05-90.
 NP Singh 093771T CPO QA1, 10-04-90.
 R Singh 095117A CPO UW1, 10-10-90.
 RP Yadava 083273H MAA, 20-04-90.
 K Rajan 083687Z MAA, 20-04-90.
 DD Sharma 085659F MAA, 01-04-90.
 DS Kaushik 090213F MAA, 10-04-90.
 JL Chawla 095408N CPORAC, 02-04-90.
 R Prasad 058734N CPO MA DH, 30-04-90.
 G Ram 059319T CPO MA AN, 20-06-89.
 RPB Singh 068077Y CPOMAUWM, 01-04-90.
 J Singh 068102B CPO MA LAB, 10-04-90.
 SB Ahlawat 068315K CPO MA HYG, 01-04-90.
 M Singh 068403N CPO MA HYG, 20-04-90.
 S Kumar 059692R SCPO, 01-06-90.
 K Singh 058058A SCPO, 01-04-90.
 O Singh 058748W SCPO, 01-06-90.
 R Singh 058790R SCPO, 01-05-90.
 G Skaria 059953H CPO WTR, 01-04-90.
 UK Singh 140116Y CPO WTR, 01-06-90.
 R Kumar 140173A CPO WTR, 01-07-90.
 RB Singh 140076F CPO STD, 01-04-90.
 A Singh 081018H CPO CK(S), 01-05-90.
 R Kisan 080839A CPO TOP, 01-05-90.
 Karuppan 080881Y CPO TOP, 01-04-90.
 BB Sakpal 042760H CPO MUS, 01-05-90.
 DS Negi 042896T CPO MUS, 01-04-90.
 S Singh 055405Y CH (MET), 01-07-90.
 R Pushparai 092833K CPO AF, 01-05-90.
 R Singh 095667A CPO AF, 01-04-90.
 H Singh 097819T CPO AF, 01-04-90.
 EI Thomas 190324F CH AA, 01-05-90.
 S Kumar 190566F CH AA, 01-06-90.
 GS Nidhiry 201052N CH AA, 01-04-90.
 L Joseph 052174B CH ME, 01-06-90.
 G Singh 056634R CH ME, 01-04-90.
 JP Singh 057024A CH ME, 01-05-90.
 MP Singh 057029N CH ME, 01-04-90.
 I Singh 095298N CH ME, 01-06-90.
 RR Sankar 180323A CH ERA, 01-05-90.
 SCM Rizvi 190567H CH ERA, 01-04-90.
 PK Jayaram 190659T CH ERA, 01-05-90.
 G Singh 095733A CH MECH., 01-05-90.
 SM Kore 180227H CHEAP, 01-05-90.
 RL Sharma 180228K CH EAP, 01-04-90.
 RKR Choudhury 190543B CH EAP, 01-07-90.
 SA Ghudusaheb 190559R CH EAP, 01-07-90.
 B Singh 202667H CH EAP, 01-04-90.
 HS Godara 097340B CH MECH P, 01-06-90.
 PM Mathai 203317K CHEAO (C), 01-07-90.
 G Singh 055299F CH WM, 01-09-89.
 R Kumar 203923N CHEAR, 01-04-90.
 KK George 053240A CPO UC1, 01-09-90.
 B Singh 053267N CPO UW1, 30-05-90.
 ID Dhiman 053605F CPO RC1, 20-05-90.
 BP Singh 053899Z CPO RC1, 01-11-90.
 A Latif 053928R CPO RP1, 01-08-90.
 R Singh 054105T CPO RC1, 01-02-91.
 J Singh 054390R CPO UW1, 01-11-90.
 NS Bajwa 055158K CPO QA1, 10-10-90.
 R Kumar 082617T CPO RC1, 10-05-90.
 T Borah 083939Y CPO RP1, 01-02-91.
 S Chand 084835H CPO RP1, 20-10-90.
 SR Gupta 084836K CPO RC1, 01-07-90.
 SV Pillai 085269W CPO UW1, 01-07-90.
 V Kumar 085540K CPO UW1, 10-05-90.
 K Singh 085618N CPO PT1, 01-01-91.
 D Singh 085779B CPO RP1, 25-05-90.
 SP Singh 090196T CPO RP1, 20-05-90.
 NP Sasidharan 092372N CPO UC1, 10-07-90.
 P Thomas 092430W CPO RC1, 01-07-90.
 M Singh 092558K CPO QA1, 10-10-90.
 B Ram 092567F CPO UW1, 01-10-90.
 MKSH Ankanan 092822K CPO UC1, 10-01-91.
 LP Singh 093066R CPO UC1, 01-08-90.
 I Haque 093284K CPO RC1, 01-10-90.
 RJ Mahto 093299W CPO UC1, 01-08-90.
 G Ram 094705R CPO RC1, 10-10-90.
 D Chand 053385F MAA, 30-04-90.
 BP Singh 053845A MAA, 01-08-90.
 S Bhosale 092983A CPORAC, 06-04-90.
 T Raj 095350F CPORAC, 17-04-90.
 S Singh 104887F CPORAC, 02-05-90.
 MS Rathore 053790A CPORAC, 14-04-90.
 R Pereiara 094900H CPORAC, 21-04-90.

- R Kumar 055368N CPORSPL, 01-05-90.
 A Singh 053615B SCPO, 01-07-90.
 H Ram 059430W SCPO, 01-09-90.
 U Singh 059477A SCPO, 01-08-90.
 AM Reddy 059661W SCPO, 01-12-90.
 V Dharmalingam 059792T SCPO, 01-04-89.
 AS Lakhman 140045K SCPO, 01-01-91.
 SS Garcha 058948A CPO WTR, 01-05-87.
 KM Nair 140260Z CPO WTR, 01-08-90.
 GS Sekhawat 059632B CPO STD, 01-05-90.
 RA Singh 140047R CPO STD, 01-05-90.
 D Nath 058321Z CPO CK(O), 01-07-90.
 BS Rajput 059805Y CPO CK(O), 01-05-90.
 M Khan 068076W CPO CK(S), 01-06-90.
 RB Yadav 081098R CPO CK(S), 15-05-90.
 P Chand 082531Y CPO CK(S), 15-06-90.
 VM Kutty 081206H CPO TOP, 01-07-90.
 LG Cardoz 042844Z CPO MUS, 01-09-90.
 MA Alphonse 042886W CPO MUS, 01-10-90.
 LV Dattatrya 097242F CHA (AH), 01-09-90.
 S Singh 097628H CHA (AH), 01-09-90.
 RB Oaul 096735B CHA (SE), 01-08-90.
 RS Yadav 096866A CHA PH, 15-07-90.
 M Ram 096638H CH ELA, 01-04-90.
 C Rajendran 097330F CH ELAR, 01-04-90.
 DK Roy 201817A CH ELAR, 01-04-90.
 DB Nikam 095632Y CPO AF, 01-06-90.
 Y Singh 094747K CPO AOF, 01-05-90.
 S Gopalakrishnan 097723Z CPO AOF, 01-04-90.
 MT Abraham 190584Y CH AA, 01-06-90.
 AZ Usmani 190655H CH AA, 01-07-90.
 KP Skaria 201519Z CH AM(W), 01-04-90.
 S Rangaswamy 190551Y CH EAA, 01-07-90.
 KV Jose 203150F CH EAA, 01-06-90.
 P Ramachandran 203625K CH EAA, 01-09-90.
 I George 203710B CH EAA, 01-09-90.
 KK Jha 204108H CH EAA, 01-08-90.
 P Sarpal 203665A CH EAAR, 01-04-90.
 AK Singh 204107F CH EAAR, 01-04-90.
 MS Ramwal 104410Y CH ELP, 01-05-90.
 R Singh 200403N CH ELP, 01-04-90.
 R Chandra 103684Y CH ELR, 01-05-90.
 RBS Yadav 104841A CH ELR, 01-04-90.
 S Kant 190644H CH ERA, 01-05-90.
 DK Barua 190723N CH ERA, 01-05-90.
 GPN Dwivedi 203358B CH ERA, 01-04-90.
 KM Acharjya 203873Z CH ERA, 01-04-90.
 GUR Barabde 203837F CH ERA, 01-05-90.
 D Datt 056912Y CH MECH, 01-05-90.
 B Singh 057176Y CH MECH, 01-05-90.
 N Singh 057443B CH MECH, 01-05-90.
 RS Ram 057652B CH MECH, 01-05-90.
 RA Singh 057672Z CH MECH, 01-05-90.
 UB Singh 092303B CH MECH, 01-05-90.
 B Singh 094800F CH MECH, 01-05-90.
 LR Bhagat 094986B CH MECH, 01-05-90.
 BM Pal 095081W CH MECH, 01-05-90.
 DK Mohanty 095473K CH MECH, 01-05-90.
 S Mohakumar 095814K CH MECH, 01-05-90.
 A Kumar 096473H CH MECH, 01-05-90.
 U Katiyar 180302B CH EAP, 01-09-90.
 A Singh 104560N CH MECH P, 01-08-90.
 MK Ray 190511F CHEAP (C), 01-04-90.
 R Chander 203072B CHEAP (C), 01-07-90.
 B Chand 053335T CH WM, 01-05-89.
 K Neerathlingam 053421N CH WM, 01-10-89.
 U Singh 053523W CH WM, 01-09-90.
 G Singh 053935F CH WM, 01-10-89.
 RRS Yadava 054601W CH WM, 01-09-90.
 OP Sharma 054876W CH WM, 01-05-89.
 AK Mandle 055691Y CH WM, 01-09-89.
 C Singh 085251B CH WM, 01-10-90.
 R Kumar 093514H CH WM, 01-09-89.
 BS Aulokh 094912K CH WM, 01-09-90.
 J Singh 095471F CH WM, 01-09-90.
 VS Yadav 180332Y CHEAR, 01-04-90.
 B Rai 049918A CPO QA1, 30-05-90.
 LJS Yadav 053226W CPO QA1, 01-09-90.
 S Singh 053471A CPO UW1, 31-03-91.
 HS Anjan 054178H CPO UW1, 01-03-91.
 M Lal 054999Z CPO UC1, 31-03-91.
 R Kanwar 084967H CPO PT1, 01-03-91.
 R Singh 092648R CPO RC1, 01-02-91.
 A Singh 092968T CPO QA1, 01-01-91.
 DG Goswami 093190Y CPO UW1, 31-03-91.
 DN Nain 093680K CPO RC1, 01-03-91.
 RD Ram 093719Z CPO QA1, 31-03-91.
 L Chandra 094547F CPO RC1, 31-03-91.
 H Bardhan 094694R CPO RP1, 31-03-91.
 MU Karale 094821B CPO UC1, 31-03-91.
 S Suklobidya 055780Z MAA, 31-03-91.
 V Balaraj: 085609T MAA, 01-03-91.
 T Shukla 054890A CPORAC, 10-04-90.
 PC Paily 094999H CPORTEL, 26-04-90.
 R Singh 140320K SCPO, 31-03-91.
 A Singh 140637F SCPO, 01-02-91.
 MP Sindhu 104798B CPO WTR, 31-03-91.
 S Singh 042777Y CPO MUS, 31-03-91.
 T Paul 201732H CH ELA, 01-03-91.
 P Singh 095297K CPO AF, 31-03-91.
 RC Katoch 096125T CPO AF, 31-03-91.
 H Raj 104409W CH ELP, 15-04-89.
 HL Yadav 180312A CHEAR, 01-04-90.
 BS Keshav 190645K CH SWA, 01-04-90.
 CS Sinsinwar 053120B CPO UW1, 01-08-91.
 H Singh 053228Z CPO QA1, 15-05-91.
 N Singh 053545W CPO UW1, 01-06-91.
 LC Pal 053884R CPO UC1, 01-07-91.
 C Singh 053973T CPO QA1, 15-05-91.

- Om Parkash 054244H CPO RC1, 15-04-91.
R Chandra 055010Z CPO RC1, 01-08-91.
P Chand 082702K CPO QA1, 15-05-91.
G Singh 083080W CPO QA1, 01-05-91.
A Singh 083250F CPO RC1, 01-06-91.
D Prasad 083257Y CPO RC1, 01-08-91.
TS Mehara 084093Y CPO PT1, 01-04-91.
JS Negi 084154K CPO RC1, 15-08-91.
B Singh 084692H CPO UW1, 01-09-91.
R Lal 084711A CPO UW1, 15-07-91.
M Singh 084863Y CPO UW1, 01-09-91.
B Kishan 085133K CPO RP1, 15-06-91.
RV Singh 085140A CPO QA1, 01-07-91.
RL Joon 085478W CPO UW1, 01-04-91.
DP Gahlan 085612Z CPO QA1, 01-05-91.
S Singh 085677Y CPO QA1, 01-06-91.
SP Jakhoo 085998A CPO UW1, 15-06-91.
J Pramanik 090911T CPO QA1, 01-04-91.
A Singh 090994F CPO UW1, 15-06-91.
PN Singh 091140N CPO UW1, 01-09-91.
R Kishan 091921N CPO UW1, 15-04-91.
KT Joseph 092112Y CPO UW1, 15-05-91.
CD Singh 092252H CPO RC1, 01-09-91.
BN Shrivastava 092399Z CPO RC1, 01-09-91.
A Ram 092647N CPO UW1, 11-09-91.
S Bhan 092728Y CPO QA1, 01-11-91.
R Singh 093122T CPO UC1, 01-09-91.
N Singh 092685Z CPO TEL, 01-04-91.
BS Daria 055019W MAA, 01-07-91.
R Sathiaselan 084736H MAA, 01-05-91.
RL Verma 093724K MAA, 15-04-91.
R Bhoop 059025Z CPO MA H 1, 20-04-91.
N Subbiah 059025H CPO MA UM 1, 10-04-91.
SK Krishandeo 059306N CPO MA SD1, 01-04-91.
RB Singh 059847T CPO MA BT1, 15-05-91.
K Chand 140201R CPO MA R 1, 01-08-91.
PS Negi 059528T SCPO, 01-04-91.
SS Rajput 059671T SCPO, 01-04-91.
M Kole 059785A SCPO, 01-04-91.
C Rajarao 058202B CPO WTR, 20-04-91.
J Kumar 059701K CPO WTR, 01-04-91.
G Natarajan 104948W CPO WTR, 01-12-91.
BS Singh 140115W CPO WTR, 01-04-91.
S Pradhan 140212R CPO WTR, 01-05-91.
RK Yadav 140239A CPO WTR, 01-04-91.
N Pathak 058039H CPO CK(O), 01-04-91.
R Shyam 068295T CPO CK(S), 20-04-91.
P Jadhav 081315H CPO CK(1), 01-04-91.
R Baliaya 081554A CPO CK(S), 10-04-91.
SK Gorla 096516F CPO AF, 01-04-91.
A Khaligie 053072W CPO UW1, 21-09-91.
PK Biswas 053090K CPO UW1, 15-04-91.
S Singh 054545T CPO UW1, 01-09-91.
YN Tripathi 054791A CPO QA1, 15-12-91.
S Singh 054893H CPO RC1, 15-06-91.
RS Yadav 055182R CPO RC1, 15-10-91.
PK Mukhopadhyay 083476W CPO RC1, 15-08-91.
HS Bhard 084545Z CPO RC1, 01-01-92.
YP Singh 084878F CPO RC1, 15-10-91.
N Singh 085178N CPO RC1, 15-04-91.
RB Dubey 085222N CPO UW1, 15-07-91.
B Dass 085536A CPO QA1, 01-11-91.
TR Saini 085647T CPO UC1, 01-09-91.
Quamaruddin 085678Z CPO RC1, 01-12-91.
MC Sharma 085735B CPO UW1, 01-09-91.
R Singh 085845B CPO RC1, 15-05-91.
D Ram 090873F CPO RC1, 01-12-91.
R Saran 090985K CPO QA1, 01-09-91.
J Singh 091533F CPO UW1, 01-10-91.
OS Chauhan 093773Y CPO QA1, 01-01-92.
D Singh 094049Z CPO QA1, 15-11-91.
KD Javale 094516K CPO CD1, 01-09-91.
PS Mehta 095166N CPO UW1, 21-09-91.
I Ram 053410N MAA, 01-06-91.
SS Rawat 096114T CPO UC1, 01-01-92.
SD Mistry 053100H MAA, 01-05-91.
PB Annasaheb 053833Z MAA, 15-08-91.
RC Mohan 054423R MAA, 01-08-91.
S Ram 054473B MAA, 01-04-91.
SS Jaswal 055261W MAA, 15-07-91.
IS Minhas 095402Z MAA, 10-06-91.
B Singh 095881N MAA, 15-07-91.
M Lal 055152Y CPO TEL, 15-08-91.
JR Yadav 055198A CPO TEL, 01-05-91.
SK Sharma 094379Z CPO TEL, 18-10-91.
S Tiwari 095505H CPO TEL, 01-05-91.
T Chand 103174N CPO TEL, 20-5-91.
JR Gour 057713T CPO MA(SD1), 01-05-91.
KM Pandey 057743K CPO MA(BT1), 01-06-91.
R Rajak 059191A CPO MA (L 1), 25-04-91.
SK Karmakar 059218N CPO MA (UM1), 15-07-91.
PN Singh 059591K CPO MA(BT2), 15-06-91.
S David 105991R SCPO, 20-05-91.
B Ram 140463K SCPO, 10-04-91.
B Singh 140483F SCPO, 20-04-91.
R Kumar 140593F SCPO, 20-04-91.
KS Pillai 140599W SCPO, 20-04-91.
M Satyanarayana 140663R SCPO, 10-05-91.
R Singh 140667Z SCPO, 01-05-91.
O Prakash 104891R CPO WTR, 15-09-91.
SS Babu 105764Z CPO WTR, 01-08-91.
NS Ravi 106603F CPO WTR, 01-11-91.
SK Verma 140203W CPO WTR, 10-04-91.
J Chand 140634Z CPO WTR, 15-09-91.
R Singh 140648F CPO WTR, 01-09-91.
J Peter 140677Y CPO WTR, 01-08-91.
K Velavudhan 059996F CPO STD, 01-05-91.
H Chandra 140074A CPO STD, 01-04-91.
H Rualkhuma 140100K CPO STD, 10-04-91.
JR Bizania 140121H CPO STD, 20-04-91.

- J Chandra 059585Y CPO CK(O), 20-04-91.
 M Singh 059666F CPO CK(O), 10-04-90.
 MC Meena 069956T CPO CK(O), 20-04-91.
 B Khandekar 069966R CPO CK(O), 01-04-90.
 TO Varkey 058104F CPO CK(S), 01-06-91.
 KV Vijayan 069156Z CPO CK(S), 01-07-91.
 K Ram 055806H CPO TOP, 30-06-91.
 B Narsimha 068456H CPO TOP, 30-06-91.
 AK Datta 095802H CHA (AH), 01-05-91.
 M Singh 097079K CHA (AH), 01-05-91.
 GK Lohakare 097149W CHA (AH), 15-10-91.
 B Shinde 096147T CHA (SE), 01-12-91.
 T Singh 097845A CHA (SE), 01-10-91.
 S Lal 200633K CHA (SE), 15-12-91.
 G Singh 097486K CH ELA, 01-05-91.
 Y Thankachan 201163R CH ELA, 01-04-91.
 K Sreedharan 202737T CH ELA, 01-06-91.
 P Sadasivan 203112W CH ELA, 01-06-91.
 S Chandra 202337H CH ELAR, 01-04-91.
 NR Sharma 091980Y CPO AF, 01-04-91.
 HG Sharma 095378W CPO AF, 01-05-91.
 H Viswas 096192W CPO AF, 01-05-91.
 AG Ranganathan 096375K CPO AF, 01-05-91.
 R Prasad 094034R CPO AOF, 01-06-91.
 M Agbool 095703H CPO AOF, 01-04-91.
 R Partap 095911F CPO AOF, 01-04-91.
 K Ramachandran 190525N CH AA, 15-04-91.
 FD Cruse 190576B CH AA, 01-04-91.
 CG Ramadas 190643F CH AA, 01-05-91.
 C Ramakrishnan 190888N CH AA, 01-06-91.
 R Laut 203387W CH AM, 01-04-91.
 AK Naryal 140929W CH AM, 01-06-91.
 J Charely 200857W CH AM, 01-06-91.
 RK Shukla 202366Z CH AM, 01-06-91.
 LCH Raghu 203032N CH AM, 01-06-91.
 PS Chandel 201726W CH AM(W), 01-04-91.
 KCA Kumar 190507Y CH EAA, 01-04-91.
 CJ Thomas 190604T CHEAA, 01-05-91.
 M Jayaprakash 203774Z CH EAA, 01-06-91.
 KV Wilson 203831B CH EAA, 01-05-91.
 RN Yadav 148034T CH EAAR, 01-08-91.
 CVS Prakasarao 180292F CH EAAR, 01-06-91.
 AKS Chauhan 190493R CH EAAR, 01-04-91.
 VK Dimri 190530Z CH EAAR, 01-04-91.
 V Kumar 190556H CHEAAR, 01-04-91.
 D Chakraborty 190606Y CH EAAR, 01-05-91.
 P Lakshathipathi 190677H CH EAAR, 01-07-91.
 VP Tripathi 203518T CH EAAR, 01-04-91.
 A George 204146W CH EAAR, 01-04-91.
 R Singh 104228H CH ELP, 01-04-91.
 G Singh 104872Y CH ELP, 01-05-91.
 JS Nagra 200348N CH ELP, 01-05-91.
 RR Singh 200756R CH ELP, 01-05-91.
 V Singh 201079Z CH ELP, 15-05-91.
 R Prasad 104357A CH ELR, 01-05-91.
 R Singh 104721B CH ELR, 01-05-91.
 Tap Rao 200783A CH ELR, 01-05-91.
 J Singh 097506F CH ME, 01-06-91.
 K Singh 097507H CH ME, 01-05-91.
 SS Reddy 147066T CH ERA, 01-05-91.
 C Vijayarengan 180317N CH ERA, 01-04-91.
 J Sekkan 180318R CHERA, 01-04-91.
 R Kumar 180326H CH ERA, 01-04-91.
 R Sahni 180327K CH ERA, 01-04-91.
 SK Jaiswal 180329R CH ERA, 01-04-91.
 VR Chandrasekar 180335B CH ERA, 01-05-91.
 DK Sati 180336F CH ERA, 01-05-91.
 RK Kashyap 180349K CH ERA, 01-08-91.
 MB Krishnan 180352T CH ERA, 01-06-91.
 SS Rana 190658R CH ERA, 01-05-91.
 SK Singh 190714T CH ERA, 01-07-91.
 BS Dogra 190715W CH ERA, 01-05-91.
 DS Mehta 190717Z CH ERA, 01-05-91.
 VN Singh 190719B CH ERA, 01-05-91.
 H Singh 190789N CH ERA, 01-07-91.
 R Singh 190797F CH ERA, 01-07-91.
 PK Rajendran 190807B CH ERA, 01-07-91.
 R Verma 190808F CH ERA, 01-07-91.
 G Kanshi 094702H CH MECH, 01-07-91.
 SN Singh 095039Z CH MECH, 01-05-91.
 J Sharma 095076H CH MECH, 01-07-91.
 DP Ghosh 095796W CH MECH, 01-07-91.
 R Kumar 096692F CH MECH, 01-07-91.
 M Ram 097035K CH MECH, 01-05-91.
 GS Bhullar 097077F CH MECH, 01-07-91.
 S Singh 097641N CH MECH, 01-07-91.
 RK Singh 103455A CH MECH, 01-07-91.
 C Prabhakaran 180251N CH EAP, 10-04-91.
 PS Bhat 180257A CH EAP, 12-04-91.
 PK Singh 180260H CH EAP, 12-04-91.
 AK Verma 180275T CH EAP, 20-05-91.
 N Upadhyay 180301A CH EAP, 15-05-91.
 SK Sahu 180303F CH EAP, 25-05-91.
 PK Behera 190590K CH EAP, 01-05-91.
 GK Nayak 190602N CH EAP, 01-05-91.
 BN Tiwari 190605W CH EAP, 01-05-91.
 V Kumar 190623 CH EAP, 05-05-91.
 KN Sudhakaran 190634K CH EAP, 20-05-91.
 H Singh 190682W CH EAP, 01-06-91.
 VK Janu 190710H CH EAP, 01-05-91.
 C Sharma 203684W CH EAP, 01-05-91.
 HR Tripathi 203866H CH EAP, 15-05-91.
 B Singh 190446H CH EAP(C), 01-04-91.
 S Sharma 190601K CHEAP(C) 15-05-91.
 P Behera 190627W CHEAP(C), 01-05-91.
 KA Chamanlal 190675B CHEAP(C), 01-06-91.
 B Ram 190699H CHEAP(C), 01-06-91.
 PP Rai 203688B CHEAP(C), 01-05-91.
 PN Mishra 203693R CHEAP(C), 01-05-91.
 A Samsu 203736N CH EAP(C), 01-05-91.

- S Mohan 094297N CH WM, 15-04-91.
 MN Bhagwan 180333Z CHEAR, 01-04-91.
 JN Singh 180360K CHEAR, 10-04-91.
 MKM Chistry 09798H CH MECH R, 10-04-91.
 US Kushwaha 200037F CH MECH R, 10-04-91.
 D Chand 201362T CH MECH R, 10-04-91.
 B Singh 190791T CH SWA, 01-05-91.
 M Singh 204197K CH SWA, 01-05-91.
 KD Pathak 053546Y CPO UW1, 01-09-91.
 TD Banerjee 053756A CPO RP1, 01-02-92.
 P Singh 053938N CPO UC1, 11-02-92.
 PB Lal 054120A CPO RC1, 11-02-92.
 RM Thenappan 054144F CPO UC1, 21-02-92.
 B Singh 054198B CPO QA1, 01-02-92.
 P Chand 054906N CPO RC1, 11-02-92.
 M Lal 055017R CPO QA1, 01-02-92.
 S Singh 055053Y CPO QA1, 01-02-92.
 J Singh 055140W CPO UCI, 11-02-92.
 S Singh 055140W CPO UC1, 11-02-92.
 M Ali 055144B CPO UC1, 11-02-92.
 GC Dash 055260T CPO RC1, 01-01-92.
 PB Brahm 055393W CPO QA1, 11-02-92.
 B Ram 055674H CPO RC1, 11-02-92.
 D Krishan 085719T CPO RP1, 11-02-92.
 VD Pathak 085736F CPO RC1, 11-02-92.
 A Ram 085781H CPO QA1, 11-02-92.
 C Olganathan 091260K CPO QA1, 11-02-92.
 TVV Nair 092083F CPO RC1, 01-10-92.
 R Singh 092929B CPO RC1, 01-03-92.
 C Lal 092950A CPO QA1, 15-11-92.
 J Singh 093772W CPO UW1, 11-02-92.
 S Singh 093781R CPO RC1, 11-02-92.
 C Lal 093847R CPO QA1, 11-02-92.
 P Singh 093853B CPO RP1, 01-11-91.
 BS Patil 094813K CPO RP1, 21-02-92.
 R Singh 094971W CPO RP1, 11-02-92.
 DR Saini 095070W CPO RC1, 11-02-92.
 T Singh 096330H CPO RC1, 11-02-92.
 F Thomas 201136B CPO UC1, 15-01-92.
 H Chand 103073H MAA, 10-02-92.
 B. S. Brar 103831F MAA, 01-02-92.
 C Vijayan 105626K MAA, 05-02-92.
 PS Jasrotia 055080H CPORSPL, 01-08-91.
 SS Inda 140329F CPO MA SD1, 01-07-91.
 P Thomas 140253H SCPO, 01-02-91.
 P Singh 140126W CPO STD, 01-05-91.
 UV Krishnan 140154H CPO STD, 10-04-91.
 A Kumar 080892Y CPO CK(S), 30-9-91
 K Nand 081352T CPO CK(S), 01-04-91.
 RK Sharma 042966A CPOMUS, 01-04-91.
 KS Chanuhan 200435K CHA(SE), 15-02-92.
 AK Tarafdar 201149H CHA PH, 01-02-91.
 MKS Kumar 202401B CH ELAR, 01-04-91.
 N Das 200320Z CPO AF, 01-02-92.
 RG Sharma 201328R CPO AF, 15-02-92.
 J Sebastian 190636R CH EAA, 01-06-91.
 GB Bhatt 103060B CH ELR, 01-04-91.
 SD Mahto 140936K CH ELR, 01-04-91.
 A Saini 180330T CH ERA, 01-04-91.
 GR Velumani 180345A CH ERA, 01-05-91.
 KS Sikarwal 190656K CH ERA, 01-05-91.
 MU Srinivas 190718A CH ERA, 01-05-91.
 KR Jat 180734N CH ERA, 01-05-91.
 R Kumar 190798H CH ERA, 01-07-91.
 G Davis 190801R CH ERA, 01-07-91.
 BD Sharma 190806A CH ERA, 01-07-91.
 D Singh 055498H CH MECH, 01-07-91.
 BKP Singh 096287 KCH MECH, 01-04-91.
 BC Upreti 096888A CH MECH, 01-07-91.
 AK Srivastva 200165Y CH MECH, 01-07-91.
 G Mathivanan 180307R CH EAP, 01-06-91.
 SS Kundu 190622H CH EAP, 20-05-91.
 PP Rajagounda 190676F CH EAP, 01-06-91.
 PK Madhavan 190695Z CH EAP, 01-06-91.
 GS Rana 190589H CHEAP(C), 01-05-91.
 DY Rai 190611H CHEAP(C), 01-05-91.
 HC Singh 90661Y CHEAP(C), 01-06-91.
 M Rajiuddin 190671W CHEAP(C), 01-06-91.
 RK Gandhi 190673Z CHEAP(C), 01-06-91.
 AG Shedge 190681T CHEAP(C), 01-06-91.
 UC Rai 203690H CHEAP (C), 01-05-91.
 O Prakash 204170Z CHEAP(C), 01-05-91.
 VK Kurup 190836W CHEAR, 15-04-91.
 J Ram 190847W CHEAR, 15-04-91.
 B Ballabh 193051H CH MECH R, 10-04-91.
 R Rajendran 190882Z CH SWA, 01-05-91.
 R Kumar 203924R CH SWA, 01-04-91.
 AK Dixit 985655Y CPO SR1, 11-03-92.
 S Mahaboob 092434B CPO RC1, 21-03-92.
 J Singh 092602K CPO QA1, 21-03-92.
 S Lal 094312Y CPO PT1, 07-03-92.
 H Singh 094709Z CPO QA1, 21-03-92.
 J Singh 095763W CPO PT1, 06-03-92.
 KS Pandian 151353K CPO CK(S), 31-01-92.
 K Singh 140609T CPO WTR, 01-05-91.
 C Mohan 200344B CHA (AH), 01-03-92.
 VM Lal 200590N CH EAA, 01-07-91.
 S Saha 190597R CH EAAR, 01-04-91.
 B Singh 180351R CH ERA, 15-05-91.
 PC Sharma 096682H CH MECH, 28-01-92.
 R Swarup 190810K CH ERA, 01-08-91.
 SJ Raza 195158 CPO, 11-02-92.
 K Lal 081647N CPO TOP, 30-06-91.
 B Singh 089768W CPO, 01-11-91.
 DS Bisht 085306B CPO PT1, 01-04-92.
 B Singh 103126B MAA, 01-08-92.
 KS Minhas 103724N MAA, 01-06-92.
 RK Singh 200002A MAA, 01-07-92.
 K Bawari 094968N CPORAC, 10-04-92.
 K Bhushan 096269W CPORTEL, 10-06-92.

KS Abraham 096618N CPO TEL, 01-05-92.
 P Durairaju 096796T CPO TEL, 15-05-91.
 B Singh 103079Y CPO TEL, 01-06-92.
 RR Nair 103433A CPO TEL, 01-10-92.
 J Singh 092910K CPORSPL, 30-04-92.
 LG Kutty 097761K CPORSPL, 01-07-92.
 R Karan 140243K CPO MA(P 2), 01-06-92.
 S Singh 140499F CPO MA(MS1), 01-07-92.
 PM Chettiar 105613F CPO WTR, 01-06-92.
 PS Patwal 105897Y CPO WTR, 15-04-92.
 D Panduranga 140446Y CPO WTR, 10-04-92.
 U Singh 058082F CPO SFD, 05-04-92.
 R Kumar 140269W CPO SFD, 10-04-92.
 K Varghese 058150K CPO CK(S), 10-04-92.
 SS Gussain 0584e92N CPO CK(S), 10-04-92.
 D Datt 068277A CPO CK(S), 10-04-92.
 K Balakrishnan 069116H CPO CK(S), 10-04-92.
 H Singh 069563Z CPO CK(S), 10-04-92.
 P Varatharajan 082147Z CPO CK(S), 01-04-92.
 HN Chaudhary 082227F CPO CK(S), 10-04-92.
 D Pangam 082302A CPO CK(S), 05-04-92.
 R Rattan 082383K CPO CK(S), 05-04-92.
 K Lal 068480N CPO TOP, 01-05-92.
 RS Ram 081334A CPO TOP, 15-04-92.
 N Chand 081411A CPO TOP, 10-04-92.
 RS Kaundle 200737Y CHA PH, 01-05-92.
 A Kumar 201023Y CHA PH, 01-09-92.
 PV Thomas 202413F CH ELAR, 01-04-92.
 GA Tukaram 202769R CH AM, 01-04-92.
 GSP Rao 202774A CH AM, 01-01-92.
 K Chand 096555W CH AM(W), 01-04-92.
 JS Kumar 200070F CH AM(W), 01-05-92.
 D Behera 200368H CH AM(W), 01-06-92.
 B Pandey 201686B CH AM(W), 01-05-92.
 KS Verma 186017T CH EAA, 15-08-92.
 HS Kmabo 190594W CH EAA, 01-05-92.
 S Kumar 180369F CH EAAR, 01-08-92.
 J Lingaiah 180383K CH EAAR, 01-08-92.
 RV Shinde 190740A CH EAAR, 01-08-92.
 SK Sharma 203698A CH EAAR, 01-11-92.
 HO Singh 104837T CH ELP, 01-04-92.
 BV Baburao 200696B CH ELP, 05-04-92.
 BK Basak 200916B CH CLP, 10-04-92.
 KS Bhayera 104184H CH ELR, 12-04-92.
 P Viswanathan 105354T CH ELR, 05-04-92.
 VB George 200333B CH ELR, 10-04-92.
 N Singh 094464T CH ME, 15-05-92.
 SN Das 095749N CH ME, 01-10-92.
 RC Behera 097042A CH ME, 15-10-92.
 BS Yadav 103511B CH ME, 01-11-92.
 R Janarthanan 185083W CH ERA, 15-10-92.
 L Ali 095177N CH MECH, 01-08-92.
 PN Sharma 096369Y CH MECH, 01-08-92.
 SD Ram 202639W CHEAP(C), 10-04-92.

M. N. SUKUMARAN, Desk Officer

AIR BRANCH

No. 872, dated 19th August 1993.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

ACCOUNTS BRANCH

AIR CMDE TO BE SUBSTANTIVE AIR VICE MARSHAL

SHAM RAO, AVSM, VSM (6200) Accts-26-5-93

MET BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Gp Capt

OP Sharma (8617) MET—1-5-93.

AM SINGH,
Asstt Director of Personnel (Oftrs)-2A

(ARMY BRANCH)

No. 873, dated 20th August 1993.—The President is pleased to release the undermentioned AD Corps officers from Army Service :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Capt (Mrs) Seema G Nayak (DS-11737P), 22-6-93 (FN).

Capt Shital Kumar (DS-11711A), 16-5-93 (FN).

Capt Anil Kumar (DS-11713L), 16-5-93 (FN).

Capt Prasanta Kumar Sardar (DS-11712H), 16-5-93 (FN).

Capt Jai Ram (DS-11705M), 14-3-93 (FN).

Capt Ajay Navtar Karande (DS-11716Y), 30-6-93 (FN).

VK SOOD, Brig
Dy DGDS

No. 824, dated 20th August 1993.—The President is pleased to invalidate the undermentioned AD Corps officer from Army Service :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Lt Col PK Rathi (DR-10274Y), 21-05-93 (AN).

VK SOOD, Brig
Dy DGDS

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

No. 875, dated 25th August 1993.—The undermentioned officer retired from service on superannuation with effect from the date noted against his name :—

Workshop Officer Group 'B' Shri Utsav Singh Bisht—31 Jul 1993 (AN).

H R KHAJURIA,
EME Officer (Civ)
Offg JD EME (Civ)

The undermentioned Officer retired from service on attaining the age of superannuation viz 58 years with effect the date noted against his name :—

EME Officer (Civilian) Shri D K. Murghai—31 July 1993 (AN).

H R KHAJURIA,
EME Officer (Civ)
Offg JD EME (Civ)

(AIR FORCE)

No. 876 dated 20th August 1993.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service with effect from dates shown against his/their name.

INDIAN AIR FORCE

F (P) BRANCH

Wg Cdr AV Chhaya (11360) F (P)—31-5-93 (AD).

AE (L) BRANCH

Wg Cdr SJ Singh (11435)—31-5-93 (AD).

Wg Cdr AK Raina (12086)—31-5-93 (AD).

Wg Cdr C Palnivel (10795)—31-5-93 (AD).

Gp Capt Zakerya Bhai (9948)—15-5-93 (AD).

Wg Cdr JP Talwar (11744) AE (L)—21 Jan 93 (AD).

Wg Cdr RK Singh (11128) AE (L)—31 Jan 93 (AD).

Sqn Ldr PC Agrawal (13307) AE (L)—31 Jan 93 (AD).

Gp Capt SK Grover (8017) AE (M)—01 Feb 93 (AD).

Gp Capt VAN Desai (7110) AE (L)—28-2-93 (AD).

Sqn Ldr N Gopalan (12570) MET—30-11-92 (AD).

Wg Cdr KC Varma (8588) ADM—30-11-92 (AD).

EDN BRANCH

Plt Offr SK Bajpai (21962) ADM—22-12-92 (AD).

AE (L) BRANCH

Wg Cdr CJS Aulakh (13300) AE (L)—31-3-93 (AD).

Gp Capt V Ramani (6178) ADM—15-2-93 (AD).

V BALAGOPALAN, Sqn Ldr
ADPO 3(F)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDA

No. 877, dated 25th August 1993 —In Min of Def Notification No. 1203 dated 11 Dec 92, under heading 'The Raj Rif' sub heading 'To be Nb Sub' page No. 83, the following amendments are required to be carried out as under :—

Against No. 2870278M

For—Hav Surat Ram Jat

Read—Hav Surta Ram Jat

Against Hav Satpal Singh

For—(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16th Feb 1992).

Read—(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1992).

In Min of Def Notification No. 1225 dated 17 Dec 92, under heading 'The Raj Rif' sub heading 'To be Nb Sub' page No. 155 and 158 respectively, the following amendments are required to be carried out as under :—

Against Hav Sanapala Kamaraju

For—JC-224400

Read—JC-224400P

Against No. 2668367M

For—Hav Dharam Pal

Read—Hav Dharm Pal

In M of D Notification No. 1203 dated 11 Dec 1992 published in Gazette of India dated 09 Jan 1993 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and 'The Rajput Regiment' below 'To be Nb Sub' :—

For—Hav Shesh Nath Singh (No. 2872885A now JC-220739L), 4th Feb 1992.

Read—Hav Shesh Nath Singh (No. 2972885A now JC-220739L), 4th Feb 1992.

In Min of Def Notification No. 1203 dated 11 Dec 92 published in Gazette of India No. 02 dated 09 Jan 1993 under heading "REGULAR ARMY" sub heading 'Infantry' and The Bihar Regiment below to be Nb Sub :—

(a) For—"Hav Prabhudan Kujur (No. 4248141P now JC-222771Y), 1st May 1991*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 1991 without effect on pay and allowance).

Read—"Hav Prabhudan Kujur (No. 4248141P now JC-222771Y), 1st May 1992*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 1991 without effect on pay and allowance).

(b) For—"Hav Bal Deo Prasad Yadav (No. 4250446N now JC-222773K), 27th Feb 1992*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 08 Jan 1992 without effect on pay and allowance).

Read—"Hav Bal Deo Prasad Yadav (No. 4250446N now JC-222773K), 07th Feb 1992*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 08 Jan 1992 without effect on pay and allowance).

In M of D Notification No. 1389 dated 20 Sep 1990 published in Gazette of India dated 03 Nov 1990 under heading 'REGULAR ARMY', sub heading 'Infantry' and 'The Naga Regiment' below 'To be Nb Sub'.

For—"CHM Pan Singh Rawat (No. 4160294W now JC-196582P), 1st Jan 1990"

Delete—"The name of CHM Pan Singh Rawat (No. 4160294W now JC-196582P), dated 03 Nov 1990 being duplication.

In Ministry of Defence Notification No. 1203 dated 11th Dec 1992 published in Gazette of India dated 09 Jan 1993 under heading 'REGULAR ARMY' sub headings 'Infantry' and 'The Kumaon Regiment'.

Below 'To be Nb Sub'

For—"CHM Vijay Singh (No. 13608957W now JC-222741F), 01st May 1992

Read—"CHM Vijay Singh (No. 13608957W now JC-222741F), 21 July 1992**"

*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 1992 without effect on pay and allowances).

In M of D No'n 1203 dated 11th December 1992 published in the Gazette of India dated 9th January 1993 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and '4 GR' below 'To be Nb Sub' for 'Hav Krishna Bahadur Gurung (No. 5341328K now JC-6129002N), 1st Aug 1992' read 'Hav Krishna Bahadur Gurung (No. 5341328K now JC-612002P), 1st Aug 1992'.

In M of D Notn 1144 dated 18th November 1992 published in the Gazette of India dated 19th December 1992 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and '4 GR' below 'To be Sub' for 'Nb Sub Bhan Prasad Gurung (JC-161024P), 1st Aug 1992' read 'Nb Sub Dhan Prasad Gurung (JC-161024P), 1st Aug 1992'.

NARENDER SINGH,
Desk Officer

